वर्ण ब्रजआहि॥ ऊरूप वंदनो ब्राव
रूप ऊरूप गरूड वरनाहि॥ ६॥
[illegible]॥ मंदरस नभ्भर मंदराल
मंदर अलप अचल मंद॥ मंदरसूदन
रतेजगत॥ जैनन जैनंदनंद॥ ७॥
[illegible]॥ वारण ब्रहाथी वरज
नो॥ वारण पुनि सांन्नाह॥ वारण ग
ज हरि ऊब्रस्यो॥ आंनि गमोज
मनाह॥ ८॥ [illegible]॥ स्यंदन
जलब्रबहो ब्रहत॥ स्यंदन तिंत
रंग स्यंदन रथ जिहि सुक्रिये नी
लैआपश्रीरंग॥ ९॥ [illegible]
मंथा गगाहब्र वंशा॥ मंथी बंकुस्यो
राहहो॥ जो हरि ब्राये बियै बा॥ १०॥
[illegible]॥ क्रोंस्नि ब्र गुगलर
ब्रपुनि॥ क्रो स्नि ब्र ऊल नाम॥ क्रो
स्नि ब्र लिस्ना सिंन जिहि जाने र

घ्रवररांम॥८४॥पुष्करनांम॥पुष्करज
लपुस्करगगनपुस्करसुंगयंद
पुष्करतीरथपापहर।पुष्करनैनगो
विंद॥८५॥अंबरनाम॥अंबरआछ
तअहक्कहत।अंबरगगनसुनाइ
अंबरपीतसुस्यांमतनु।जनुतडि
रहिलुनाइ॥८६॥संवरनांम॥संवर
जलसंवरअसुर।संवरसैलअ
नूप।संवरवांधहुगांगहि।कृष्ण
नांमसुघरूप॥८७॥कंवलनांम॥कं
वलगोगलतनकहत।कंवलज
लपरवाह।कंवलधेनचरावतै
औदतजगकेनाह॥८८॥नागनाम
नागपुन्नओनागगज।नागदुष्ट
नरवांम।नागसर्पसंसारकह।त्रि
घर्मनहरिनांम॥८९॥कर्णनाम॥क
र्णकहावैरवतनय।कर्णकेपनि
कांन।कनोटीनांव।ज...

धारनगवांन॥६०॥द्विजनांम॥द्वि
जपंषीकोकहतहै॥द्विजकहीये
पुनिदंत॥तीनवर्णद्वजतबलले
जबुजांनहनगवंत॥६१॥अजनां
म॥अजबकरा॥अजपितामह॥अ
जकहापुनिईस॥अजजोवनन
रनरकहत॥अजपकेजगदीस॥६
शिवनाम॥शिवसुषशिवकल्याण
पुनि॥श्रेहपुरषशिवसोइ॥शिवशं
करशिवसलिलऔ॥कमसदाशि
वहोइ॥६३॥विरोचननांम॥वह्नि
विरोचनसूर्यपुनिचंदविरोचन
गात॥दैतविरोचनधन्यसो॥जा
बलिसोनात॥६४॥बलिनांम॥बलि
लहरिबलगजरी॥बलिनोजन
बलिनाग॥बलिराजाकीजांणब
लिजाहियहरिअनुराग॥६५॥
हरिनाम॥हरूपावककहरूहतकवि

रस्पतिदहाको नांम॥रसदानव लदेवस्तिव॥राषेसुंदरसांम॥९५॥
रजनांम॥रजराजस आर करज॥रजजंव तामेहोइ॥रजधूलीरज पापकछु॥हरिनिर्मलजलधोइ॥९६॥
कुसनांम॥कुसस्तीतासुतदनीकुस॥कुसकहीयेपुनिनीर॥कुसदानवदमिषारिकात हांवसोव लिबीर॥९७॥कंकूनांम॥नूवननांम
कंकुसंषसोकंकुगज॥कंकुरक्रोनांम॥नुवनगन सोनूवनजल॥त्रिनुवनेनाइकसांम॥९८॥कूटनांम॥कूटवलनसोकूटगिर॥सोरे
हनिकूंटरकहत॥कूटरूपरकहै निपरतज॥नजलैमननगवंत॥९९॥षरनांम॥षरराषससुरसोन षर षरतीहण्को नांम॥षरगंधी
नसमतेजगत॥जेनन

नाम॥ ९ ॥ कूजम के नांम॥ तुजमंगल
कूजन्नमं ल्छुमां॥ कजन्नोमासुरन
मं॥ यम्मयुगयम्मयमरायतै राषहु
सुंदरसनांम॥ १० ॥ हिरणी नांम॥ हर
णीअंतमां हेमंत्री॥ हरणीमृगत्रीत
य॥ हरणीजोधीजास्तत्री॥ मूलमाल
हरिहीय॥ ११ ॥ धात्री नांम॥ धात्री
त्र हियेत आवला॥ धात्रीधाईवष
ना॥ धात्रीधरणीस्तीस्तपर॥ स्तोहन
तिलपरवांन॥ १२ ॥ रसना नांम॥ रस
नात्रीत्रनित्रवित्रहत॥ रसनावकु
स्तौदांम॥ रसनाजीह्वासुवसुहै॥
त्रौनलेतहरिनांम॥ १३ ॥ स्त्रिवद
न॥ स्त्रिवास्तंतुत्रीसुंदरीस्त्रिवास्म
रत्रीनांम॥ स्त्रिवाहरडजिमरोग
हर॥ इमत्रांघहरहरिनांम॥ १४ ॥
रंना नांम॥ रंनात्रहियैत्रपवरा॥
रंनात्रदलीनांम॥ रन्नागोत्रूलगा॥

यधुनि॥ जिनमोहे घनस्याम॥९७॥म
यानांम॥मायाछलमायादया॥माया
नेहक्रहत॥मायामोहनलालक्री॥जि
नमोहेजगजंत॥९८॥इलानाम॥इल
महीबुधतियइला॥ईलाअम्राऋ
न्निरांम॥इलासरस्वतीसोनत्ती॥जा
मेहरिक्रोनांम॥९९॥जोतिनांम॥जो
तिनषित्रअग्रजोतिदुति॥ज्योति
नेत्रऔआग॥जोतव्रहस्सोइनंद
ग्रहारलोचनंदहोलागि॥१००॥सु
मनानाम॥सुमनाक्रहीयेमालती
॥सुमनामुदितातीय॥सुमनारति
औव्रीन्हसों॥क्रारिलेलंपरजीय॥१०१॥
इडानांम॥इडाक्रहतनत्रदेवता॥
इडाऋमित्रअन्निरांम॥रडाअवक्रा
मांतमो॥रतिदीजैहरिनांम॥१०२॥
तिस्ताअजानांम॥तिस्ताजां
हक्रहत॥तिस्ताहरिक्रा

बागमाया अजा॥ जिन मोहे अ
ज वांम॥१०३॥ विधि नांम॥ विधि वे
धा विध देव पुन॥ विधि कहियै जु
विधांन॥ विधि कै विधि हरि जो स
ष्मोई विध परिवांन॥१०४॥ जिहन नां
म॥ जिह अमल सकरि बिलित नं
॥ जिह कहा वैमूढ॥ जिह कपरत
जिह रि नजो॥ घर घर पर गरगूढ
॥१०५॥ हस्त नांम॥ हस्त कह हतगज
सुंरु कह हस्त नष नसु नांई॥ हस्त
हाथ तैंआरि जिनि नरहीरातनपा
ई॥१०६॥ [illegible] नांम॥ अगमस्तास्त्र
कतांतस्त्रव॥ पुनि कतांत सिधांत
यम कतांत क्री नास्त तै॥ नाताक
मलाक्रांत॥१०७॥ मित्र नांम॥ मित्र
अगनि क्री नाम॥ मित्र मित्र अस्त्रव
जगत कै पकै सुंदर स्यांम॥१०८॥ स

ंगनांम॥रविस्तत्रिहयगयगग
गिरा॥क्रेहरिक्रुंजकुरंग॥वातिक्रद
रदीपन्अलि॥एक्रहीऐंस्तारंग॥१०९
हरिनांम॥इंदुवंदअरिविंदअलि॥
क्रपिक्रेहरिक्रेक्रांन॥क्रंचनक्रामकुरंग
वन॥घनक्रोदंडनन्तनांन॥११०॥पांनी
पावक्रपवनपय॥गिरिगजनागनरिं
द॥एहरिईनक्रेसुकुरमन॥हरिईस्व
रगोविंद॥१११॥ध्रुवनांम॥ध्रुवनिश्च
यध्रुवंजोगपुन॥ध्रुवजुपदध्रुवता
ल॥ध्रुवतारेजिमतेंअटल॥गुं नति
जगुनगोपाल॥११२॥सुमनस्तनांम
सुमनस्तमनसुमनस्तपुहप॥सुम
स्तवकुरवस्तंत॥सुमनस्ततेजिन
निवस्तै॥क्रोमल,क्रमलाक्रंत॥११३॥
रपनांम॥विटपस्तिंगपल्लवविट
ऐटपक्रहंतविस्तार विटपदो
तंदकुमार॥१

[illegible] दांनजुद्विजकहतदीजियत
गजमदकहियैदांन॥दांनसोंवरो
लेतवन॥गोपीप्रेमनिदांन॥[illegible]
[illegible]॥रसनवरसघृतरसअम
तरसविषअरुरसनीरसवरस
कोरसप्रेमरस॥जाकैवसवलवीर
[illegible]॥तेलसोहसनेह
घृतवऊरसनेहसोह॥सोनिज
वरतनिगिरधरन॥नंददासकहदे
व॥[illegible]॥जोइहअनेकअर्थकहपटै
सुनेनरकोय॥ताकोअनंतअर्थइह
पुनिपरमारथहोय॥[illegible]
[illegible]नेकार्थकृति[illegible]
[illegible]॥पोथीलीषीपांडीरावंदहरष
चंदोतमोदीसतीनापजालिषमी
नापजीराकैटारेलिषीहैसवत१८
२१रानाद्रवावदर५व्रसपतवारनाते
निसानेरांमरांमहैश्रीरस्तू॥

उदा: गारीजंमेंणीनहीः नजोरुट
अुणांनट: गीणीपाढीवाउ:न गावसी
अंस जंगरचग: णी जापागारीवन:
डुजांणीरिरजगणी: मणांपीजग
कीणजाणुडाणणीवसीपीहीडुग
राजेदीडुणी: नापीडुजीजापगुण
जमनानुजीजोप: जांडृतणंपृडु
डै: डाणजाणुडीणणीप:डें जेडां
जापीजांपीः पी: जांपीः जांपीज
जारीजीप. पासेंवटडु पांवण
जावणंणहीपनहीहीप० ० ० जडुरा
डिगु: मीन्मुतरजारपाटरीः विसपाल टड्व
परगारमाकिनवनीण: डाणेपदेद्गा

ગાધનડૅમ આ વા: બાકમાં [illegible] આગ[illegible]
૧ ૨ા ૩ા ૪ા ૫ા ૧૦ા ૧૧ા ૧૨ા ૧૩ા ૧૪ા [illegible] ૨૧ા ૨૨ા

રીપુ ધ જે ડ ૯ ધા [illegible] ધા
૩૦ા ૩૧ા ૩૨ા ૩૩ા ૩૪ ૩૫ા૪૦ા ૪૧ા૪૨ા૪૩ા૪૪ા૪૫ા

ડ઼ા
૨ા૫૩

॥ક્ષ॥

ગા ગા ધ ન ડૅ મ આ વા: બાકમાં
૧ ૨ા ૩ા ૪ા ૫ા [illegible] [illegible] ૧ ૧૧ ૧૧ા

ધા ટા: આ રી પુ ધ જે ડ ૯ ધા: ઉ
૪ા ૧૫ા × ૨૧ા ૨૨ા ૨૩ા ૨૪ા ૨૫ા

ધા ગોગ્ન પૂ:
૩૨ા ૩૩ા ૩૪ા ૩૫ા

॥ક્ષ॥

ગા ગા ધ ન ડૅ મ આ વા: બા
૧ ૨ા ૩ા ૪ા ૫ા ૧૦ા ૧૧ા ૧૨ા ૧૩ા

આ ગા ધ ટા આ રી પુ
૨૧ા ૨૨ા ૩ા ૨૪ા ૨૫ા ૩૦ા ૧ ૨ા

ધા
૪૦ા ૪૧ા ૪૨ા ૩ા ૪૪ા ૪૫ા ૫૦ા ૫૧ા

ડગધકેનકેનાંધનુ: આપનમેનહીઆંબ: વડેગે

: [illegible] કુધીઉનકુંવમ:॥

આવનનીપમીબાઉધ્યા:પડ્ડપો

[illegible]

वितकहातेकराहैमेवकमपामहै
जुकी:विप्रनप्रसादककुजापतं
पानीहैकहागिरगुरावेसक्रमो
मनोगमाच्योः कुपरकवापककुजे
नहरांनीहैकमोतेपुरांनसुनोमु
तदुपदांनदीनौवुपगपुवकुहे
।सजना१०२०७८७०७९पा
ककककककककककककककककककककक
षोमारीकोकउनहिजकेनःन
कोकमवकमनमारतःमनिमदि
विवरनबोनदेवरीकबारतः
उ१कजमनतीदेतःमधुरहीउनी
नःमेहिजरतपगमरतःमकुनाहि
तीकमावतःफिरीपदमककवरसाव
कसनकरतःमारीहीकीन

श्रीगणेशायनमः

॥ श्रींपगांठरीपनानिषने:ॐनमीचादमगनुउं:का
मीजीवीसजानी:जानाइमार:नीउजनाणी:जाना
नुकरसेव:रणाक्रस्मीमाहादेव:कुषाकुएसोजी:
गाक्रदादरी:गीरषांठरी:णामवांनाणी:गाटहे
जी:गीरीमाहीडी:श्रंगहीजी:कपालहीजी:लोगहे
जी:वीनोगहीजी:ठवहीजी:ठीप्रहीजी:नामाटउ
मी:मीउमी:सेहप्रउमी:जानाइमार:नीउन
णी:जानानुकरसेव:रणाक्रस्मीईमारमाहादे
व:श्रीजीरेलरवीषे:श्राहाश्राहावीरतंकप्ना:व
कामीश्रीट:मदीवरीमीरांणी:नाषचोम:नन
माणउजनणयाली:नावकरणचीउमयोनी
कमरमेषोकेअरठनंतांपेणा:नदुकान:नठम
णाकुंमारके:दाषणेमागहीजीनीमारी:नीठ
मगाकुंमार:नापनीर:हणानंतकासा:नाणु
नीरहंणानंतउठणजगा:उक्रीण:कांकानो
मवी:कहिंकुनाया:नवयीमननदाचुवेगाया
णा:जगणवीणाानवी:वेराजा:वंश्रीपीन
श्रीजीरेनरवीषे:श्राहाश्राहावीरतंकप्ना:ह्रीं
गडप्रकीजो:मवाचीनपरजनणरहसा:
राजारांमसंप्रसादाद्धप्ना:वणिरवार:हण
यंत:श्रीउकुंकारकुट:श्राकरकीमीनामेवाट
मनुंप्रमेयुहाई:मतुंप्रमेगरमठकेक्रणाचु
णजी:नगरमठराची:नगरउणाएनगरउणार
नानमेक्रीमेनेउि:नीगमेकीमकेकी:श्री

[illegible]

॥अथकोकसास्त्रलिषंते:गदपद्यातलमरसं
हे:राजानीरषमैंनलभीराजाछे:तीणरीसोटीम
हीमाछे:तीणरीमहीमाकरतांपारआवेनहीं:
डाकपरेसातछत्रधरावेछे:तीणराजारेसातपे
अधानछे:तीणअधानांमेपरधानसाततपा
दसवसाछे:तीणरानांमलिषंते:पेहलोसोना
गढसः दुजोमोहणसेठ:तीजोकांमराज:चोथो
नदमसोर:पांचमोभरत्रसेण:छगेढप्रजार:
सातमोकोकदेव:आठमोकांमकोयन:नव
मोहंसनंदन:दसमीनांमसमुद्र॥१०॥अधा
नारानांवसलभरण:सातआसत्रीयारानां
मलिषंते:॥पेहलीकांमसेण:दुजीसंद्राव
ली:तीजीपदमणी:चोथीकमलकुंदल:पांच
मीतंद्रवदनी:छठीकोकला:सातमीमीर
गावती:पेराजारेसातपटराणीछे:राज
अकुकामी:सरबलंयन:साबआंबगकोर्स
णणहार:राजानेआछेडार्षवारीबुस
पणी:माहाउमनीयांन:राजादसपणे

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ए कैपो ऐ [redacted] बेगपाः भ्नउजनाक्षीयाः
जनीस्सबदीञौएाजनारदाःञनेझराजा
प्रजाःनारसारङ्गमासजीतबीःकमावुं
ञलेकउणीञनञायाःसबञोपणीञो
पणीगेउबेगःराजासबापुरीबेगःनीए
सभेउरबदीसप्पीपंबणीजोगणीञाई
परसावदुसीकेक्षीःञनीउंदरःसरबगुड
कीनोणगदारःनीणसावनंगनदोपञाय
जनीरदीःपठैराजादेषीञनरजकवीःञर
दीदीसारकवीःनबराजानीजनीरसेनीःक
दीउंनगंनझदांप्पीञाईः[redacted]कुंणकेःनब
जनीरनायउभीयोःनबझदोउंपंबणी
जोगणीकुःकुरबदीसप्पीञाईःञरझे
यावागीःराजानीरवसनेञादेषीनोञ
ञंसनीदिषउंःनीदीप्पीनागनकजेःञसनी
झीनाजञामनतोनझरेःनबंञायानजनी
रनाउैःराजानीनेझदीःनबराजाउबपायोः
बनासांहप्पीनीतरपधारसाःराजासी

कनीमी जाम:मीचामगळभपरविरामी
मोरुजधांनाकुंखाधा:गांवमांहेठो सीघ
जडीछजोगणीनमीनै:मीणनेटकाजीडवद
मीटीक्रसु:मीणमामेजोगणीबीची:मेलाबद
धांनमीना:हरायउकधा:जबचाचातउखी:
रान्नादेमामेबबरकराई:क्रहीछमाजोगणीन
नै:मीणनेबीछावकीक्रसु:मीछजोक्रीछठे:छेद
जोगणीनमीनै:जबराजाबीहवामाराणबी
नबराजाचांपणामनमेचीमाराणक्रीचो:क्रह
चाळागी:क्रीक्रदयेजमपात्री:वीरतने)णठे:मोहि
मीमनमेणीणी:मीणामामेराजारीरांणीबीची:
क्रहेबाळागी:माहाराजईणनेमनेमोनेक्रउरण
छे:मीक्रामजुवेनीवनाउ:नररामारांणीनउबी
मो:क्रुंणउरपछे:नररांणीक्रहे:आपरचरधांन
क्रीक्रदये:अमात्रीबीरनजीणठे:नररानाक्रीक्रदय
नबंधीबांनाउक्रुनायो:अरउबीयो:जबक्रे
क्रदयेजरजक्रीमी:माहाराजनेनारबधक्रु:म
नहीनादमारीमीमबुवेनो:गरेजायजमाज:
जाबीदीहमे:जदजोणांपंडणीजोगणीनेछु

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ਜੋਗਣੀ ਨੇ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ਜੋਗਣੀ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ਜੋਗਣੀ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

मदुकरे:पछेश्रीगणेशजी:माहाराजमे
प्रणाम्नीसा:गणेशश्रीक्रदेवनीजीनीयो
मनुक्रोरुक्रोदिपाक:नीवावास्तेकबीर्णग
णी:मेहेराजाप्रणामनमस्कारअवमस्करउक्रमा:प
श्रीक्रदेवमारीश्रीश्रीहीदिपीयी:नश्रीनी
क्रदेवनेनश्री:नीएमोहरीमाकूवसुनाईनीए
पछराजाकही:म्मानपछेश्रीएगिगहरुण्यादर
हीकरनी:श्रीक्रदेवपरणाके:नरपंजणीजीग
मीजी:म्मानपछेरुहीमाम्नी:श्रीएाहीगहुरुण
यादनहीकहु:पछेश्रीक्रदेवनेश्रीगणेपरणाई
राजाश्रीहनमांनदीघी:नेमांबदीघी:चारपंब
दीश्रीगणेनिकेश्रापी:पछेश्रीक्रदेवपंचणीर
नांब:श्रीनागउदरीदीनी:नगयाश्रीश्रीक्रदेवश्री
क्रमामानपरक्रामश्रीघी:नदेहवेसक्रार:नेनापर
माकरे:कंद्रूपकहांकहारहे:श्रीएनरेजाग:॥ श्री
उसक्रार:नमनीक्रामरहपरखो:॥रानीजज
र:नमनीकंद्राकहांकहारहे:॥श्रीएगनरेजि
श्रीपछेसक्रार:नमनीक्रानिमाहै:कनवप्र

कंदूरगपीऊथैनीबारडै:आगमेअहारे:पी
नगढ़री.नयमेजहारे:छरषहोकंदूपआपे
घणो:गपाअमानीग्रीआपघणो:जेजीबद
कहंतीमीघऊवे:दमनमेजहारे:मीरामीआ
मगढ़हा.११७१पदमणी:१मनाणी.२हमन
णी:कुमांपणी:सांसुमारवरीअमनीयांऊवेठे:
अमपपदमणीहाउंई(लिणते:ओगप१०६:
नांगी:ओगप२७मोजी.पंरणनांपारीपांम
डीमरीणी.गंद्रमरनी:मुणहीपामांहमाउरीम
रणी:गावहुरामीरणीओगवीयां:दमनमाउ
मकंदहीहवमारीणी:होगपानवा:नोहराच
नहमरीणा:मावदहीहवमारीणी:नीचाडओ
गवन्नोगओगव३नामाहाडपारीयैग:मा
नहावहूंमाही.ऊरमपांमाव(आनीकं गए:री
मड्ढेपरणा(.नाकपेठु:पटपानडी:होमवदी
माती:नयरर(:नानीऊंकी:नांबलीनानीर
मा:वीरंहीनारंगीमारणी.मरणनोनागान
गाडुवलीऊडे:आवगांपदमपडे:मोनागा
णी:उनांयांनी(:पोडीमोन:नागहैहे
दमरदीप.माणरीनीनन
मीणागारमीणारहे

सिउजमीनःमोमद्रसाटदेवैःपु
पुरबसीवांछाङ्करेः मोगमपीऊणपांवछे
मनापोहरपसीश्रावेः अमघोभावनातं
मरीषीःवासनाभावेः मसनङ्करपेरनोम
नामः श्रेष्ठपुरबसीवांछाङ्करेः ॥१॥ अपमनगर
क्षागुणविंपतेः मोगव२००गांवीः मोगव
रगोषीःसुषनंक्षमामरीषीः नेनोमगजेसा
मीगभीबीःवांगदाउमसीहुवीःवीवाउमो
गुरु४ःकंगगाचमदीनामवेनीपाऊपरेपोमःरा
नापमानरऊपरेभीहनेनावःगोहरदीयरीनो
गवांमेः ओनरोगमपोवीभंगधःमीनापद
एमीमरीबीःमोगमपीऊणपांवछेवामभं
यचावे मपममनरणीक्षागुण सापुरपगःमा
मपहमानणीक्षागुणविंपतेः मोगव१२०
ांबीःमोगव३०गोषीःमावसंसानणीमरी
ःसुषमीगभीबीःसुषमंक्षायोरहेः सुरु
गोटीःमङावचांमेःदोनचवनाः नांगा
ीःपोरीभीटीःभीवमोटीमावलीःम

याहरेनोगप्पीऊणीपांपडै:ऊपरीपा
मामेंद्रकामारपीआवे:हमतणीकागुए
मधुरए:॥३॥ अप्परमीघडणीकागुडाविंघ
तेःअनऊंमीनहीआतनीघीनहीं:हार
पंगकमीनाहोण:अतीमायरमाडीहोण:
जगडपीजीमनकेहीजे:पेरमाअडनाव
मःकीममनीमनकेहीजे:पढेयीरमच
कमानाकहीजे:मीएमीरीमीर्वांनराम
होण:नीदमीहनम्पे:ऊमामीघणीचाने:
नेअमनीनीगमणीवांमे:नेअमनीम
पारःऊंगेहमेघणी:मीकाअमनीगुरमन
वांमामीजीकरे:गीऊंठीमीके:अरलारनार
ऊवडे:नेपरमरनामारीघणीमनाकरे:नी
मनेवीनामननेणीजे:नेअमनीनानीऊ
आजीराजे:ऊकेगीऊनहीरहे:मेनकहीम:
जेहनेकेद्रपघणीआपे:नेअमनीनीचे
कवीनहीमवजे:जकाअमनी:मायगं
पढीनाईपी:माजवीजकरे:मीकेवीडी:
मावकऊपरेलाण:हीघणीम्पे:नारनार
... हिरे ... ॥चान॥ ६

नि ज्ञीगनीङ्कुरुजीजीपती:पगप
चीजीजीप:नीक्रावीचाजवाजीप:ऊचमन
क्राचागुगक्रीनर्गःगाची कुरुणीजीपती
नक्रारनवंनीचणीजीप:नारनारनैमारे
जक्राचमनी:नारगुमाजीप:गुमैनजीजे
प:चमनानंनक्रीवीरपी:वरक्रनीरजे
चनगीरीनजी:चनरक्राचीनजी:चीप
मांडिरानीरखिजीप:मादचीजीजीप:ज
णचमनतीक्रीजीनुजानगरवजीप:नए
चमनतीक्री:नारनारनुमेजीप:नएनार
नारडनीपवणीनजी:नीक्राचमनीपरवि
रजडनीगक्रे:नीक्राचमनीलारनार
डनीङ्गजीजीजी:नीचवंनी:नजीजीप
नेङचमनीरक्रांगवापिपणी:नीए
चमनीक्रीवीमावामनजीप्राने:नैच
नीनेगीङ्गचीमिची:गुक्राने:चमनी
जीनानीजीजीङवेनी:नीणरोङुरपडनी
माजाङने:डजनीरडक्रीक्रदवक्रथजी

त्रीप्रकारलिषते:अमत्रीक्षीक्ष द्रप:क्रो
क्रोरेहिठे:ऊजावीउक्षेमक्षदीन:नावाप
मक्षरहे:बीजक्षदीनपंगांपंवीरहे:बीज
क्षदीनपीडीवामे:गीपक्षदीनपीपरीवीरे:
पोनमक्षदीन:नेगमोप्पववीमे:छगक्षदी
नक्षणीपावीमे:मोनमक्षदीनरोगवीमे:
ज्ञागमक्षदीन:नान्दीवीमे:नेमक्षदीन
कुंमपवचवीमे:देमामक्षदीनकंगवीमे:छप:
रमाक्षदीन:अधरवीमे:बारमक्षदीन:०२
दीवीमे:तेरमक्षदीन:तनेवीमे:मणदमक्षे
दीन:चौ:सारादमांहेरहे:छनमरेदीनमु:
रधपमनक्षवीमे:इतीश्रीतषीपप्रकारमपुष्
ज्ञापमीवीप्रकारलिषंते:पुक्षगईनमठ
ज्ञगाईजे:छजेगाईपुजावीजे:गीजेमाई:मे
नक्षीपांक्षो:नाणक्षीकनीने:माएकारीजे:
गानवे:नेत्रपंपीवीजे:पुजावीजे:अमी
मांपरमवीजे:घोएपीजेनगाईजे:जागी
मांपठेमानोगमक्षरेनो:आमानीछपणावे:
इतीनीजनीक्षरेनोहुपपावे:अमनीप
रमामोत्रेक्षीक्षवनो:नाणमानीछमनाक्षरे
[illegible] ।:।।

...बोणेबद्दश्रमाई श्री:
कुळपरदनश्रीजे:अधरपानपरश्री श्री
श्रेयोरीपरसर्व श्रीस्मेनो:हीम्रे श्रेश्रेग
हजे:हीरदाउनांगीरहीजे:कुनाचाजे:पर
सपरपेलीजे:नानाचश्रीपांगनाबेऊजनहि
पावे:ईनीचयकदरलीगरुरनीऊपपावे:
पेलीचमलनीश्रीकं द्रपत्रीमे:नपापुरजबराबर
श्रेइपैजापीसेनोचणीऊजपाने:नपामीरी
श्रीकं द्रपर्पेहजापीसेनीएरीचीध:जपपउ
जमानंगणदेही:ऊजनदिज:क कुमरदनश्री
:हसोसरदनश्री:ई श्रीनायमलनीश्रीनानी
जपर:नागपरिउब:पमीने:नीनाना हजो
नइश्रुमेली:चीजचीणहजाईजे:नबउ
न:जमलनीनिऊहावे:जेपैजपने:जमनी
ऊनइये:जमलनीउरपबराबरपीसेने
गोऊपइये:अपमीचीप्रकारसपुरण:
नपांग्पीप्रकारविपते:ईनिजमनी
नीन:नीनप्रकारश्राक्रीपा:ईश्रमनी

ਕਮਚ:ਮੀਸਰਿਜਿਆਰ ਸੋਗਾਨ੨੨:ਕਮਚ ਹੈ
ਪੋਤ੍ਰਿਸੇ ਪਪਾਭੁਰਪਕੀ ਦੀ ਕੀਕਪੀਤ੍ਰ ਸਤਾਰ
ਕਹੀਨੈ ਅਸ਼ਕੋਗੋਆਂਗਾਨ੨੩ ਮਰੇ ਸੋਗਾਨ੨੪
ਮੀਸਟੀਸੋਗਾਨ੧੨:ਅਸਮਾਨੀ ਕੀ ਕਮਚ
ਉਰਪਕੀ ਦੀ ਕੀਸਾਸੇ:ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੇਤੀਉਬ
ਕਪੜੇ:ਅਸਮਾਨੀ ਕੀ ਕਾਂਨਾਖੀ:ਉਰਪਕੀ ਦੀ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਪਤੀ ਸਾਹਾਉਬਕਪੜੇ:ਅਸਮਾਨੀ
ਕਾਨੀਨਾਖੀ:ਉਰਪਕੀ ਦੀ ਕੀਕੀ ਹੀਪਤੀ:ਕ
ਸਤਰੁਟਿ:ਅਸਮਾਨੀ ਖੀਏਸੇ:ਅਸਮਾਨੀ ਪਰਸ
ਛਿਸਾਰਿਨਾਪ ਜਾਰਿ ਕੀ ਕੁ ਖੇਨਾਦ ਕਮਚ ਉਗ
ਉ:ਜੀਪੀਗਾਰ ਕਮਚ ਉਪਗੀਪਾਸੰਗਾਸਕਰੇ
ਗੋਬਖੀਸੇ:ਜੈਕਸਾਬਉਪਾਣਿਪਾਸੰਗਾਕ
ਰੋਗੋਗੋ ਹੋਸੇ:ਅਪੰਰਾਜਾਪਾਬਕੋ ਹੋਪਤੀ
ਸੀਨਟਜਾਕੋ ਦੀਜੈ:ਸੀਕਪਾਖੀਜੈ:ਨਾਂਖਾ
ਪੁਰਬਨਸਾਏ:ਦੀਨਸਾਨਨਾਪਾਆਗਪਰਬ
ਨੀਗ੍ਰਿਕੀਜੈ:ਦੁਪਰਬਦੀਸਨੋਦੇਸਨਹੀ:ਸਾਪ
ਸਪਾਂਸਉਪਿਰਪੀਪਰਹੈ:ਪਠਿਕਪਰੇ
ਪਰਨਾਰਹੋਪ੍ਰਨੀਕਪਰੇ:ਜੀਗਰਨਾਰਹੈ
ਹੀਪਨੀਤ੍ਰਿਸੇਹਨਾਕਰੇ:ਜੀਤ੍ਰਸਸੋਵੇ
੮੨ ੧:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

मांगरुरुगो: [illegible] दीगहीहीप: [illegible]
रुपवरमामी [illegible] चामानरी [illegible]
नोगरुरनो: नीरमलहीप वरसमीचे
पछे [illegible] नोगरुरनो: मलवंनहीप: मो
नरुामीहीप: नवरमावरिशी [illegible] मानरी
[illegible] गरुनारह [illegible] पछे [illegible] नोगरु
दीरु: पछे रुरेनो [illegible] वीयाये: मामद
मामा [illegible] हीप: वरीनया वरी: पुरव
रुमानरीमीनपारुीवाप: नेपुरणरुी [illegible]
चोगवदुहीदीनो: [illegible] रुरुदीनाई [illegible]
गरुरे नेपुरपरुी [illegible] चोगवरहीपनो
पुरपम [illegible] नारुीनाई [illegible] फरे नेपुरपरुी
[illegible] हीचोगमन्वरुीहीपनो: चोजारुी
[illegible] फरे रुपवरुमानरीरुनोनचो
[illegible] नीचोजानीपरमे [illegible] फरे: ने
[illegible] रुमानरीरुनोन चोगमन्वरुीहीपनो:
चोजानी [illegible] नो: नोचामानरीरुनोन [illegible]
गलदरुीहीपनो [illegible] परुीमामा [illegible] जुन:
नेरुमानरीरुनोन चोगनवदु [illegible] हीपनो
[illegible]

…रे:अरसीरीडीजैगोवि
होवतो चोगादेवरे होवतो:तेडेरस
ऋद्धपहुंलमस्मो:तेमअसमानरीडापग
जंभाराणी:गोगडेरो डबसो: जेचर
नरीकीजीननांहलीझ्यातो:डेरबडीह
गोगदेवरझ्यातो:असमानरीपाघरीड
चारीजे:पडेगोगडरेगोडप झ्यो:चे
चरीमगोपडारसपुति:अपचडगोग
डारेजिषतो:अपचापुरणअसमानरीगो
डुरवावीजे:पुरणअसमानरीगोगडेरोब:
असमानरीनेबोईबगादेडानीडबारीजे:
आमाचानडानमांइलीजे:चोईरडब
नाडलीजे:जोनदपोलीजे:पडईद्रीमां
लाइलीजे:लसामामा:पडहलीजे:लाम
मोडुडीनी:गोनमांइपी:ईद्रीडाट
डीजे:पाडोलमोमामालडेर:पघारीजे:
मलीमोडडीनी:असमानरीपुरण

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ: ਤੋ
ਸੀਗੰਧ ਆਵਨਹੀ: ਤਬ ਕਸਤੂਰੀ ਕਿ
ਉਪਨਾ ਕਰੀ: ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪ
ਕਰੀ: ਤੀਰੋਵਿ ਸੀਗੰਧ ਜਾਪ: ਦੀਨ ਸਰ
ਨੋਬੀਤੋਜਾਯ: ਸੀ ਜਰਾਨ ਹੋਯ ਬਸਾਨ
ਪਹਿਰ: ਤਿਸ ਗੋਪਾਂ ਨਾ ਦੀਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਹੇ: ਨੇ
ਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ: ਅਸਾਨਾਰੀ ਸੋਗੋ ਕੁਰਬਾ
ਕਾਂ ਸਾਕੀ ਆਂਤੁਰ ਤਨੇ: ਕੁਰਬਾਣੀ ਆਸਾਨਾ
ਕੁਰਬਾਨ ਦੇਸੀ: ਸੀ ਹੀ ਬੀਰ ਜਾ ਬਹੀਪ: ੳ
ਬਹੀਪ: ਅਸਾਂ ਤਨੋ ਸਾਕਾਰਸ ਕੁਰਬਾਨ: ਅਸਾ
ਸਾਨਾ ਸੀਸ ਕਾਰ ਕਿ ਲਨੇ: ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਕਹੀ ਤਨੇ: ਕੇ
ਦ੍ਰਸੀ ਹਾਂ ਸੀ ਹਾਂ ਪੀ ਜਾਗੇ ਤਨੇ: ਤਿਸ ਨੀਨਾ ਕਿਆ ਪੀ
ਜਾਗੇ ਤਨੇ: ਕੁਰਬੀ ਹੀ ਪਾਪੀ ਜਾਗੇ ਤਨੇ: ਨੀ ਜੀ ਈ ਦੀ
ਬੀਜਾਗੇ: ਤੋਕੇ ਅਸਾਨਾਰੀ: ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂ ਪਾਂ ਆਕੀ
ਜਾਗੇਨੀ ਤੋਕੇ: ਸੀ ਹਕੁਰਬਾਨ ਕੀ ਹਿ ਕੁ: ਅਸਾਨਾਰ
ਜੀਨ ਪੀ ਜਾਗੇ: ਤੋਕੇ ਅਸਾਨਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਪਾਵੇ
ਸ ਪਾ ਪੈ: ਸੀ ਏ ਜਾਨਤਾਂ ਕੀ ...

गपर्क हीन्हे. नीनद्दिशीपं ज्रुपीते: [illegible]
जपन्ने उभपावेनाछ्रावीषय: उ ९टांभ
पश्चामलगांयटांक्र: [illegible] टांक्षश्चमे नवां
टांजे. गायक्रछुयगथाविंजि: पेळपाइन्न:
नीलाबीबनक्रस्ता. पानवपे: उन [illegible] नीगप
गीपजटांक्र उयगथाव. जनावजि [illegible]
टाइन्न पेटक्षाटनि उक्षाइन्न: पांटांजि:
नेहगांहिषांजटांक्र यावजि: नेहराई
टांक्र गनागे: पाइन्न. जपरउय
पांजि: नेगबपयहोण. अपवेपनपांभ:
उ ०: आमगांय: शावायउराक्ष्ऋव:
लागीय: [illegible] लींगवेपक्षांजे. वी
पजजि: [illegible] नागे
जक्षारन उंगी. [illegible]
नेह उरयक्षा नेहि [illegible]
[illegible] डेया क्ष
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

मार०४ङ्कौाक्षीतिःपर्वमहुङगाव
चीतिःमीपारीङ्गेपांनःनैरानी
मात्रङ्क:३ड्रीॐ:ङांमवघःटु
मघ:नीछमखानरीःऊरपङ्गोहीप
नमी:नरनरीहोपनीःपीएङ्गांम
नैःगनीहोपनीःऊरपङ्कनाङ्कमीं
डीङ्करःपणीङ्करनीहुपपावःङ्गांम
होपःनमींगङ्कीपांपर्हुपङ्काली
घ:नीएमांहीजांङ्गयालीतिःपांङ्न
चांङ्कीनीःमारीस्नावङ्कीनहोपःमी
मीपघःमनेवाएङ्गांहुङ्कमारन्न
स्मांङ्की
राङ्गाऊटःवदीतिःनीहांपीहोङ्क१८मां
राङ्गाहुवःमारहुमीःवापाऊङ्गाङ्क्ति
हरङ्कङ्गावीजयांङ्क१८नीपकमारमा
चीःपीरङ्कैप्टांङ्क१८ःवीनीयायांङ्क
ङ्मारवल्हङ्कगङ्कीतिःपीनमापमनीःटां

आंचहोपनीपक्राचीजपः सीप१८
परीईश्रीनक्रे. क्रोंमहीपहेमः ३१६
काचीपपः कुंग: अगरः नमबीरः १५
गमाकपना: क्रायरकः जपंजी नाग
क्रेमार: क्रपकश्रीपरी: क्रुरयांक्रन
रीयांक्रनऽमारपचीपप. च्यीनमे
मीकाप: वांटीक्रे. नेगाचीपदमे:
नतीचीपापांक्र. चाकक्रे: पी१
क्रीहपवीजमांप: मीकापीपी
नीपक्रि: नीजगपक्राक्रि: क्रनकपं
होप: अपकुनाचीपपः मीरमरं
[illegible]

...ोजा:१२९:
राकागुजगीचीबांधीजे:१
रामाणगीचीबांधीजे:रोमानी१०
जोगवे:ईसीबवहोप:मोरीरनी
डोहोप:मीतघणीबांधे:मोरीरसी
बलहोप:नेहसोपदवोटी:सांवोजे
मांहयोवाघाडे:बराबरघोचीजे:
जानकाकटांकडुघाईजे:नेहजूपरडु
णीधीजे:डीलनीडोहोप:कगकल
होप:अपचागीप्राकारसापुटी:
पचनावगोघ्राकारलिपते:कंघुपुरप
घणीबांधीतेगायत्रीनामीडे:थामन
मोपनीहोयनीपुरषनमीडे:तोकुंकर
मन:मोपनीहोयनी:दीनारनेकजने
:उपरसीचोवाटी:मुशीतीनडेमांपची
मोरीर:मरदनाडीमीय:पटमीवल
होवी:पटेजनामणीडेतेकजता

परस्तीकोगेणीगीवीजेःमाकुमाअनंचा
ये:उनमानमाय:तहऊपरागामक्रीव
वगीवजेःमावाईमीसाइजेःमांही
क्राप्पीएवरीउधीजेःपढौकोयडमाडीः
आपपक्रवक्रामांहवोरजःनुक्षीकारीउफ
उःकरवीकोःएकनकरीःमीवारमाउगी
वीबांधजेःगीचवसमांदःनगीवी
आगसुकुयउउबांधजेःनहीगीव
आमनकीजोनमांहयाडजेःजेहा
वीकाठजेःपढेवांयाउकाईजेः
आमनीहोईध्रपवापेनवईहजावी
चतुदुहीपरहेजीहउरबजपरमन
होयःनीक्षीयांनकरीःनवउपनामे
हमीकेःउरपमीनक्षीउवहोयक्रा
गमापःपढसम्राररक्रहाजःमानी
जनकरीःऊपरगौंगणाईःउक्रउर
नणवगावीःपढगीवीवीमांदर
कणरमरीःऊपरसुघडेजमायेःदु
पहगावेजीहजमान । १८

ाक्रोनीवक्रुईसोवे:नो
गहक्रोमीजांक्रसोउवहोप:क्रांम
क्षीमो:दोलनातजीमेदुधोवे:धा
उोनघाई:चमनत्रीहोक्षंद्रपक्षेपे:
दुरपवत्र मीवेतो:यरष्ठक्षोगलक्रम
जी:पांहेनीधोमुक्ष:पांहेदहीमुक्ष:
पछेमापेलगाडी:परदनाक्षर:कडध
क्राउनउकगार:पछेषेयावतामेलो
उनाहवे:मोपीपणनधावी:दाचमा
दरउघाप:मेनघाई:चपपवाडचे
नदक्षर:नीक्षोउपकेमावो:क्षदंपधी
त:नीहदुरपक्षोईक्षीनांनीहोयःत
क्षेमापर चमक्षगक्षरीमरदनक्षीजः
क्षमवमीउक्षहनीगरेन्दुक्ष
तेनीमरदनक्षीजःकपरीपटमीरहेक्ष
र:पडोनागुर्मोप जीमःवीदाम
जी:यक्षरोटमीयमाःमेघाभाइत

जीनणाह्नीहोपनो:ह्येलीजपरतेक्षपल
जपरक्ष्युडीजि:पढीहोनुणपढमेपोड
दीज़ि:जेनहीए जुगे:नबळगोपोडदीज़ि:
पढेलोगडीजे:ढेषहोम:जीनमोटीहे
प:जीनमोटीहोपतीनीनीकरवाह्नी
षद:कनङ्कवीजरांङन्त्राजमीटांङ
ङ्ञावीररावीजरांङगङ्घुटांङमारवा
पांटीढेवोजि:मीलमाढेगीलीनां
नीजेढापाढेङ्गाङ्कि:गीलीचीगङ्र
नाःपणीरूपह्लीलीजि:जीनपांहे
गीलीदीपाफ्क्लि:बङ्कुमाह्नुनङ्रे.
पणीनढपे:जपरेहोगनमामाहे
लीमीजीचनमी:लेपङ्करीजि:गीजेन
नीह्नीहोप:जमसानीङ्गामाननढीन
होप:ढेगानढहोपनीणरार्चीपद:
पजेनलाल्जाणीढेङ्गाह्नजि:गीह
नीजङ्गालीजि:गीणरीरमङ्गाढीजि:
नहोहोंहे:ढेवोङ्गीमीनारम:मुङ्गीजि:
पढेमामानीलमीलीक्षेजि:न

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

उँ ऐसोगङरेतेइसोताङ्करे:दुलीमद
गंसामलए:इङ्कपगऊसीङ्करी:
पढेसोगङ्करेतोसीबमचामलए:मी
मीपगऊमारापीसोगङ्करे:तेइ
उगउवाऱ्चामलए।इङ्कचमंती
उरपऊपरमटोङ्करेमोवीपरीन
चामलए।बंपाऊपरदीनुपगरापी
ङ्करे:तेइसोबदीपचामलए।।१।।इङ्क
गऊमीरापीसोगङ्करे तेउचपादाचाम
ला।।३।।इङ्कपगनीमीरापीसोगङ्करे ते
ङ्कुपवाचामलए।।४।।सनउबरदीमो
ङ्करे तेसोनविपाचामलए।।५।।चाङ्कम
मुपरापीसोगङ्करे:तेउरागचामलए।।६।।
टीमलएजेङ्कइङ्कगङ्करी:सोगङ्करेतेटीमलए
चामलए।।७।।पगपङ्कुङ्करीमेबमीनेसो
गङ्करे तेटीमङ्करवपरीनचामलए।।८।।
१०।।१०।।बंपीनेऊगुगपारीति
।।१।।जमटपदुवा:चामङ
।।७।।१।। ।।८।।१८

रुचनः इद्रि त्रीनमांहिचोतीजः पठेन्
गङ्गरेन नैन्नचानमरु ॥१४॥ त्रीङ्कन
श्रीगङ्गरावेनः नेमुल्कानमरु ॥१५॥
पुरपत्रन त्रीनमांहिचोननेरहः
नचिहिऽपर्ष श्रीगङ्गरावेः श्रीचानम
नः नेहीतच्यानमरु ॥१६॥ पगवनेत
नारार्पननः श्रीनेसंः ङ्गरावेः नेपदर्ग
नीसनरकेंचानमरु ॥१७॥ पङ्कपगलेन
रेङ्कपगन नेपी नेः श्रीगङ्गरेनः गेङ्क
ट्यानमरु ॥१८॥ पगकङ्केसारार्ग
श्रीगङ्कः नेमुपल्कंडुगं च्यामरु ॥१
विरचितकांकापगङेः तीसरेतेत
नश्रीगङ्गरेनपीश्चानमरु ॥२०॥
लेनपोवपीनत्रीजीनवेमारीजः
च्यापजपरवेश्री तजिः श्रीदुरप
हाप्यपीनाश्रीपांनोरत्रेः श्रीगङ्क

राणे: नोहीमन्नामणः॥२२१॥ पुरमणी
गोरीगोराउन्नारायणेः संगछरे ते पुं
दन्नामणः॥२२२॥ श्रीनीरु श्रीणनीउदो
नीमउयाणेः संगछरे ते पेसुनन्ना
मणः॥२२३॥ हाष्यणग जिकुन्नायग
उंबंधीः पगाग उंबंधीनेः संगछरे
गेबाजन्नामणः॥२२४॥ श्रीनोउपपाछ
णवनेः संनीगछरेनेः दुपगमरन्ना
मणः॥२२५॥ जावीपा कुडबंधीजेः
नीमणीपगकुडीराणीः नेसंगछरेः
तेणादेणाटन्नामणः॥२२६॥ श्रीनाणग
पीनाउपटुकनाराणेः पुरमजपर
जमीनेः संगछरे ते पीगन्नामणः॥२२
जयाउरयेनसंगछरे ते उरवन्नाम
जीउइः जपरश्री
णः॥२२८॥ पुरमजं
अमारीजेः होपकराणीजेः तेपरर
न्नामणः॥२२९॥ पुरमणउयाडीनेः
मान्काउजपर अमीःनेदोजमोरप
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

धुरजनविपाडेन: मीजणरलामनीसी
क्षर: तेनेगरआमसए:।।१८।।मीरनीप
रसौगक्षरतेगीरआमसए:।।१९।।पाक
नीपरसौगक्षर: तेपारपआमसए:।।२०।।
बीडानीपरसौगक्षरते: मीडआमसए:।।
मीगनीपरसीदोडे: पठेडुरषपाला
भीदोडे: नैडेपाडेनसौगक्षर: ते
मीगआमसए:।।२०।। मीहनीपरसौगक्ष
रतेहीमीपआमसए:।।२१।। हामीनीप
रसौगक्षर: तेगनआमसए:।।२२।। ठ
पटानीपरसौगक्षरते: ठपटआमसए
भीनदोडेनीपरजन्रापीनेसौ
क्षरते: दोडआमसए:।।२३।। दीवाली
रदीनजरिहातमांहे: दीवीनवाली
धुरजनीसौगक्षर: तेदीपपाल
आमसए:।।२४।। हीलीरदीनधुरज
नीरसगात: अनीरउवाव: क्षरीन
रीपापक्षा: जरमांहेजापनै: कौ
॥ हीलजा॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ११६ [illegible]

[illegible] ११८ [illegible]

[illegible] ११९ [illegible]

[illegible]

[illegible] १२० [illegible]

[illegible] १२१ [illegible]

[illegible] १२२ [illegible]

[illegible] १२३ [illegible]

[illegible]

[illegible] १२४ [illegible]

[illegible] १२५

[illegible]

[illegible] १२६ [illegible]

[illegible]

[illegible] १२७ [illegible]

यद्रमासए:७ज [illegible] णामीकराम
नणाक्षीना:नरेमेजमीआई:मीमा
मनए:कुविवसंपेन:वगाइनि:थी
कुराते:नेद्रसुमनामसए:११९८
आरद्राते थीकुराते:उपमीनाम
नामसए:११९८ न्हुगालनीपरथी
कुरातेन्हुगालनामसए:११९८ कुर
नीपरथी कुरातेकुर नामसए
११९८ प्रमामसए पेहिन्नी कुइ ६७:
मीथे:श्रीकृदवपंन: कुइ ६७:थी
मामन्तपेकुइ ६७:ठकुरमीनार
जमानेन्चरथे:पदमपंकारकुइ
७:पनेपेयांमीनामतुराइंजां
थीमारनाउपमांडिमये:कुवे:
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

१	१५	[illegible]
२	१४	[illegible]
३	१३	[illegible]
४	१२	[illegible]
५	११	[illegible]
६	१०	[illegible]
७	९	[illegible]
८	८	[illegible]
शुक्लपक्ष:॥		[illegible]
९	७	[illegible]
१०	६	[illegible]
११	५	[illegible]
१२	४	[illegible]
१३	३	[illegible]
१४	२	[illegible]
१५	१	[illegible]
६	६	[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्रीगणेशायनमः

अथजमसत्रीयांतणीख्यातीलिख्यतेराज:
यांतणीजमसत्रीथी:तीफ्रेउफ्रणमीवे है:
मलेछांनपैगंबरकनेगइ:पैगंबरनेकुरण
पो:पैगंबरसाहीब.मांहेरेछिगाजनख्वे:
मोक्षीमतवांमतै:तदपैगंबरसलेमांनकुर
साणी:औरनक्षीवातऔरतहीजछै:त
दपैगंबरसूलकमेउ:छिदुरीपरीयांत्रोल
हाजरकरै:तदपरीयांनैपैगंबरकुरण
पो:सारेछेजीजनख्वेमोक्षीसेवामाते
तदपरीयांअरजकीवी:पैगंबरसाहे
बअमीरतक्षिमोगरीगख्वेछै:तीणमे
सुंकीएकहीअजारख्योतीवाजख्वे:तदपै
गंबरसाहीबकुरमायो:मागरीगहफी
साखेवेफहो:तदपरीयांकहेछै:पैव
रीगइ:तीणउंबीजणक्षा
१११बीजीरोचरणरोभि
जायोख्वे:तीणउंबीजरेहर्ज
जेरणमेंगउ मेगोसतपछो
१७हमेउक्रजाय:॥३॥मे
...

सोकुरनाय:छ्रेसैगेधरेणध्पांकोम्वे:
सीणङंसीनपाक्केनेही:गछनाय:सोरन
मेसैगेसोक्नेकोक्नेरिदीसंजोणीजे:
नीणङसीजधरेनी:नदसवेसोंनपक्रं
मरक्रहो:पूरैगक्रीणनांतजोणीजे:नध
परीपांक्रहो:मरद्सरिचोंतरीपङे तरेन
णीजे:सीणरीयेणात:रीतरेसोंतरेसार
दक्रेर:तीनोणीजेधरणक्षीरगक्ष:रीत
क्रायांपंछे:देहीक्रंपेतीनोणीजेधरण
रोङकेवायपक्रजीपीजेणीजे:रीतरेचों
तरेक्रेवरधरदक्रेरती:धरणणेगीसर
अंचीपीनोणीजे :मरीतरेचोंतरेपोकी
दरदक्रेरतीक्रीकोपजपीनोणीजे:रीत
रेचोंतरेहोकपुरणीकुंवती:धरणणे
ह्रजोणीजे:रीतरेचोंतरेजातीदरदक्र
रेती:धरणगकोनोणीजे:रीतरेचों
तरेक्रीणहीजायगदरदनाम्वेती:
दवपरीयांरीयाक्रनेजिबीरीदीम
फहीजे:गतीणहाजपंसारक्रहेंछे:धर
णाहीरगईकुंवेती:नीणानेक्रोमीयां

रीगीर:कुरगाणार स्योगीणारागीगी
गारीगीणी:इणांदीनुइरीकुंबीयणा
पणेमीप्यीनायांपछे:कुबीजीनाला
इराणीजे:गारदकनेजायेनारेवारेस्यो
टीजे:इणारदीनातीनकीजे:तीजीदु
स्ये:चरणरीउकीवायणकणीपीस्ये
गी:हीगनेमेगीतीवलीवारीजीपी
गीणरीकुंबीकरनेदीनातीनजीनामे
रापीजेजीदुस्ये:चरणमेगीस्वाहा
चांणीक्ये:वीणानेनीरीमपद:
हाणीरीनाब:मांरनेमारमेले
न:उकुंबीकरनेदीनातीनजीनमेराप
जेजीदुस्ये:चरणमेकीजीपणीपे
स्यीगी:नीरीमाहु:दरके:बेहडा:वां
गीवारनेःमानीरापीणीउंजीपद
चीननेदुनीकुंबीकरने:जीनमेदे
नातीनरापीजेःजीदुस्ये:चरणम
[illegible]

जरणगाडा स्वेना: [redacted]

तां[redacted]रापेणी:ऊ हीनीझं श्री नि ग्रीय

नेदीनगीनज्रीनमाहरापीक्ष छोदु

[redacted] दीमाटप

णोम्वेनीणनैऊजन्नवीपीनेक्षोग

दूजपरवीपी[redacted]दवी

नी:	दो:	श्री:	फु:	जं:	श्रे:
७	७	७	७	७	७
७	७	७	७	ऊ	७

णगिचाफणी:

णोयवीऊ

नारीकोरीफुर

नोगब्रवाम

णी:[redacted]दु स्व

णीठे:

हरीहेनेपरीपांजआपजआपेरग

क्षांणेगहि:माक्षेश्रांनपक्षेबरऊप

पक्षीनो:वोदुस्वामिगवीरनीर्कटे:

हीवाऊणीरीऊचामनपुरछ:।ग्

)श्रीगणेशायनमः

[illegible]

ਮੋਟ ਪੁਹਾ: ਟਾ੨ ਪੁਕਸੀ: ਟਾ੨ ਛਾਜਿਉ ਪਾਰੀਟ
ਨਸੀਵਲਾ: ਟਾ੨ ਬਹੋੜਾ: ਟਾ੨ ਛੋਟੀ ਹਰਕੋ: ਟਾ੨ ਜੁਟ
ਟਾ੨ ਜਾਕੁਰੰਗ: ਟਾ੨ ਮਾਰਾਬਰੀ ਬਰਯਾਰੀ: ਪਾਲੀ
ਉਂਬੀਰ ਮਾਨਗੋਜੀ ਫ਼ਰਜ਼ੋਨਮੋ ਬੀਜੇ: ਸੰਪੂਰਨ
ਨਾਮਾ: ੧੨੭ ਬਾਗਸਰੀ ਪੀਰ: ਜੀਹੋਸਪਦ: ੧
ਪੀਉਂ ~~ਮੋ~~ ਪੂਬੀਟਰੀ ਜੋਨਮਾਂ ਹੇਰਾ ਪੀਜੇ:
ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਮਾ: ੧੨੮ ਮਹਲੁ ੧:

॥श्रीगणेशायनमः॥अथराजनी
तराज्ञवतदेविलाससकतलिषते
॥कवित॥नीततेंधरमधरमतेंसक
लसिधि॥नीतहीतेंआदरसभान
वीचपाईये॥नीततेंअनीतछुटे नी
तहीतेंसुषलूटे नीतलियेबोलेन
लीचकाकहाइये॥नीतहीतेंराज
राजे नीतहीतेंपातसाही नीतकौ
नअंगकमांहिजसगाइये॥छोटन
कोबडेकरेंवडेमहावडेकरें॥तातेस
वहीकूंराजनीतहीसुनाइये॥१॥कौन
यहदेसकौनकालकौनबैरीमेरोकौं
नमेरोहितुमेरीढिगतेंनटारवो॥
कतीकआयपदकतोषरचकेतोकव
लतेहीनमानमोहीसुषतेनिकार
बो॥संपतकीआवनकौकौनमेरेअव
रोधताहीकौनपावहियेंदावनरया
रवो॥राजनीतराजनकौदिनमतदे

वीदासम्यारघरीरातरहैइतनौ
विचारिबौ ॥ २ ॥ छोटेछोटेगुलन
कौंसुरनकीबारकरै ॥ पातरसेपो
धापांनीपोषकरपारबौ करलीकू
लबादेंकेकूलमो हिलिवेबरिघुनै
दरषतपकेगेरतेजमारबौ ॥ नेनै
परपायनतैटेकदेदेवंधेकरै ॥ ऊंचे
बढिगपतेजरूरकाटमारबौ ॥ रा
जनकोंमालिनकोंदिनप्रतिदेवी
दास ॥ ध्यारघरीरातरहैइतनौ
विचारबौ ॥ ३ ॥ ओरन्नतजाहिवकु
लोकनसौविरहोयदूसराकरतजा
हिघरमगहैरेनही ॥ करतकरतजा
हितपजेकलेस्तवकु ॥ रलअैसोला
गेजासौपेटकुनरेनही ॥ अतिछोटे
कंमआैसोकूलमैकियोनहोय ॥ आत
हीडुरंतजासौपूरोकूपरेनही ॥ देवि

दासजामिलान्नपरववरासुतही
वुधवान त्वैहैजैसोहारजंहरेंन
ही॥ येह नहे वोल लोल तोलहल
हैरु भीलझोग़ीयेहही॥अविचारन
सभेंतहै॥हही॥ारहीतान्नलेनरहीतो
अतिनलेजैसेतौमनुषमहीहीनजा
नेहे रहै॥स्रोचसिरलियेंविरलेस
रलदेवीदासरेंनदिनअपनेविचा
रमेंसचेतहै॥याहीतेवहेपुरषकोलिं
वमीलि॥ हो॥ ...कीसजिंवोलका
कुरषजानदेतहै॥ सुमेंपरसोपरा
म्रंसोपपरभौरराषि॥ह्लपरमि
...हिंज्वाहोंवहाहैतहै॥ सरानो
नृतराषि॥ ... ...पैंववनुप
गोनजं सुषरवे... ...
...परवामसरोपविर्परो॥अमृद...
...गपरपानी... ...जन...
॥देवीदा...

वघांनीस्त वैंवातलायक्रुपेराबैराज
नीतहैं तनकै सौ तिनगा छिनकुमां
जवानहुरैं ज्यौंकुरजरबंठक्रुरैं क्वारवार
वनियेकौनेमांज बालकुसो विलवा
स्तहुरबैगेदावपरैवंदरहाहुकैनां
हिहनिये ॥ जैस्तीहैसुवेदक्रांटांजोक्री
रिरसौंहीहोयचुलायेनजौलौंनौं
लौंमूलवैं नपनियेंवसुधाकेवीर
जोविजयवाहेतौंक्रौंविरवैसंघर
वेरमाघक्रोटेनहिगीनिये ॥ ॥ क्री
रतक्रौमुलपकुरेनदानदांनदक्रौ ॥
घरमक्रौमुलपकुस्तायपहियांनवौ
॥ वटिवेक्रौमूलपकुवंबौमनराष
वौहे ॥ जानवेक्रौमूलपकुनलीवात
मांनबौस्तायवकुनौजनजपाघनु
लहांस्तीदेवीदारीदुक्रौमुलपकुजा
लस्तवपांनवौ ॥ हीरनेक्रौमूलपकु
जानुरीहेरिपमांज ॥ वानुरीक्रौमू
लपकुवातकुहीजांनवौ ॥ ॥ नुम

तातैंजस्तजायगर्वतैंलछजाय॥कुना
रतैंकुलजायजोगजायसंगतैं॥रू
षतैंम्रजादजायलराये तैंपुनजाये
॥सोचतैंसरीरजायसीलताकुसंग
तैं॥कपटतैंधरमजायलीभतैवडाई
जायमांगवेतैंमांनजायपापजाय
गंगतैं॥नीतविनराजजायक्रोधतैं
तपस्याजायदेवीदास्सरजकुलीजाय
कुरेजंगतैं॥८॥मैमंतमतंगदेषसो
जवंतुरंगदेषजीतेछैजजंगदेषप
रजाकरदेतहैं॥गाढेगढओरदेषसु
रनकीओरदेषसंपतओरदेषसु
षसोंसवेतहैं॥देवीदासतोपैनृपनी
तनकीरीतयहैवेरीपैंवयेगोर्ईसदा
सावधतहैं॥ नाको जेसेसुंदरसर
वांछितवातीछितनतेलछितदिये
कोवयारमार[illegible]तहैं॥१०॥देषोती
नलोकतैंग्रकीयअंधकारपीटकर

ह्रीनोजैसैस्नानकरकैवदोतहैं॥वा
सेनीमगनदेपरवकैकौहोरहीहै
पलमैकैहोरजगछायोजोतपोत
हैं॥कुवकूप्रकासयाजप्रकासकौदेख
यदेत॥कुवकूगजनगाजैतिमरकौ
जातहैं॥हरसांनैतिमरनूंवेगरहै
तिमरारीवेरवारेछावकूजसावधा
नहोतहैं॥५१॥पकूरविगैठवदेत
दवजायतमसवहीकुभावहोत
दोमहावनानाकी॥तीनौलोकतिम
रतीरायतिमरारीविनपैवुरीनहै
यमिटैत्रिलोकनवायकी॥कुजैसे
रवारहैजगतवाटवारहैकौजाय
तिहिवारमहाप्रलयवलायकी
नलीपकनायकहैसोकुजीनहै
यतौयावुरीवकुनायकीतेनीकौवि
रनायकी॥५२॥दानवकोमासकुय
लेकैमधुसूदनमेदनीवनाईजैसै
वेदनमैगायोहै॥जैसीयापिनाक

घके नृ जहें नृ पस्नवजस्म सौ सुनाम्न
मायतौ हीमनन्नायी है॥ नृपनहल
यजौ हि देषत ही देवीदास्मतौ नकूर
जा सौ ई माई पूतजा यौ है॥ अरी है
प्यारनीवीनारन हीदीनदुष माहि
वतौ सोई परसे स्वरवनायौ है॥ ८९॥
मुंढनृपजौ अजाप्रजा हिमारषायौ
कहै ताकौ पहकारही तौ नृपत निद
न्हे॥ बुधवासु कवि कै परनामकौ वि
चारे सितअजाप्रजा वारतौ अने
क षानपान है॥ देवीदास्म कहें नृपपा
लत है पौष देकै अजाप्रजा विसकौ
जौ नतस्नु जौव है॥ आमिनतें दुषतें
अथावि कैठ वारतातें राजनकौ पारवै
प्रजाअजाममानहि॥ ९०॥ दिलनम
गई वासौ लपटे है लोक तातें दिलन
कौ मापी तिन्हें कहा लोठ गवैगौ॥ पृत
तौ कू चोरीया कोन कूर कहावे यौ
टौ है सब कौ वटास

गायहिंकालपीमिस्रकाकुंजातहिवांको
नपियेगोसुनंबीहोकहावेगो॥ द्वी
दसयाहिखिनआटबागोवाहेस्तो
बांतनकुरावेगोकेगालनकुरावेगो॥
॥ अरसोगुमांनकरेदारदीह्वेसवे
घर॥ सुखीओरेअनुसरेऐसोगुट
ओरहे॥ ग्यानीकुवेप्रपंचरावेसंमा
रीगनैनपांवेराजाह्वेरूपनताके
सुमसिरमोरहे॥ गनीकाकुंरूपघन
वांनहेवरखीरीघमवांघकेसिप
लनयोसानदिनजोरहे॥ जगमेजो
वसियेनोहमीयेनकाकुदेवीहमो
ईजोवाहेलोपहसवेकीगेरहे॥
संगलियेचतुरंगचमुंगढकोटअवा
ससवेविचजोकं॥ कोमनीवासह
प्यारतरकुगकाघरसुरमेआरनको
जं॥ आयपरेनहीनीरतपद्वजो
लोंचयारबलीजरबीजं॥ तोलगि
तुलकोपाधरकोसुपहारपहारवरा

बरदोक॥१७॥जलसुधसविकृत
सुंदरबंबलहोयनहीपुननूपर॥बो
जलऔरबकेथलकोसबकोसहमेस
रहेमनधुपर॥आयपरेजोनलीसु
बुरीसोलेईबनायसबेसिरऊपर॥
पकृकवितकहेदेवीदासविचारकुथ
नप्रधानदुकुंपर॥१८॥औसरसों
सनीआडीदहि ताकोठविलियें॥
जुकसोंजटीहैंताकेअंगअवदातहैं॥
सोवसोंसनीहेमनहरसोंमिलीहैं
विचारेपरनामनीकोमीगीसोतानआ
घातहैं॥आपंरनथोरीऔरअर्थक
रमहावकीऔरकोहितुहैंजाकेसुनेंदु
खजातहैं॥वेदकीसीवांनीवातसोई
वातकेहावतदेवीदास॥औरवातवी
तनकीवातहैं॥१९॥सरदकीचांदनी
सेऊजरेअमोलसुनसुंदरसुवृतने
दुरायेदुरवेकेहैं॥वकेगुनवंतदेवी

दासमनमोहलेतपानपस्त्रोपूरनसु
नरनरखेहैं॥ काकपक्षपूरसोहुरा
ईकुरपूरटगपेस्त्रीरमृंढमोस्योवाहेहे
नसुरवेहैं॥ मित्रनकेमनमोतिस्त्र
टहुकेवैनयेसुलाषदेहेजोरोकेहा
रेरजूरवेहैं॥ नलेवुरेमांनस
कोपटंतरोदेवीदासनोतनोतईष
अरुमिनकेदेतहैं॥ बारआपकों
खिलायषंडषंडह्वेपीलायमारषा
यपरनामरसकोनिकेतहैं॥ अबसु
नोमिनघनोफूलरलवृघनयोजर
तेकुटायपस्योपानीमेअवेतहैं॥ आ
पुकोस्तरा[illegible]पुनआपकोस्तरायनिज
वामकोकुपटायपरवंघनसोहेतहै
॥ नलेवुरेमांनसकोपटंतरोदे
वीदासदरजोकोसुइयोऊकेलीकेह
देतहै॥ पैनिओरअंबरकेगुनमाज
वेदपारेआपगुनहीनतासोकहेने

तनेतहैं॥अबसुनौंदूजेऔरकौसे
क्षीनलाईनुहैगैलतीवैंलाईपरसुन
सौंसमेतहैं॥ढिगढिगकुरकुरजेईछै
दपारैवहैंतेईऔरकुरकुरतेपुरपुरले
तहैं॥२२॥कूवामांऊमैंऊकौतिमगिल
सोउबैरहौतहांआयौउछौंहंसनीवैं
देषरूपपानियें॥बेगेऊपऊंगबोलौं
मसौरसौंमैंऊकौंतूंकौहेहूराजहंसनै
सेघरजानियें॥मानसरकेतौबकोमे
रलंगहूतैंबकोंमेरेघरहूतैंबकौरू
ठकेसेजानियें॥देवीदासजाजीवकी
जहांलौंपौवनाहितातौलुरोसनआं
हितनकौनमांनियें॥२३॥माषौबनो
मूंहबनौंहैंपुनबाघसमतुलकौ॥
रंगौवंगौंअंगबन्यौंलांकबनौपंजा
बन्यौंकतमसटासमूंहमिंचहीके
मूलकौं॥गूंजबैकीवरंगौंनगहिबे
गिदेवीदासकैसोहीसुनावहूंदरां

दसालफूलक्यौ॥कूंजरकैकूंनहीबि
दारवैक्रीवैरकैमेकूंकू रपैनिवहैगोय
हस्तागस्तारफूलक्यौ॥सौ॥लीवनवर
नवैतुवीपकूरवौपैरगैदवीदासकु
परतैंकजरोकहैरहैं॥कंवीनारकूर
वेगेमैंनअतिमांनगहिपैंरुकमरा
लक्रीसीवालपगरहैं॥जैसीता
तपैंवतौहिहीयेअवरपकुनसकू
लनकूलदेषहंसकूहिटेरहै॥पुकूस्
नईजोक्रीकपीरअांनमिलीतवर
रवकूबीरनीरक्षीरक्यौंनवेरहे॥सौ॥
असाढमेंउपजौमावनमेंलहेलो
नौंनादोंमेंपुलंगवारूपलटावन
रानरी॥कुवारकैकनागतमेंकूलकू
लमस्तनयोवरुसीवलाइहैसंगा
ईक्रीबराबरी॥बरुकैहेचरहेतिहं
रोमीमीमरमाक्रूरीअघहनमाह
क्रीजेसीहिपरापरी॥देवीदासदे

मेरूगेदोतस्राठराखैोपहेनांऊनयो
निराङ्करवसरसोकरावरी ॥२५॥ स्रोहे
पायपस्योतुमतिवयामेस्रुजोवर
नयेहेतोरहेस्रोनमापापुर्रकुरुहे
मापाजोवदाईनोस्लेहेअतेराके
जजापेहेतसोरिहपंबेरुंनसायकुदे
॥स्लेनलोंकेरोसेनसुहेअतेसोके
जंनपुहेनोमहेदेवोकोअंजोवरुर्के
॥रोरपातजयारुक्षोअनेमतवेरतो
जुकारटकेवमेहेवटमवरीपरकेहे॥
२७॥ मरस्रोमरीजमोसुचाकरहे
सुकुसोमनीरस्रोमपाईनाके [illegible]
मनुमरहोमनुवर्न [illegible]
गुलाईजानकमो नोर [illegible]
कुहेकुसोन [illegible]
नमोहेपना [illegible]
विहेकने [illegible]
दयतने [illegible]

कहौं यौं बिचारतां कौ वेरी कहा करैं
॥२८॥ बिनु कहै सब जांनैं सासन मि
रपै मांनै सहि बकी नीर नांनै मन ना
ई यहु है ॥ दुष सुष जिन जांनै थोरे ही
रहे अघांनै धनी को जैं ग्रान दे ई तेई
गाइयतु है ॥ निडर मैं डर राषै डर मैं
निडर होय लाज मैं लपेटे रहै छिब
छाइयतु है ॥ घरी घरी अरजी न होय
बरजी न करे देवी ऐसे चाकर तौ पु
र पुंन पाय इयतु है ॥२९॥ ग्रान सम
राषै ताकौं सुष अनि लाषै आवै
न सुष ना षि सदा वे ही तौं सारा ही यें
॥ बिन हित पागे कहै काहू कैं न लागे पी
र परै नीर नाजे जो द्रव मकर दाधे
यें ॥ बार बार तुमैं तके सीर कहु सौं स्तु
मैं [illegible] सलाव तन मुमैं दुष परै तै नि
बाही यें ॥ कैन अति जीत न ओ प्रनीत
रस एक ऐसे चाकर कौ दवी दसा गौ

ऐसें जुवा हियें [illegible] मादवारली
नसव बातें मैं प्रवीण पाइ ऐन मांनु
हीन कुबकुनां मोहैं ।। कुलहैं कुलीन
कुपटीन आलसीन जिन देवीदास
लोकु परलोकु अनिलाम्भो हैं ।। ऐसे
पूरे पुंमन मिलें है जाहि वाकुर जैसें
कुरे मैं सुरलोकु वेद अहें नां मोहैं ।।
साहिब क्रि तो कुदे हेंकि तौं कुसन मोन
कुहैं मोंन कुें वदलै तु नत्रा नकुररा मो
हैं ।। ३१ ।। कातवात ऊपर सुमांम दुकु
रहै जे हूंह पर पीगपाके नबाद्रु नकौ
गरे ।। स्तं प तके साखीस्मा रमकुसू
दी बिक्रम्सार लेवेकौ कुम्मार ऐसे
वाकुर कुमा परें ।। क्रिं तकौ नमानै
पकुठगै ठेराजा नै जो गरज मै सर
जगीनै तिन विनां ही मरे ।। देवीदा
स सीरिपेट सेवकुन बीस सोपचै
पीछै अलूसा नैं सवाई देवीदास कुरो
।।३२।।

दुवरै सै आवै तू पै कामकौ हिलहिला
वै जिनही लगावै हम जोई करै सो कहै
साहिब नैं तू पै जान दुरव लक्षीद
या आन मेल दिये माल पर कहूं न
गयो कहै जहां मूं चाल्यौ तहां गिलग
ऽसरव अंस माव गए पल मां हि कौं
न सुनै कौं कहै ॥ रे रदु हिली जै तब
कांम आवे देवी दास कहरि यौ विचा
र किधौं वाकस्य कै जो कहै ॥ हि
तकारी ढुवैकै सेदाई निज साहिब सौं
हित कौं न कहै तौ हित पना मैं वांसी
है ॥ बे मे स ना अस दकौ सु बुध न कौ ह
द कौ जो ॥ सुनै नां हि देवा दास सोती
मक स्वामी है ॥ मंत्री होय हित कौं क
हिया और राजा होय सार कौं गहि
या तो जो राव हनामी है ॥ नीत रम्
पति है विपत ही कौ कामी और मंत्री
वहै न है वे न र कहौ कौ वांमी है

बोतनैंनिहंनहारवितङ्केलहंनहार
ऒनरमैङ्कारैओरकपरतेंगोरहैं॥
जोनीयोङ्गनहिंथोरदिनङ्केरहनह
रदेङ्कीङ्कमंत्रस्योंमस्यंङ्कसमैबोरहैं॥
नाहिनङ्कोनीतङ्कैसहंनहारबांननजो
नोरहैं॥राजनङ्कवितङ्कगहनहारध्यं
नेपरदेवीदासहितङ्कैङ्कहनहारयो
रहैं॥ओ॥पुङ्कपायपेरसौंलगायली
नोलसयांनों॥दुजोपावगाढोसुघमों
नमहाहैगहपो॥नारहनिवायपङ्क
गेरङ्करवैगियेतुपीवमैदुरायरपी
रूपजांयनङ्कहपो॥ओटीबोटीसव
रीनवलवैङ्कौदेवीदासदेपीयोवगु
लायहत्रगुलामोहवैरहपो॥...मी
नजोनहांयरनीजानवैपोंनसेवन्
पत्रसहारचढावे॥...हुङ्कसोजन...
नरहौनितमोरमजे...गिरमोरव...
वे॥बाघमैलोटजै...रजौं...

न घरै बछ जो कहां पावै॥ देवी कहै यो
सुजान सुनो सुंदिपारो कियै कहु ह
थन आवै॥ ३०॥ पांचकै अतीत सांचसा
सुकै समीप हर॥ सांच होतें देवी मन
वंछित करत हैं॥ सांच होतें सुजस सुग
त होत सांच होतें देवी देव देंत आग
यां नीक रत हैं॥ सिंघ सांप संकट न
बोलें तासों सांच लागों॥ सांच तें निस
क देह धीरज धरत हैं॥ देवीदास मन
सांचे देव अनुकूल और घर सकल मूल
जहां सांच आवरत है॥ ३१॥ कुरंग तें स
कल नेम धर्म पसु पुत्र हांन कुरंग तें सांसा
र कुप सिंधु ओलियत हैं॥ कुरंग लेकै स
मामा हि कुरंगी माप अरे ताके पित्र न
कोन रकके किवार पौलियत हैं॥ कु
रंग गांठ के धन जहां जाय तहां नाय कुरंगे
कुरंगी संग तक्रियै मारयो मोली
यतु है॥ देवीदास कहै कीन तापसा

पंदाक्षोमूलपापहीक्षोमलजहांकुवनो
लियमुहै॥ ९७॥ जोइसुमिथ्यातालि
योलेइरलिलाहपारतालेपरजम
लजापनीजआपइरले॥ सोनाकिसु
नेरजावेमारवारसाहिजाहियटेव
टेनाहियहनहवैमेघरलैं॥ देवीदास
कहेजोईहोंनहारहोईसोई॥ मनमेस
तोषराषेजैसेअनुसरले॥ वापीस
रसरितात्तरहैंसारसागपेतुं...
रावासनससमानपोनीझरलै॥
पूरेकुलजलमालिसेरहेहेसुरघरवि
नवविलासमुरसरीतीरआमेहैं॥ सा
हसीसपूतसुषदायकहूरेसधरपति
वृतानारियहपूरोमनकामहैं॥ राम
जुकीनगरमकुलदोनदेवेहेक
बाकुरकुकमकारीजाकोजसवा...
२ देवीदासप्रतेगुनगायेजगतै...
मुनसोनतुक...
जेरेकुलजन्तकुरे...

रोगल सरीर दिन दुष सौं न रहतु है
दुषदाता सुत पुत कै समा कुल हू षांन
कै रूकै सा नार नैन देषेत जरतु है
पराधीन जीवन अजस लोक पूरर
सो सूरष ह्वै हरि दोऊ हरत परतु
है जैसे को जनम देष जग मांझ मे
रे जोंन । जम कै नरक वासी साहवी
करतु है । लाज कै सौं जरत कै है
षतीसौ कपटी कै है सुव सौं कहत य
ह कैसो दंन्न लीनो है सूरसौ निठु
र कै है सहु बोले दीन कै है व कता
सौ बातन सुषर दोष दीनो है कोमल
सौ कहै मत हीन ठि सावत सौ कहत
असमर्थ यह कै सौं न्तयन्त्रीनो है
देवीदास कहै ऐसौ कोन है जूइं न मू
ढ़ दुर्जन निठुर ने अंकन न कीनो है
मान वैर रहै तौस ना मैं मूरष नाव पा
वे बोले वार वार तौ ल बार सगरे
कै है टीग जाय बेगे कै है पीगठु रवेग

कहैअमगलकूंतहांकैसीजांतकरिहै
छिमाकररहैतौउरपस्मारकहैसवै
॥बराबरीकरैकहैंनीनहींकैलछन
है॥देवीदासकहैजेपरापुन्नपुत्राकर
तौ॥विचारकहौकौनजांतकैसेसुषल
है॥७४॥वक्रनकैसीसपैंतनैंकतिनकलि
त॥ताहिपिरतासौंआंधेवक्रैजीतकैप
नै॥स्यावयांनचपुजनमावयलौंकू
लेनांही॥ज्ञांनवाकैकाजदैतऐसौ
सूषसौंसनै॥देवीदासअबसूनौ
नीकैऐसीगति॥कौननोनिकौजे
हाथवैसेकनकैमनै॥ज्ञांनकूलौं
देकैउपहारहीकरैजोकाज॥ताकू
बलतिनकौकैतिनकाछियागनै॥७५॥
॥वहैनरवहैनांमवहैघरवहैगांम
वहैकूलइनमैतैपुरुकूंनवलैगौ॥व
हैगुनवैहीबलवहीबोलवैबुधनैही
सगैमिंतनमैंपुरुनहीहलैगौ॥हाह
पुरुअरथविहीनौकैसौदेषियउ॥

छिनमांहिगुनकोस्याम् हमांलुगलगो
वहेलुनलोगनकोंऔरस्योलगन
लागो देवीदासवेईअंगसांगस्यो
वृदेगो तनतोपतनसीलजस
कौंअमरजांन यहेजीयजांनदांन
सितग्यादियतुहैं वठेवठेमहीपसो
तोदीपनकेदीपकसे विनांदांनवौ
सौकाकुदांनपाइयतुहै वलछितो
पीगसिवमांसअविनासनयो ज
गदेवदेषोदेहयोलुटा[redacted]इयतुहै
देवीदासकेरनकोषालवहैजगतजां
नै दधीवकेहाठगोठआजीगाइय
तुहै ऊजरेमहलनांहिपालको
वहलनांहि वहलपहलनांहिहो
मकोहवनसी देईनांहषाइनांह
जोरतअघायनांहि देवीदासकेहै
वहेवसुहैववनसी मातगजरा
जनांहिमांगनैकोलाजनांहि ऊव
कोसमाजनांहिदीसैअरवनसी

धनेदुवजोरीधनेदुवसोराखिय
तुहैं॥पहैज्योसैंसंपदातौआपदाक
वनसी॥४८॥दाताकौउदारताईसूं
वकौकपनताई॥कोधकौतपनताईं
कहोकौंनकौवषोनहैं॥मांगनेकौहल
काई गुनसीसुन्नगताईधीराकौतत
ईताहिकौंमउरजांनहै॥मितमिलै
कौमिलाईमनकौमूषाई॥औरवोल
कौमिगईदेवीदासमुषकांनहैं॥कुं
वकौकोरताईअधरकौमधुरताई
॥कविताकौसरसाईजांनहैसुजान
है॥४९॥वैसीसमस्नूंमधुमपियेधू
मवोकरै॥मरोरनारि पीगदेनदी
गऊजौरसकै॥आछैगुनजोरजा
यजोमसोसमनामैवैर॥वैसोवाक
निंमृसोकवीसवच्हीवकै॥सूदर
सरूपमृगलोधनीतसूं नतूतोक
नकयावतांनरं तंनकौंतकै॥लेतंस
नमुसकैसुपुंसकोओर६

दासकौरिजायसकैतू निपुसकै
सुंदरं सरसा हुं अक्षरसु
घुरनसुमनोहरमोदकरगुनसो
समेतहै काहुकुविराजकीसवा
जहैं अमृतरूप जामेंनारीनार
पीकौलोलमोललेतहै ताहीसुन
कूरकहैंहोतोमूरसमज्योन नि
जेदोषऔरनमेंदेखैकोंसुनतहै
देवीदासजेऐंटोलीदेखसूकी
नार हियकोंनषोजेदरजीकोंदे
खदेतहै दावानलदारद
कीदहमांहिदौंलगेजो सोकतो
सेतोषवारनेकुंसियराइयेहाल
जबआयबैगेसजनसमीपलोग
उतिपिनिरासमांगनोकुरिजा
ये आपनअद्रिष्टपरहारमांन
बैरहै वादजावरकौंकहाहै
कौंमतताइये तिनकोंपिछारसु
नेकोंननमेंदोयगेसुदेवीदासकहै

कहोकहेसौं तुम्हाईये ॥४२॥ पहिलें
तोआगलेसोंजीतकरपरनांसुमुद
नीकोपाहवांवेछेकेपरकासों ॥ कर
मनमांनलेसमांनताहिवेगेनहिंग
रसाकोपायजनहोयनेकसाजुसों ॥
हलकेतगयकुवीपादनीकोपाहोस
वे ॥ नीवोकोजैगरनोसोहोयसिर
तोजसो ॥ देवीदासजासोंकतराज
होयवाकरको ॥ सुनकोंवजांनेराजा
होयवनराजुसों ॥ ४३ ॥ मारवकुन
जतनकियेवकुनारकुंमेंपलेतेपर
मकूतेलपुंनपावेगो ॥ काकुएकका
लकरकोकपकेकैउरेरमसकीम
रीवकमेयासहीतुजावेगों ॥ पुम्मी
पहारपरपुरसपरसंढेतेकदावि
तसोधिकेसुसेकोसीगलावेगो ॥
देवीदासकहेतीनलोगैसोकोक
नोहीकिहिसोतिकरमूरषीहिसम
जवेगो ॥ ४४ ॥ नोरनकीनार

सपांनआनदई जांमीयहराजत
मसुहहुलमहक्यो स्तुवाजांनस्वा
दस्लहुलसालयहैहैंमगीघज्यां
मौमांस्तकोस्मरूदेषगहक्यो दे
वीदास्तरहैजांस्मोहंसनरुवलषं
ठ वांरकूवयोहंनक्रोपितलोन
लहेक्यो परेपापीत्रयावठनिप
रनिक्रांमसगसमलक्रैस्तषतैंग
नागेक्रोंनठहक्यो नालस्तमि
लतजगजीवनमोंमीतरापैमोत
लसुनावदेषैतीनतापक्रोंनस्तैं
मित्रक्रोतदोतदेषैंफुलजठगेआठ
नांतिक्रोस्तहिंघरिहैस्तुनवासेना
लियेलसे देवीदासक्हैनरसंग
हगुनक्रोंग्रहेदंठक्रोक्रगरमुंहमचु
रक्रैलियेरसे गैसकूलक्रमल
क्रैगुनहीयजांहां यहे निहवेनाहि
ठोठक्रमलाक्रहांवसे पांनीने
क्रमलजयोतातेक्रमलासनक्रमला

सनतें जगत देत है दिषाई है ॥ तीन
लोक लोकनाथ वीस्व ब्रह्मंडवीन॥
ताको सुलपानी जीव जात है सहाय
है ॥ तो सो बरो ल्वे है को जो सो को
सकै रे॥ जैसा कहि जम मारे लहि
पीर न पराई है ॥ जाल मै ब घायम
रनागत न जात नयो॥ पिक तोय तो
है तेराई ते नीव राई है ॥ ५६॥ पहि
ले वि वाद वि वहार धन को न कीजै॥
मांगीये न तायें जाय सगि नाही दी
जीये मित्र ह घर मै घरनी सो मि
ल वे गये न॥ हसीये न छुरवंस ये
न बोल लीजीये॥ कोउ न छल करि
तीन ह लोक लो का सत है मन को दु
षये न ते तें न ये पी जाये जीन हीये
नाहिये तो की जाये परस पर॥ जीत
रामनाहिये तो रतन ली कु जीये
॥ ५७॥ जीन को उदार चित गांव

गांवबीचमीत पुरेगुनवंतसबही
है सुषदातहै रूपकैउजारे नैनता
रनमैराषलीजाये बोलनमैबोल
लेतऐसेसुषदातहै। सायलागें
सुषपिरैलख लागेंदुषसीरै। नाग
षुलेजहांकौं तहांहालेजातहै
कापुरषगुनहींनदीनमननीचल
व तातकौं तलाईंवीचवैठेकौ वषा
तहै।५५। जनसतेनेकऊनकैरेसुव
हैनीकौनर उदासीनगतहीबुरो
नमनन्यानतो नेहकैरवालकौं
ग्रहकौंमियधजारे वहैनारीला
गैमोहिमनकौनयौवनो देवीद
सकैहैजैसोजगकौंजनसगांय
दिपतकौताउसनलागेंगजरव
नौन्यावैमिलैदिपतहोकैकूरर
रिसगहैसन्यापनकौजैसैनर
लागतहैऊरावनो ५६ सायेगुन

जानकुरायमूंहवैरह्यौ परलौ
कुकाजेयनमाथेघरलेइगो वि
नागपराघलेके माथेतेसताप
अव जोकेतीनलोगनकोराज
करलेइगो कुरीनतेवमोनाही
सुकतनेसमोनाही देवीदासजा
नपनोसा मारडिइगो आप
सगागनतेआरननेराषिनाहि
अवपुरपारचलेकें नाकियमे
वोइगो ५९ पेरयुनीयुनपासवा
कुरी निपुनपाई कीजीयेनमेलो
मनकोकजोकुकुकरी वीरनचि
रांनेकारगपको सुनानयहु आ
पमोंनमोनकाकुरेकरीकुंकरी
कुरपैककवनलेजातहैसनाकेवी
व तोकुजोगयोकदेवीकाकुमल
कुकरी दरवाजेगढिगजाकेरी
सनाकेवीव कुकरीसकूकरी कुंक
रीसतूकरी ५२ देवीदाससनावी

नकैसुकसेसुकवि रूपगावैर
रसुरकौगरुयकुरे लैयपरप
लेजपोलगावतहै रूपतव वैपै
वेपीरूपसेगमोलवोलवोकुरे
कौहानेयोकौहुजो ठियोनमन
मांनकौज पटेयोनकुहैगेतोर
हैगैजोनजकुरे कौकुसेहुकविहै
कुजायगावेगैतो वकौंननसेता
यवेरकौंई रनकुरे ७२ रवनेदर
दनांहिदयोदेवनकुकौनकौग
कौंमथीनकौनयहै लिरचारहै
पारजातकौनपीरालेनाविताम
नकौन गौरकौनगेमतीनले
कुमेकेयारहै गरजरवायोगोर
नेलरजपुरी घारनसुघरनीको
कनवारपारहै हवीघसकुहैय
नपरजनदेवजगुजायमेकौम
रजोवेरेनिरुनारहै ७४ रूम
कौहैयनलेयरांमेयरराभिपदे

हिकोंमजबहीविपतआंनपर
हो॥दोनीकहेकाहिकोंविपतआवै
नीनकिं॥देवीदासपुरनपुरषहि
सुबकहैनहैतेसंपुरनंपुरषजोहु
पितहोइसचितविहीनतूंविसर
हो॥दोनीकहेसूपरमेसरकुंपत
नपुघरतामेसमोतेसुबातिकाहि
हे॥८५॥दोनीकहेसुनसूंमजु
घनदिईनपांयकहामतपायो
समकहेघनदिकनबानसुदारि
दिकोंउरकोउरपायो॥हूंजुलुराव
तरेनदिनांवरदानकहोकिनहे
बहुआयो॥देवीकहेघनुदेतहोया
हीतेमोहीकोंदारदकोउरआयो
॥८६॥पांनीकोंनरनरातनेक
जानिगीउतहो॥कीनबनकाकुं
कुसावतहेदीहैने॥पंकमाहिसुरं
नीमबरीतरहराति॥कुकरगरत
माहिरहैपीहिगेहने॥देवीकुसक

हैन्हैसरजौविलोकपकविनांघ
नाथनजौनउपहनजैहनेताहो
मैमतगमातेघाहनमवगाहनै
पलमांगमैमीजनीमाहाराज
मेहने हरिहरेनरवरमुजै
नजैसाथदैपोवरीजरवनेवान
नलवाहैनैवेलनमभितनकैर
मूमवायनगजरनेजराजदेजै
पलमांहनहैनैंपरवीरमेहवा
हानेहजासुरनिजरदवीवायनज
हैतरुतेहीमांवबाहैतेंपजतोन
रदनिरदईनीरदेतनांहिओर
डुजेबीजुरीजमारनहेजाहैते
पजुइनवजनजीओडओमीमारि
येजुऊतमचवारावाकीओरन
जमापुहैवरनपांनपनवपुल
गवेलसुपनमोझेलरहेमिरयो
परनापुहेओरनजुपदूरजरे
परबरपजुपुलेरलेहरनेसुन

कौनदपुहि॥देवीदासकसुनाप
यनपरमदानपालकपयोदरक
रोपरतपुहि॥५॥कैतेदेहपायघ
घरमेकैआमैपाइ॥आसनछिउ
यलेहजातिपरकुतकौकैनेकरऊध
मआपारघनजोरकौरचजातक
हायकोमकरलेसपूतकौ॥कैतेमन
कोमकरनाआमैपसुपनोगविकै॥
सुकतकौमिलैजहांमूलपांसन्कूत
कौ॥इनमैतेएककवनेनतोजनमप
यकारीकैगरिकौयनकुयकौनमूत
कौ॥७॥नन्मैनिरवलतैरआवछिनकौ
जेघनै॥दीननतैरहौविकुंकनीकव
कायरे॥वापीकूपसरसरितानिमैप
हिवानमांगनौपैआमैनपैमांगनव
लायरे॥घनतैराजलपूरतौमिनरप
ररहौइतैकुकौकौतकरानहाइह
रे॥देवीदासवातकैजातकौदय
हीना॥आपनीमधुरमेयघुननासु

परै ॥ इन दिनसानकै जानकौं
सिवातनयुगाननपसियलनि
वासौजोरतरसौ तरसै तिलमला
यनिवलोवीलविलाय॥ सोसूं
॥ वाहीवारदकौं दरसे देवीद
सकैहै हाइ निरदईनीरदकैहाय
छिदतौकौं छिद्रतेरयाचनसो
जासतमै सामनकौ जिननिकुरी
हीनिनजतनीयौबूंदजापैवारद
नवरसै ॥ ऐसौ दुषनाहिदैनुग
दरविहीनसंमगुनहीन सागैदीन
द्वैकैगुनगाईबो देवीदाससजन
सौंवरसावरकौ बेगबोहैसोईबोर
गाइबोरपेलबोकुबायबो ऐसौ
दुषनांहि दैमांगयोबदाजनपे
ताउमैकनुकाकउसायबोनपाय
वो ऐसौदुषदेनहै तिनकैगारजा
यहलोहहमैहै जिनकौतिनेदीन
तादीपायबौ ॥ ॥जासौ सतिवी

तम्रजगमे विदतहोय।जांमेंपु
नवेरुहोयदमोदायछीजायेदि
वोदासद्धेहेजोजिहाजक्रोविनज
क्ररे।घूरतक्रहावेताक्रोवातेनहीघा
जीये।जोनेक्रारूपदिलेक्रदापवो
रोद्रसीहोयक्रुलमालरहतमिक्र
रद्ररलोजाये।सुपनाहे।ञापक्रो
वोमवक्रोमदाक्रोमापद्दतनेमनु
कानमोसंभालनक्रीजाये॥७॥ङूर
नमोंमनक्रेगद्दरमोंमलीनन
मोंमलक्रोमोंतातक्रोमोंमिलपेन
पाजाये।बोलक्रैतक्षमलामोंमि
तक्रेबलठलामोवेपंपनहलमो
क्रवक्रनधीजाये।बोरमोपरवं
धुक्रेरनवारिमतवारहोनजात
नमोतजिजोलोंजगजाजाये।दि
वोवासदहघरेसुपनाहे।ञापक्रो
वोइतनेमनुकनमोसंगतनक्रीजी
ये॥८॥क्रोनदिनाद्रमल

तेहि चौरनकौ॥ रूपनपैरूनकौ
कुमकरातहै॥ आरसकुलायक
कहौं चौमरोवरनजु॥ सलिलन
काछिऐजुवाहाईसमातहै॥ चंद्रमा
कीचाँगीलकनआईहाँचकोरनकौ॥ प
नकैछिलायबिछुवातकविचातहै॥
देवीदासकहैमोसुकविजुनीलोग
पैतोकुनीमांहिजीहीकछुदेषैत
हीजातहै॥ ८५॥ पकजानदोऊप
कैरूपपरबैगकहीपक्षेलगत
देहललकौननारातां॥ पक्षीवर
नपकगेरवसचासकुनैंगैनरर
तीनकुतोदेवपरैकारातौंकहोज्ञा
कहौतकौनकौयललककनकाकैम्
कछैरहीनकुरकरीरककनारीदै
देवीदासकहैमनबोलैहीनारस
कुंतोवायमबलातकारबोल
वारपारीदै॥ ८७॥ तोकमांहिकौय
लकौआदरनाधिकदूषलवाकु

हैन्लैलोकयाकैमतकारमै॥जां
गैकरैकारीदारीबोलनारी२जग
मोलोतैंकुलुलियारीजांनैनरेपा
रमै॥एरवीरलंवाकाहेलोगमो
सोंमयांकेरैकाहिनैंघोनोहिन्नंज
षातहेंगहारमै॥काहेकीवहस्रौमा
हितोहिदेवीदासकहीमेरोघर
जंबपरतैरोघरझारमै॥७६॥कुल
रहेंकूषरलनषलगेतोरषांहि
षासलगेजनियासनरेनदी
नारहै॥पालकीपुहमपुरीमैंगं
लैंविठायराषीगेदुवासुनरसोर
पहसुजनारेहैं॥गिरसुहगेंहम
निगेकुनीसौंनेहकानोदेवीदा
सकहेजोगीजगजालजारेहैं॥जो
इनहेंकुलावतहैंबारूतेतोइन
याकेकारबार२मेरेहैं॥७७॥अजद
कूलीननकेपहिलेंतोकोपकै
नांहि॥कदाचितकैरेछिन

रहै ॥ जिनमें नमुटै को पढ़ाइ
ङकारन ते नो पर विरोधि कै वि
ारको नहीं गयै ॥ दैवी कसावउन
ङ्कौप[illegible]रलकौ विरलो कै विका
रवैरी ऋकौ सुपसो नरें ॥ वउन
कीवैसु पकाबोलन नगरारी सुनी
वनकै नैऊकी बराबरी तेऊकरे
॥ ८० ॥ जैसाकी ऊनमिलो हिजा
सोमिलखै गिपेटकी कहीजे सुन
लीनहीत नैरमै ॥ नाघरीयरय
॥ जाधि जाचुकै वंटयलदगै
सोजसनावतीन जावैकीऊजे
रमैं ॥ दिवीवासदोमेसवस्वारथ
परायान तिन सोंदु पजीद बेको
लीयात गमिरमै ॥ वातकै वलू
लापिरनी?रहोकरैरसनोंकै
लारजाय रिरजातरहैपेटमें
॥ कौ करतारमारे जगजायकै ज
नमहरकौर निपरिहे धिकऊं

ह्रै म्हांजन्हों ॥ पीर न पराई प्रह्लस्वा
रथ परमायन हैं ॥ पेट ही ह्रै वेर जेतु
नावे वीज नजन्हों ॥ ऐसा ह्लोकवि
रलो विरंचै नेवनी यो है जूपरह्
पराए ह्राजेले तनी रनाजन्हों ॥ ऐसा
पनीक दरह्राजे पीववाड वागजा
ई सोई पानी पीवतपयोद परह्री
जन्हों ॥ ८८ ॥ ह्रै तो जुग जोग ह्रैरेह्रै तो
सुष नोग ह्रैरे ह्रै तो गुन रूप ह्लर
नाम ना ह्रठाइ हैं ॥ ह्रै तो दांन सी
लह्वैं ॥ ह्रै जो रावर सील ह्वै ह्रै स्वू
रन सिर मोर ह्वैं ह्रै गीत न गवाइ है
॥ ह्रै तो जगपूज ह्वै ह्रै तपतेज पुंज
ह्वैं ह्रै इन में तो परह्लू जिसै न उप
जाइ है ॥ जाये ऐसे पूत ही सपूत
नइ है तो देवीदास ह्रै है ह्रै हो बांझ
ह्रीं न सी ह्रहाइ है ॥ ८९ ॥ वनी दो ऊंचा
नी नीर परी है घनी मैं जीव जन्
लौं न जग तमै पायवे ॥ ९०

ताकेहितदैकैआनकुअरउलैकेपह
लोकमेंचराईऔरदेवलोकपाइहै
॥ यलोदियेआपरनिकोलोमोऊ•
हेरदुलकोलोईलिगेगोआनपसे
नलोदायहैदेवीदासनीकुरहै
तीनजेहैनीकरकैरहैमेघोजी
करकैतीनकोराजआइहै ॥ ८ ॥ आव
कोसरमकोसरनआपपालककोै
सरधाकोधरमकोऔरजसवालु
है सूरनकोसीलनकोऔरदान
सीलनकोजानिनकोदयाकोसे
तोपहीनहालहै ॥ रजरुतेजको
नलाईकोमिलाईकोनगननाव
नावनाकोपतिलिननालहै ॥ दे
वीदासकहैदेसदेसदीपदीपदेवे
आजकोलकोलमोऊइनकोडंक
लहै ॥ ५ ॥ पंडितुसांईमलकुमाहि
बखरमसूरसिरदारनकोलाइ
लोकमेंचटाइहै ॥ राजारावरायजा

देकुमरावम्माहजादेदेमणीम
हीपतदोलतवताइहै॥चूनवारिपु
तवारिसुंदरीसंजुतवार जिनजा
यसागरलोंझीरतपताइहै॥देवी
दासएतासवकुपडोझेत्नाजनहै
कुपरसुपषझीनिकुलइँनुराइ
है॥ॐपलमेपंषेरुजैयलियेहै
जेंझासमेतोकुंबीजहांपकुंवी
हेदेषीयोसलाझइ॥वनमेंतोवा
घवरमोरनेतेविषघर॥झेरेनहो
झोकुदेवझकुझितलाझइ॥औरे
जलजालमिसजलवरजैवलोनें
झीनेआपवसजहांतवनीजलाकु
इ॥देवीदासझहेझोकझवझवे
नझोकुदेषोतीनलोझझालेझर
झोवलाझइ॥६॥तीनसोनजोन
पिसुनतासोपारवुनसोदमे
पनाहीइरषायोदइरोमू
तीरषसुजवदा...

सो नरोगतीन लोकमांहि रहनो
॥ अरमसो नमीतनतुरतजीव
घातकमाह्रमसोप्रबलनांहिद
तवसोलहनो॥ चितासोनमा
लदेवीदाससबैलोककेहैंसोतो
भसोसुषनांहीकोरतसोगहनो
॥८८॥ जोतूयाहीलोककीरिकर
कुरेतातूसुन॥ लोकौचितातोहि
चितनकौनचरनी॥ पिवलेक
रमतेरितिनहीवनायराषीसोई
तोहिदुहागबैनोगनीसुनरनी
॥ पुरुषारसोंवेददेषमनमेविच
रअवलावैसकदूनकरनाहीकुछ
रनी॥ देवीदासजानकहैयहकु
रघारपराकपियासेपलजलकों
विचारकैमोनमहिचिंतापरलो
केहीकोकरनी॥८९॥ देषदूरहीते
देवीदासकहैपनचारपंथकपिया
सेपलजलकोंविचारकै॥ आतुर
सेपलजलकोंविचारकै

हैजाय ज्योंगि देषै तौ हों ज्यंय हूं
पढ़ कृतन्नु देवै नीरनि कुरायन
रिहै ॥ ज्ञीषमहृश्यासजपैतैसै
होउदासपंथीवैग ज्यासपासव
लैरोइदुषवारहै ॥ ज्यंसुपातन्नु
नजातज्ञावतजेदेषतेतिउहहै
नहोतीयहदुवामारवारहै ॥९०॥
तापैंकहा मागोयेजुमांगनेहदि
षहौंतीमलागेहहै हाथमहों
नहरतुहैजाहहिसुजसरूपी
चांदनीवंकुदिसांनलेलेकमेर
तनहीदेतउसरतुहै ॥ तहैयारता
होदेवोदासजोरमाहोपतिती
लोताहमांहिजाहोहाथपसर
तुहैं ॥ मांगपरमेश्वरपैंपलमेंपया
जैवहधनोदांनदेहै होजुदांन
सारसतुहै ॥९१॥ नागयाहोवापन्न
रन्नुतमहतारीमिलिवेटीनईता
होनामजगमेंवगाइहै ॥ पारीगुनी

घावरनकुचिहयपोसदेकै दि
नरवलीदेवीदासमुषदाइहैआ
ऊकोविचारकरिकनकौदेंग
एवरुनकैमनवचनैकहनघा
इहैज्योरेवाहिवाहैतिनेवचन
कबूलकरयेयातेजगमांहिकारी
एकयहवारहै॥९४॥कष्टेनकौ
नोजनपथकैनकसुथांनरूपआ
सरोनिरासरकौनिघरकैघर
होगेरहैनिगेहरकौआदरआ
दरमनादरकौदेवीदासऐसे
नकीकीरतअमरहै॥ मूलद
लफूलफलदलकलपल्लवनि
देहदेहेंतकसकैनमानऊमज
रहैतातोसीरोसमक्रियेसव
रौकोसुषदियेतेऊकोतरजति
येतेई कलपतरुहै॥९५॥ पहिले
तोबांदरहेवेवायनरसोवावरो
हेवेविहुनायेवूढीवेसवुरोवि

करार है॥ मढ़ाकुलुकपाये विज
यारायेबीजवीस्नकधतूरेकू
केषापवेसुमार है। ताकूं मैं केव
स्लाग्योतातैंगोलैन्गयोन्लाग्यो
पतेपरन्हूतलाग्योचैस्तोकुप्र
कास्त है॥ देवीदास्नकहै ताकोवेद
नबुलावैकोउकरोयोविचारवा
कोकोनकपाचार है॥ ९४॥ दाव
लेवकारपांवपांवपनसूकेमताछा
उदेनकारन्मारन्मारिनमैंवस्यिये॥
बोरेमनिद्रदकारबाउदेवकारस्या
ततीननमैहिलमिलअंतहोनगस्यी
यैहाहन्मारपरिहरितीनहाहमा
नलेतनूलवमहारमांगकुवकु
नरस्यियै॥ देवीदासकोजेकोहक
रालेनकारतीनपकहोनकारमां
कमारिगुनस्यिये॥ ९५॥ नारतीके
पुरेकूरेकजरेअनेकगुनजिन
दषैराजनकीदागनरस्मके॥

नरचढेसमच्चायद्धराइरमनो
तीमीपतेकपजैवरु-नागीपैघर
मढे देवीदासजैसीगरजैमेव
हमौनसपेलीयेजाहिइ नहैघ
नतेंमोईरहसढो डांननग्रढास
परेषामेंमुढनासिइनढविनढेवो
लनढेमोलढोढरमढे १५ मेले
नहीधनेघरवरनेमारदाढेवर
वाननसुघरम्वालमारनठदार
में पहिलेवगाईदईपीछेढुढे
लपिरजमढोग्रढासे तिनैंराषो
ढरहारमें परावीनपाप तितैंमू
मसेलवारनीमेजायपरेढेढ
हानुंजेमनोन्नारमें देवीदास
येईढैं विढांनेढविराजनढेन्ना
पुघरवारमेंढेराजदरवारमे
१८७पेटढोनिषटमुघन्नापनल
जी[redacted]हैय उरढोगन्नीरन्नो
रमीगेमाहामुषढो वोहिढोप

गारहुंनपायक्रो—अरिगहीयवी
लनक्रामोवोदेवीदासरूघी
रूपक्रो॥मनक्रोठदारदलोह
घक्रो—अक्रेलोपक्रक्राव्हीक्रोक्रा
गेत्वेस्माहियाहुपसुपक्रोपवि
क्रेपितामहनेओस्माक्रोसिंगारयो
हाय॥आतेक्रह्योरक्रंसिंगार
हेपुरसक्रो॥४६॥राजाहरवंदह
रिनांतक्रुररायोदेवीदासयया
क्रेवदलेविपतसुरुओळीयो॥वे
रीयाक्रोलछमीसुजसयाक्रोपुत
दयावांनसयदेहकहुक्रूरनिः
गोळीयो॥विगस्योनओंगक्रह्रपा
तक्रियोनजातपाततेंकतस्यो
क्रहुवाहतनक्रोळीयो॥पेरेयास
पूतेसहसाहीक्राहेडारुतहीसन
क्रहकुपनलगातवभोळीयो॥४८॥
कतमकुरूपक्रस्तारमारेक्रदर
जओजसक्रेनाजनरूनालपी

तहांलोहै आवतसुनीद्वेष
कोरेपरिजाहितारजोरेनहीदि
गतिनकोतोकविकोलोहै कज
देकेद्वारजिनेपांवनमेवेगनोहै
जसकेनिकेतओररसकोरसा
लोहै राजेबारबारमांनेमेर
कोतसुकागनेदेवीदासपतोक
वितनकोमसालोहै ३० सुरवि
रसपैसातानोगवेवंसंघराको
कवीनहूंआदरेगोसोईजसपा
वेगोसीरपरतबेकोदियेविना
नलरेरजपुनविनाकविनकोदि
येविनाकोनजसगावेगो ३१ ग
कुरकोजायोवकोगकुरकुहायो
वाविसोनोइनवेहिनकोंऊगग
लगावेगोदेवीदासकहेजाको
देहहीलवाजमहेजगमांहिनी
कोनांतीसोईसरसावेगो ३१
नजेराजनातकरेगाजतअन

तेओर॥आगतअनीनेंघरनी
तेजमवापहे॥मांगनेंकुलावेंना
हीमांगनेंकुलावेंओरूनागनेंकु
लावेंपाईतेईमनलापहे॥रीजेन
रीजवेंमुरजवेंमुहपीजकरेजा
नतनरूयदेवीजांनतपुरापहे
॥राजाराईरांनेंगुनगांनेतेंनमां
नेमांगेमवतेजमांनेंअवतेजमां
नेआपहे॥१०२॥मंपतगरीयेंहोरी
रम्माईवेंलीयेंहोरीसुंदरीमटीये
होरीमपनोमोहिगयो॥वूटेपिता
मातहोरेनाईं॥बिलतातहोरे
बेटाविललातहोरेआपनकपे
गयो॥गटदासदासीहोरेघोरा
षातखासहोरेपारआसपास
होरेमवेंदुषदेगयो॥देवीदास
आपनेलगेनहोकपहेंमापचे
देषीवहेआपनेहीयेहो ले
गयो॥१०३॥करणमुरंग

रमगरज्वैहैटुरदटुरंगह्वैहैपि
रजंगमाइमै नाहरसंगरह्वैहै
नोरज्वैहैझारज्वैहैनारवेरज्वै
है निगनरजोनपाइमैताकूमांझि
सुधज्वैहैसुटुयसनासज्वैहैस
मझझोहदज्वैहैमबैसरमांझै
पक्षचिंतामनहैवरनचितलागे
नांहिदेवीदासयहवरनौबहुबहु
राइमै ।।१०४।। जंगनसिंगारेतारेमी
लहैझरारनारेसूपहैउजारेपारे
वह्यनोगहैघरे ।। ऊघमेगररि
मारगलिनहैगारेमारेईतने
सरेमारेझोमनहबुसरे ।। घन
नारनसोजबगिसोरधरेत
मांझदेवीदासरटपुब [redacted] नांह
नलेपरे ।। चोरचुरिधूमसुघसु
झहैघराझोसपतिहिगोरझघु
देचुरंघरघराघरै ।।१०५।। कुरली
यो ।। झोनहिमिसगुनायेनही

जोपंवंनक्केमांज॥तांक्कीजननीमेग
नी॥नईंस्रपुतीबांज॥ नईंस्रपूती
बांजजायपूतहेतनबोयो॥तेग
देगकरिहीनदीनषायो॥अस्रो
यो॥रोवतपितरअक्कासबठेसु
षमेंनहि॥वेरीमांगनदिषरहे
घरक्केघुसक्केनहि॥१०५॥ पुक्करा
हऔसीहेजुबलवोसबक्कोतोक्की
रिक्करनक्काकुपक्केनजांतरलेगी॥
गजघोराषजांनेअजांनेयहिजां
नेनारी॥नारीसोजनारबरदा
रीपेनहलेहेगी॥पुक्कहेकेपावसो
ईमेनबवंजांनिबोहेसबमाथ
वलेओरंदुनीदुनीप्रलेगी॥हा
थीकरटगारीबबरांपेनवलेगी
देवीबांनक्केहाथपरधरेगो
सूबेलेगी॥१०७॥नागनसेरोज
संगवलेवतुरंगवलेसुगमहे
हाथीपेनिसांनलहेला

गोतलमेवकैआगेकोलक्रुत
लैओरुसुगमहैमाथेपरवोर
कोठुलायवो॥तोपनकेगोलेब
लैसेनीकोगिलोलावलेकदेथो
रादेरओरिपुरकोजलायवो
॥सुगमहैदेवीतीरतुंरगवला
यवोपेरुजिनहेगमुरछेकोरत
नवलायवो॥१०८॥मनम्तमैंबनव
तीसदांतकुबतीसदोकपस
मांनओसेराजनीतमेकहै॥दोज
गोठेउजरहै॥दोऊमोनादेत
देवीदोऊआठेरावीयेआपह
थमेंगहै॥दोऊपकुमाथाहैपेरु
दासितलबनजोरहैतोरहेदं
ओरदांतटहैतोटहै॥मनामां
हिबैवकेमांनसकहाइजबदां
तकोटदानितबलबनकहारहे
१०८॥वहैरैकैआगेविनवजाइवो
कूरोओरगांघरैकेआरसीदिपा

यवेनक्षोंक्षरे॥ऊंमरमैंम्पारमा
मवरमवोक्षरेक्षोंनम्वांनपृम्नं
तक्षैसुठारसूघोक्षैघरे॥मूरषक्षै
आगैअैसोसुनक्षोग्रक्षामवादर
तिरविक्षैवनाकपतिपविक्षैमरे
॥ देवीयोक्षूलहैजुपालेक्ततोपा
रिपनमूरषक्षैपानेक्षोकक्षवक्षुजि
नपरे॥११०॥ आपुनअक्षैलोअ
मंपामसबवैरीतबदोननविन
जीनजेमातेमानांतिरहिये॥
जांनियेनिक्षमपैगिवलियेनरम
क्षेक्षनेहक्षरैतोपैवामनेहसोन
नहीये॥अनमिलैमिलोमोदि
षाईपतेपरतोमतावैतोदेवीद
ममनेपाइमहिये॥दाकपरेएंक्ष
बोलअैमेबोलीयेक्षुगमाजोरपै
देवीयजवदैरुक्षसोनहिये॥११॥
क्षाक्षुक्षबरउक्षागवेगोक्षांइरक्षरै
देवीदामंवहैवाक्षैमारवो

क्यौवैननमेंसुंदरस्यौंरुलौसांहो
लोवमेरोम्मेंननधनुषवांनमांहो
योरुलेरुस्यौं॥निरचयरुवायम्म
बोलपरवेगरलोवाहिपैंवचुरु
मान्लौमहामेंगिरेपस्यौं॥गिरन
हीरुांरुरुलौहींतोमदजीवनहि
जारुवोलमस्योंम्मोजगमेंरुहै
मस्यौं॥११२॥मांगतसुमतहोयतो
गुनहैजोवाहीमोगुनसिषायतो
मोगुनगहारुरे॥लोगलीरुलोपे
परुपापीहरुीरीतजाहिगीरुवा
तपुरुनाहीवीरुनोरहारुरे॥ला
जनरुहैरुीपरुीनेरुीनहाररुीन
रुररुीमोरसुनोवेगवादपम
हारुरे॥मगतनमंगतनेंचुरोक
नलोहीतदेवीवेस्रवान्संगत
कीमंगतरुहारुरे॥११३॥वाहरमोर
हनीतरमोरहीवापरुेघरुनपरुहैमा
रुो॥मीरपरैंनहीरुोजरुरुांमरुोम

वरपुरुपरनो जिहनाह्रो॥ऱ्या
सङ्करीतेनिरासन्नएदेनानिङ्ग्रमी
निङ्गसोतवनाह्रो॥गङ्करगङ्करज्ञान
तहेयहगङ्करतोनिङ्गसोमुलमाह्रो
॥४॥ॐवोमुहङ्कियेगावतङ्कियासो
टिगश्रेग्रोसवसेञलेपविनानिकु
मुहरुपनो॥तातिपानीन्हाइनित
नएपटवांधेञोरऔवरसेंरातोता
तोदीसेमांनोपूपनो॥ङ्करपीरङ्करेजा
ङ्गसीसपरवीरटरेसाघीटिगरहे
घरिङ्गवनङ्गेरूपनो॥देवीदासरोग
सागहीनसवनांतवनोङ्करियोवि
चारयहगङ्करङ्गेदूपनो॥३॥वेरीन
कोहेरमारेगटङ्गोटपेलपारे॥ञांग
जीनगंजउरेहोतवालगोतहे॥पर
पेञसारेसारेदासद्ददररमारे
देवीदासहो॥जिनङ्गेजसङ्गेऊदोत
है॥ञेसेङ्गवीराजनङ्गेहेगुनराज
नो . . .

ोतहै ऊवोमुहगुरतानले
पतासु अनिपैकपरवंघवोरपतो
दूषनैहोतहै ११५ पचनांहीनात
दारीमृगकीपचैनांहीपचैनांहीमि
सोरीपेर अहयानीहै लवाकेपर
ऊसोफूल आवेपलकोमेफूलकाफुले
रीपचैनांहीयहजानतहै कैठीहैसा
टेदांदवाठीहैनदीसमानदेवीद
सपकोपीनऊदरनमातहै जैसो
मंदजूपमांझदेहराषवैकोपकत्र
जुकोकेपासोंनारीरीझपचजात
है ११६ जाहीकेतौवाकेरहोनाही
कोलुगाईतकोपतकोरेमारोपहपां
नकितकेगहा जोकहैगेत्रारवध
कीतीयह आवतहै आईबरताइदे
ऊहहोमतोहैमहा अपनीसोतो
रीयाहीहैकेसुगांग जोरयहविप
रीतदेषोहमैनोलज्यावहा अरन
यारांमकहोरांमकोंतो छिद्रकोयरां

मन्नीलुगाईसैतीप्रीतन्नरवोंन्नह
११७॥ सवयो॥जबन्नीरसमुद्रमथ्यो
निन्नसवैसुलछसहोदरहैतबन्नै॥
यहजानिन्नसाघन्नलछ्यातजीजुय
हमनमोहतहैसबन्नै॥यहजांनिन्नसा
घन्नलछ्यातं विषईजनन्नौविषतेल
यहैजुरहैलछमीमदमोहछन्नैहरहै
तलगैतअजांनियांयोंविषबेलल
गरलअमृतन्नै॥११८॥बेरन्नुंदीनद
यालन्नदीन्नहिदीनन्नयोनिसदिं
नसदायै॥दिवनदीनरआषनदी
पथ्यमप्रवाहलदीनन्नदीयै॥इंद्री
यतोहिनदीन्निनदीमतिहैसबदी
परदीअनदीयै॥देवीन्नदीनन्नदी
नरदेहसुमैनवंदीसवदीसवदीयै॥
१२०॥माघुघुटीजुघटीसुघटीरअंगों
वन्नोकगईअवटीयै॥जोरजटीन
न्नटीनवपासगटीरन्नटै
लटीयै॥मैंजुरट

नेदबटीमतिसूठमयीये देवीलटी
नत्रुपाकलटीजमहाथलटीवरप
टीरटीये ॥१॥ जवजवगाठपरीद
निनक्षोंदेवीदासतबतंबसहायह
रजूनेक्षोनोहे जैसेकछुनरहरदेव
जूदयां लिधांनमैसोक्षेनअवतर
दयारसनीनोहे माता निक्षेपटते
स्वरूपधरेओरगेरसूतोहेउ वित
ऐसो ओरक्षोनवीनोहे नृत्यादहे
तजांनिनाधरक्षेवधिआपपाधरक्षे
परसेतेअवतारलीनोहे [illegible]
देवीदासकडतलवीमि[illegible]विद
[illegible]

॥श्रीगणेशायनमः॥कवित्तछप्पय॥
श्रमनीकलपव्रतदैनयोश्रीमततागव
नपुरानो॥षादशमोटीमालकडमेसकं
दवषानो॥तीनसैपैतीध्यायछोटीकखा
षो॥सुभमकली श्लोकसहस्रअष्टादस।
नां षो॥अंबरपत्रंजषपंचसहस्त्रछिहंत्र
श्रीरजिनं॥नंवधानकपुष्पमुकतिफ
लश्रीजोगीलाथब्रह्मबीजमन॥१॥
श्लोक॥परस्त्रीमातेवकविदपिनलो
भोपरिग्रहं॥नमर्यादांगाहणमपिन
नीचेष्वनिरचि॥रिपुसौर्योद्धिर्योविपत
विनयसंग्रातिसतांदवत्तंत्रातनरत
निरतंपालयविभो॥१॥वृक्षंक्षीणफ
लंत्यजंतिविहगाःस्पसकंसरंसारसांनृद्र।
व्यं पुरुषास्त्यजंतिगनकाभ्रष्टंनृपसेव
तां॥पुष्पंपुरयुक्तांत्यजंतिमदपादग्धं।
त्यजंतिमृगाःसर्वेस्वार्थवसोजरमत्ते।
कोकस्पकोवल्लभा॥२॥पात्रंनेवयदा
करिविटयोदोषोवशंतस्यकिं।नालुको
कोस्तुयदिवासूर्यस्यकिंउदणं॥वृषा
नैवयदाचात्रमुखेमेघस्यकिंउदणं

दधिजलश्रपीवंपंडितंनिरधनत्वं।अनप
त्तिरूपणत्वंदुर्भगत्वंस्वरूपंस्वजनजन-
वियोगीनिर्विवेकीविधाता॥१५॥गलेर
त्नंगीतंश्रवणसुषिरत्नंहरिकथा।रणेर
त्नंवाजीनृमितलरत्नंदिनकरे।निशार-
त्नंचंद्रेसयनतलरत्नंशिशिमुखे।सभा
रत्नंविद्याजयतिनृपरत्नंरघुपते॥१६
॥

॥श्रीवीतरागायनमः॥ॐपनमियतनामोग्र
सोतरलिषः॥पुछा॥स्वारथपरमारथकोन
वातसोंसफलहोय॥कहीबुद्धसों॥१॥पुछी॥ऐसी
बुद्धिकोनकोंहिये॥कहीअनजवक्ता॥२॥पुछी
बुद्धिवधेकोनवातसों॥कहीरणसमरनतेंमो
प्रथमतोरेणकीकृपातेंबुद्धिनिरमलहोय॥औ
रइष्टसमरनतेंचितथिरहोयचितथिरतेंबुद्धि
निरमलहोयहै॥३॥बुद्धिजिकेंकैसीवातसोंपा
वे॥कहीजिकेंसोवातसों॥औरविद्यासों॥धरम
शास्त्रनीतशास्त्रवांचेसों तायाकगारीसों॥४
बुद्धिकोफलकहा॥जपापजानवो॥जसशुक
नेकसाधनसो॥आपनोस्वारथकरवो॥आ
पनिअरुऔरकोउपकारकपिछानेनराअरुध
नकोनिधानहै॥५॥ग्रस्तकैमलुनदि...औरअधि
कुकहा॥कहीअसाकेनरवार...वा॥पुत्र
कैमातापिताकीसेवा॥मह...
प्रतिपाल॥औरप्रजाके...
वाककेंस्वामधर्म:...
लाउस्थरकीअन...
प्यरत्रसन्नतहै...
न॥कहाजसा...
नकीसो॥ध...
तभिकरहे...
हाथस...
विक...
सो...

रपकुपातसो॥११॥बुधिक्षीपीक्रोनवातसोरहै
आपदासो:जाहरविज्ञवपावस्तै[illegible]पा॥१२॥क्रो
मक्रोनसोसुधरै॥क्रसानिक्रबषत॥अक्रुव
ध:आपनेसुजानितक्रसो॥१३॥क्रोमक्रोक्रुरख्य।
क्रोन॥महन्तक्रमसोक्रा॥मज्यादानीवृद्धे॥१४॥
षरावोक्रोनवातसो॥जहास्जनदुर्जनसत्रु
मित्रक्रोविषबरगारभतस्तो॥१५॥विक्रुरक्रोन॥
विनांमतलबविनां॥अपराधक्रोक्रुक्रोवुरामा
हैअक्रुक्रैरै॥१६॥सत्यांनोक्रोन॥अनुक्रक्रोमन
हीक्रुरै॥आपसोवनेजैसो॥अहिंसानक्रस्योक्रु
रै॥१७॥सहजैसवहीत्रसंनक्रोनवातस्तोरहै
मिएववनस्तो:क्रुदुक्रववनसोसहजैसत्रुहो
पा॥१८॥आपनोक्रुबक्रनजानिये॥नपातिपैक्रो
नस्तो॥धूरतक्रुतघनी:सुगे:निलजस्तो॥१९॥मि
त्रक्रोन॥आपनिदुषमेपरै॥आपदामेदिलन॥
वोरै॥२०॥मिवापक्रोनस्तो॥राषिये:बुद्धिवांन:गु
णी:स्वजन:औरईश्वरराजवोक्रोकुतीमोही
क्रोनयरोषे:स्तो॥औसो॥स्वजनतादुरजनदुस्य
सोक्रोतक्रपावे:पेवोक्रिक्रुउरतो॥अवस्यवाहि
यो॥२१॥सलाहक्रोनस्तोदुष्टिये॥वातक्रोपी
नहीजाय:नेक्रुबषत॥निपक्ष:धीरजवांन:
षनीक्रिक्रुहस्या॥आपनेसुजानितक्रु:अक्रुव
क्रुपानास्तो॥२२॥मनुष्यक्रोपाहिवानक्रोनवा
तसो॥वाक्रोक्रितबिसो॥आरवाक्रमसक्रुदी
नसो॥अपवाआतिपरवपस्तो॥२३॥मक्रोन
क्रुतपातबृवक्रोनवाससोहोप॥क्रुसगसो:

औरहसांमकौंपैसापरमैंगइसौं।अरुपुरष
पुन्यकौंक्ष्वाईसौं।२४। हंसांमपरायैतकौंनवा
तसौहोय।क्ष्सा।अतिक्षेन।वैहिमत:नाग
कौंअंजरीसावैकूशसौं।२५।प्रबकौंन।जोह
पसोषरयोजाय।कौंगावमोरहिपसौंनष
रषोजाय।२६।मनुष्यकौंपिछांनकौंनकौंज
नियै।जोउहकौंनहीआउंबरअसबावमो।
औरजबानकौंफोरमों।२७।वकौंकौंन।जोकौं
जुबानपरहरवोववनकुबकुनहीआवै।ज
पाकौंगपसबहीकौंसनमानराषै।सपाषि
माजुन्कजपगारजुक्हैय।२८।हुसमनआप
हीतेदकौंकौंनवातसौहोय।क्ष्साषिमास
बरसौं।२९।जुरतवांनकौंन।जोगरीबकौं
रष्याकौंरौकुसागरीबकौंऊपरकौंक्षिप।औ
रआपनैनामुनकौंक्षिप।हुर्जनकौंसफाद
त।अरुबहोतनकौंषिषमियवनेकौंहेतद
गापकौंयोवाहिपैतहीकौंरे।३१।रांजांनकौंस
दासंगहकौंनवातकौंवाहिपै।कौंहीबुक्ष्वां
ननकौंमनुष्यनकौं।तातैसबवांतहोय।
३२।राजांनकौंग्रंधर्मकौंन।क्ष्सापरदां
नकौंपरदवाहीबषतमावमहोय।और
मापनिरपषरुबरुकौंरे।३३।वाकौंरकौंन
ग्रधर्मकौंन:अरुकबलतुसतानहीरूप
जे।सोनापावै।कौंनवातसौं।क्ष्साच
नीसोपरमेश्वरकुल्पनावराषै।

कांम करतो धनी कौं निकरहीजांनैं ॥ अरु ध
नी कौं सपासा वधानी कौं जांनै ॥ धनी कै काप
ताहूमें ॥ आपनो कायदा सपाकां कौं जांनें
करै ॥ ३३ ॥ वाकर सब दांन कौं न वातसो ॥ धनी
कौ अनुद्यमसो ॥ और कौं सा धनी कौं सब काल
तैसो ही वाकर कौं ॥ बद ३४ ॥ वाकर नीस्वे कोन
वातसो रहै ॥ आपने रूप रहै ॥ अरु ताहि
बसों रहै ॥ और धनी सावधान होय पैतो ३५ ॥
वाकर कै अनुचित वात कौंन ॥ धनी कै गर
जवांन दीप कांम पर ॥ आपने कांम कौं छोड ३६ ॥
वाकर कौंन वातसो वागे ॥ अरु धनी कौ वा
करी न ही कर सकै ॥ कैसा ॥ अन्न कै कसा कोसो
रीक सरीर कतो नदै होय ॥ और ने ष वषत
वाकरी कै करपा विरीद पक कौं ॥ ३७ ॥ वाक
मस्तीमा पाकर कौंन रहै ॥ वेतसी कप मही कै
वाकरा ३८ ॥ वाकर पाउ कै वाकरी कौंन गउ कै
जाहारी ज होय ॥ अरु श्री ज होय ॥ ३९ ॥ पवा कौं
न वातसो होय ॥ आसगा निकरा सो ॥ ४० ॥
व्रपव कौंन वातसो वचै ॥ जहां दीसपती तकै
सीर पर नीत जुकै पकन होय ॥ तब अह
माहु रहै होय ॥ ४१ ॥ नीत कौ पकड कौंन ॥ जहां दस
तबज तजन कुपोत्री ॥ ४२ ॥ गुन कौ वधवा कै
कौंन तोर ॥ जहां गुन की कदर ॥ ४३ ॥ पुरष कुं
कौं कि वा कौंन वातसो जानिये ॥ कहां [illegible]

छत्रसैकै अकुनाहीकैरेइकै तीनकौं वातकु
वे: कुकृतनाहीकुरसकै। ४४। गफलतकौन
वातसो जानीजाय: जहांकामकौ कुरत निवे
उन होय: और कुमसावकौ निरधार नहीं। ४५।
सावधानी पीछे वींतं मेहनतसो कौन वात
सो रहे: कसा पुरत हरामजादिन परसदाप
हसतारसौ कुरे। ४७। वाकरकौ मातरा कौन
वातसो: कसा धनीज पापअहवालजान
तरहे: मागिविन षबरकेतादिय अकुपाको
वना अपराध कुबकसनकेय। ४८। धनीकौ ध
णियाप कौन वातसो। जहांतांनगुनामाफ
होय। ४९। गुन्हामां कौन कौन होकरिये।
जहां जाण कुमहरामजदगी सो दिगाडकी
यो होय। ५०। वाकर आपने रिज कुपर कौन
वातसौ रहे। कुक विना तागीर न होय। ५१।
मिरधारगी कौन: नुषतो निवाजस आप
रिझवारी। ५२। राम कौन: वाही वषत हाजर
होय: अपवा मंगायकै देवोपिय अकुलयन
५३। वाकरकै औसी मनछा कौन। सो दिलमें
कुबकसन ही आनि पे: अकु जो आनितो षना
होय। कसामी विना पहकाम न होय। तातें
मेरीगरजको वार होय रापिगो। ५४। अकुचा
यस वापहे होयतो षताकु बकसन होय। कुकु
तो धनी कै गापकी होयतो कुसावधान धनी

आगे।कामकूरेऔकरिये:दुझीयनीअसम
र्थहोयतोइसमर्थवानजानोकूरे।।५४।।आ
पदाकोनवातसोआवे:जहांनकीनीटकी
कवाई।।५५।।दुष्टकोन।विनाअपराधआपको
स्वारथहेतकोउकोबुराकरे।।५६।।साधकोन
आपकोबुरोकियेउजकोउकोबुरानहीकरे।।
आगनतोउगुनहीकिता।।५७।।बलवानकोन:
बहुतनसोमिलाप:बहुतनसो।विरोधसो
रनिरबल।।५८।।कुसताकोनवातसोनहोप
ले:जाहाकुसावकोमितानीनिरधार।।५९।।
सग्रामसोविजकोनवातसोहोय।कहोछ
कोपेसाहरदारकोपिरीजे:हरदारकोहेछ
कबहुनहोवे:निश्चैविजैहोय:अरुसक
अधिकबलवानहोयतोउकुमकैसेतोनुन
तानाहोरहे।।८०।।वबनकोननकोसलहोयपापी
रषवानको।।८१।।छतेयहस्त:गहस्तीकोननहो
दमहीण।।८२।।देहीकोरकोनविसन।।८३।।
पुन्यकोन:औतोकाउकोसुषदेवो।पापमा
दूजोतोकाउकोदुषदेवो।।८४।।अनुविलकाम
कोनसोवनआवो।विसपकोवपी।आरको
दुर्मती:सुबस्तो।।८५।।गगावकोन:गपावाहि
ई।।८६।।छ्वकोरष्याकोनवातमतो:जपास
विकिजुकेदानसो।।८७।।आपनारिष्याकी
वातसो।आरनकोरष्याकरनी।।८८।।रु

मैआदरक्रौनवातसोपावै:गुनसो।७९।जबर
होयक्रैसावारक्रौन:क्रतज्ञवान:८०।अपमान
क्रौनवाततेहोय:मागवेतै।८१।ऐसोदोढ़ता
क्रौनक्रुमरखगसोपरहै।विद्यागुण।८२।सो
तसोवुराख्या:अनक्रोक्रसावो:ऊरमतमैक्रप
रायतो।८३।स्वजनधर्मक्रौन.पहिचानहोछिम
यवानहोय:वनैजैसोअहसांनक्रैरे.मापय.वि
गवै।८४।मनुष्यपनोक्रौन।आपसेंउपगार.
क्रायेहोयताक्रोअहसांनमांनवपक्रोपेत।८
विनादुषदुषीक्रौनवातसोहोय.क्रहो.अपै
पाईसो।८५।नवाईमेंवुराक्रौनक्राहै:क्रहो
दुरजनसोक्रमाक्ररनी:सोविआदपीलवै।
आदमीनसो।८६।बतेधनतीराक्रौनवात
सो:त्रस्नामों:८७।छणमैनसाक्रौनलात:वुरा
क्रांमक्ररनमैंकुपथहोय।८८।बुधवांनत्रसंन
क्रौनगैररहै:क्रदरदानकोक्रनमे:वुदासहोय
मुरषसंनमे।९०।परक्राक्रौनक्रोदुरवल:मनु
क्रौ।९१।सर्बवसक्रौनवातमोहोय:देवनो
वसों:गुनागुनक्रौक्रदरसों:अहंकारीनिमता
सो:महतजनसतक्रारसों:अस्त्रीप्रेमसोक्रु
टंवकुसनावसों:सुजनसुजनतासों:दुरज
नदहसतदिषाइसो।९२।मित्रसोगोविक्रौ
नवातराषीये:जावातक्रहैपे।आपनोधर्म
जाय।९३।सर्बधर्मनक्रोमारक्रहा:अहिंसा
दया।९४।दोहा:सतअगरतोहैंतरे:सुपरी
पदसुमीबुध:नमिपतत्रयमीतरसागर पडुर
राणुमहोनिक्षध्यो।१

॥श्रीरुद्रदेवायनमः॥अथग्यानप्रदीपकाभाषा॥
ग्रंथलिष्यते॥तत्रादौमंगलाचरनदोहा॥रवनरु
विरंचपमम:जोमैज्ञानप्रवाद:२९अनुग्रहरू
रिकरो॥ताषोत्रमप्रसाद॥१॥सुषरुपजनदुषरू
मिरनाहिरज्ञानततसार॥रवैसुग्यानप्रदीपको
लुवउपरलुपगार॥२॥सुषहैसोइसारहै॥दुषहै
मलअसार॥दुषतजबो॥सुषवांछबो॥वेहसरु
उसमार॥३॥ज्ञानाग्यानलछन॥सुषदुषआद
पदारथन॥भेषजचारपदत्र॥लिवैजैसीजानेनही
रुंचीसमझेअरथ॥४॥विनरसतैमारगवक्रो॥क्रै
सेपाऊवेगाम॥जैसेहीविनज्ञानतो॥होयनक्रै
काम॥५॥कारजकारनसमझहद॥हानवृद्धिपहि
वान॥पुनआरनहिकुछडिहि॥व्रापतसहि
जैज्ञान॥६॥लछदबरवो॥सुषकारनहरिनकीस
त्यप्रमान॥सरकाजनमहुजजा॥तेसुषकीषान
तातेकरिहरिनकीकरिवकजात॥सुमिरसतव
विधिपुर्वकजाहुकरीत॥७॥सरबवातकरता
तैलिवैहिआनंद॥२९॥कृपाकरिटरिहैसबदुष
दुद॥सुमिरनतेफिरज्ञानकोचितथिरहोय॥
चितथिरतेबुधिनिरमलनिश्चैजाय॥८॥बुव
तेदुषअरुसुषकोजानेरूप॥तबहीसुषको
साधनवनेअनुप॥साधनविधितोवनिहै॥
बपहजान॥सुषप्रापतितत्तकोलहिहोयप्र
मान॥९॥कारजहैदुजपारपलषेनसुर॥ति
नजपमतेकारजजानजहर॥येहेदुपारप
लषकोदीपकवेष॥प्रजुसुमिरनतेंनासक

होय विसेष ।१०। तातें प्रभु सुमिरन मेरे हित उ
मीत । पाछे साधन देह सु करि रीत । जो उत्त
म कुल विधि सो रहित उपाय । सो करि उत्त
म सब सुख साध ।११। जैसो सुख ह्वै तामें क
र संतोष । जो सुख उत्तम धर्म विफल सुख नाव दोष
सु उत्तम धर्म तें करत निरफल जान । वद है क
रत ह्वै हैय उत्तम अभिमान ।१२। अरु ताकी चिंता
उक्त करन मीत । चिंता छुपाकरन पहन हिय
प्रीत । पुरब संचित तातें जो कछु होय । ताको
तुम हो मेरे भावी सोय ।१३। कितक समर्थ ते
री तुम हो वात । जिनकी वडी समर्थ जगविष्या
त । अवतार पिछले सब अरु उतना वाति
योन तिनसो तुम हो मूढ़ ।१४। तातें किन उत्त
तकी प्रिय करन मान । जो कछु होय सुतामें ज्ञा
न हिय आन । जो कछु ह्वै बो सो तो सब सुख
चि उत्तम साधन करही मे है मिठ ।१५। तातें
उत्तम काज न निदे कोय । ऐसो उत्तम धर्म करिये
सब सुख होय । जाते सुख अरु सुख की प्रापति
तुव । ऐसो उत्तम धर्म सो उत्तकर उत्तन तुव ।१६।
उत्तम धर्म विन मोहि उरन निजै सरीर दिढ पा
करन धर्म करिये वीर । जाके प्रपम सुखपा
वै नहिं उनपाय । आनंद जामें अधिक सु
उत्तम धर्म साध ।१७। कवित । हैये वदनीत है नं
दोसन ताकी नीके नाहि निके नाहि ने कछु
कैसें कर परन की । न । ७ । १०.२५ .

हारह्योहीहोय।काजकैनहोयपरतुनीस्वारपस
रनकी।तातैंवपनीतहोयकछियैफ।जीतकौ
है।कौजीयेंनवाइजैसीआपकौकरनकी।आ
गलीहीवितकरहौकेसोनपितरहिंवपर्दै
जाकौवितापोषणनकरनकौ।१८।गईवस्तुत
कौकुमतोवस्तुकुकरोनाहि।जानहारवस्तुपा
छीकैसैकुनआयहै।छातीवस्तुराषीकुनगई
तौसौसुलअवगईवस्तुपाछीकहाहोकैसेसुरख
यहै।राषीकुनगईतासोंनरकरीकैसेहोय
मेरीकुनमिटै।ऐसैजाहरजतायहै।सबहीनि
मतमात्रैनहारजैतारहै।आनहारआपहै
कुजानहारजायहै।१९।अबरवै।तबतेरीताकी
पोककुकुननजायहोनहारस्वैजैसैतैसेहोय
तबकौसाधनतफरुकरिहिंअरुतकौसा
धनकरिउनेकहिंयेहमनकौ।२०।प्रश्नः॥
दोहा।कहीकीपोरकुहोयनहि।होनहारसो
होय।तबजनमसाधनकरन।कृपाषिकसो
सोय।२१।उत्तर।छंद।वैताल।जनमपितकौ
पापसुनमरूकिपेजैसेंज्ञानतप्यकैरनज
नमसाधनवारयहपहिचान।पेकजबकेज
हासाधनसाघसाधनदेह।विनासाधनपे
हनरहैजानानिश्चयेह।२२।पापविधिजोक
रमपितकैनागवहिंनाहुर।पुनपितकेघी
नहैहैपापकैहैहूए।पित्याहीअपजसा

पिऊहोयपैहैदुषपूर।जनमनभागबिननरकूंजा
हेदेतजगसबधूर॥२३॥नेकविचरूओकरमपि
छवैनलागवाहिजोहोय।पुन्यपित्तलेघरबलहै
हेपापनिरबलजोहोय।पेडधनाढकरेपैहैसु
षहोयपैहैजगकीत।जनमनभागबिनसुरगकेहि
यतकहनभागमनीत॥२४॥ताहितेकरनैक
नधरमहैहैनिश्रेयमान।पुन्यकरौजोवृद्धिन
हितोनाहिनिश्रेहान।पुन्यपैंनहिवृद्धितो
कहिपापतेंकहावृद्धि।हैतजैसोकहाजुवेहै
वातइहमसिद्धि॥२५॥सास्त्रसुनउपदेसस
तसंगनितनमिपतअंग।बूझआपकिहै
नसुषकेकहेहेतप्रसंग।होयपुरबकरमजै
से■हैहैनिश्रेवात।हेतुविननहिकहाजुवैयंहै
जानियेविष्यात॥२६॥वेनितसतसंगअप्रिसव
होसुक्रतजनहेत।वाहिकहैसतसंगकुवि
तकुसंगतवहिसुषदेत।पुरबसंचितहोय
जैसेजगवासपाय।बूझिवेजैसेजाहिकैसी
विमलमेलोआय॥२७॥बूझजैसेहोयसाधन
होयसाधनजेम।जानियेछिहिरीतपहिले
हानसंकरषेम।होयहैकछुकहाजुतवतेहो
यकारनधार।हितविननहिकहाजुबलकै
नियेनिरधार॥२८॥नकरसाधनपापताते
मांत्रीपाहिहिनायानेकविचतेहोयजोहै
सुताहिमैसुषपाय।पाहिमैआनदकैनि

ारनिश्चैदभ।नकैरहेसेतोभतोझाहोमेरे
ावीरभ।रंगसाबविचविचकैरहिनिरनप
रहिसाधननेकाऊ ज्यागनिकैसुमुकैसाधन
ारकैवयहरेकै।निरंतरसुषजनमरूनमेस
हरुठुजोकोकै।नेकैसाधनकैरठजोसेसुणकु
सीवितरोकै।३०।छप्पय।।सतसोवदृज्ञान।
यानकैरदृ०नजोजोकैरमसुकैरसुणकैामत
जातहंदोषरुगोजे।कैरसाधनयहदेछनेकैवा
प्रगुसोउरिये।आपवणतनपगारअवसओ
रारोकैरिये।सबसोदयावजिरिवपरहिमधुर
ववनसुपनुक्रौरे।मपसारकैयोमिधातयहरां
नेहेनइनसोपरे।३१।वेदपुराणकुरावानसत
तिनमेहेसबहो।सोइनछप्पयमाहिकैयोनि
श्रीकैरअबहो।इनसोमारनगपांनआनकरि
देषोकैाद।वहेवोकैपरवोकैसपरकैवेइनतेदि
न।अपासुइहेमरदृकैासठजनतिणमारग
वहा।तिणमारावहोवोकैासकैठरदृ०ववनर
णविचकैसा।३२।गीतमोणारा।कैाचोनछहुवे
कैाणीराकैमूहो।मरणोचोडादिहाडामायाकैर
णीजीकैांनजारकैरणी।कैरणाकुराकिणारीकैा
या१।सुषराकैमकिकैनहसरकै।आयांकुमकुंडो
अपसोस।भारीकिकैा।आपराषरवोदियोनथी
किणानुदोस।२।किजोमिनषजनमरणवाहा।
वाहावाहाजगहो।एवषाणवकुरामतअवमा
णकुकजो।आवणकैगणवकेअवमाण।३।आ

योसासआसानछआवण।कुरेमिताबनज
वाह्राम।सावापणेरहेजपसजन।नेकुजवेग
वोछाम।४।ऊ।रेरा।कुकरमकरमकरपापअने
कुकवापां।वाह्रुसेकुरवारवहे।मापानपत्राव
तदुषमोरे।रामतदुषसुहजरहे१।जतनोजिह्वा
रहेनहिजाती।हदमोजितपावहे।मरतासाप
हेनहमाया।वाह्रससापिपापवंछे।२।अपक्र
अभिजनमहेअहि।क्रोधादुक्तातरवेक्रेगे।औ
गणतोइणरातअनेक्रा।आहरनहसुणएकुगे
।३।भावीक्रहाजिक्रासानकुत्रो।पुंजीमकरेपा
पपक्रा।वहतोनीतविकसतावाकु।नेवोमापा
कुरेनवां।४।३४।छदा।अडिल।जोतोक्रेदुषद
योहेपकुतोहिक्रो।कुरोनेक्रमतवांछेदषत
जवाहिक्रो।करतोसोनहकरेरहे।पिरसुषहे
वहोस्वजनअस्नुवेआसुनतमपुरषहोऊ।वा
क्रोनितप्रतिपदवक्ररेहिसधयहो।वहदुसन
कुजगरसत्रापिरपावहो।क्रिमाक्रियतेसज।
मितावीपायहे।तोतेकुकरक्रिमानवोहिक्र
हायहे।३५।जोनमिपतहितासज्ञानेनेदेव
होहेयामेनपगारमित्रतोहेनहेमोनमिप
तअधिक्रारक्रहोराज्ञानहो।नृपनहिदेव
नसीततहोवजुहानहो।३।नदेसक्राजहो
ध्यारत्नवनहरवजा।निश्चेपविजवोकुदु
धित्रपवजा।राजनकुरनानसोतनीतपक्र
रहेओरनक्रिमाम्पोन [illegible]

कुतासबकोनकोसदाईबाहे। बाहेगेसबको
हिकहेगयाहिसेनहकरिहेचै षमित्रजोकिन
कसो। तातेसोनहैचेषकरहिताकिनकसो
१३९ मन्वोकरतजोदुष्टतुरा बाहेकरे। क्रिपोहि
पकहुनाहिविचनवाकेपरे। मानकुरहेहि
सदाइच्छानिये। राषपहेविश्वासकिमानस्य
नियै १४० स्ताचनअपनेकष्टटरनकोकरहिरे
दुष्टनकीकहुसकेदेमतधरहिरे। कोउको
कीपोनकबेहिवकेहिरे। क्रिपोहीयतादुष्टक
रैहिवकेहिरे १४१ पेकाउकोनाहिकेपोकडु
सरतहे। निमतहीपतिनवारसुतेसेकरतहे
पकरतवारइछुरहुररहिपापसों। करनीआर
जवीजगीवहआपमों १४२ जाकुमानेनतो
करहिपहिषाजना। निश्चेकरनजआपहिमे
हिमोजना। वातेयहयहरीतनसीपतवागहे
यहाजनमइनदेहमहसुषपागहे १४३ जीवन
केहेसरकजगतजसकुरहे। मोक्षहीपपरके
कनपामेकुरहे। जोमानेपरलोकनेनामतरूप
करेहे। सुषपायकइनलोकसुनजीवतचहे। १४४
ओरुपरलोकजसुसपसुआगमकहतहे।
आगमसतप्रमानजानभ्रमरहितहेजो
आगमकरतासुप्रबलबुधजानियेताहि
वचनमेंकृपानरमथोआनिये १४५ भ्रम
नपरेंगपातानवचनजोआपहे। बुधकुता

कछुकपारनहिपायेहे।मोनेनहिपातानव
ववेसअपता।आपअपअरुअपछेसरव
पता।४५।अधिकआपदामुखकहेसुषकहि
को।जानपदारपअपग्रहेदुखताहिको।जोप
दार्थसुषताहिनजान्योसुरही।होयतहंसुष
कहोजहोदुषसुरही।४७।सुषसाधनमोतोग्र
पमकहेविछिजानिये।तिसपदेहीनरचासुषि
पुत्रमानिये।सुषकहेतविमोषकहेफिरसुष
हिरेहैं।सरधासुतनिरपक्षहोजकहेसुनहिरे
।४८।दोहा।सुषमनहोकहिपिरजाइ:दुषमनअ
स्थिरसाय:सुषदुषकाजवमूढर:कहेसुपि
आगाय।४९।ताहितेमनजीतबो:कहेसुक
रकरसुष:मनजीतेआनंदहै:दुषकारनमन
दुष:५०।वितवंवकअविलाषते:विनकछा
पिरहोय:सुषमनहोकहिपिरजाइ:द्वैअैसेपि
रमोय।५१।अरुवनपमांसारतें:रहेनमनअ
जलाष:तवपुरनआनंदहै:यहेपुरातनसाष
।५२।अरुवहोयमांसारते:पापपुरनपोन:ता
तेसुषकोमुकहे:पांनसुसहेसुजांन।५३।पा
नसुबुद्धिचकासतें:बुझ इस्नाकीपाय:ताते
सुषकारनप्रथम:हरनकोसुषदाय:।५४।
स्वारथपरमारथसफल:विनहरिनाकीनां
हि:कहेसुनकीत्रनावम्अब:जैसोवरमोमां
हि:५५।कुनमइनअवनीविषे:सबतेमानु
षदेह:सुकतापंपतातेकहे:सुद ।६ ।५६।

कोटिमनुसंजनमजिहि: सुविपरमारथपंथ: पसु
आदिकसमसुसरे: जानेभरतप्रतंथ ।४७। वि
षपादिकसुषस्वमी: पसुवादिकछहोय: विन
परमारथनरपसु: पुछअंग विनसोय ।४८। सो
परमारथमिद्धहोवे: इष्टअनुपपाय: सहेसुरुइष्ट
सरूपकूं: तके शमानवनाय ।४९। अपनइष्टस्व
रूपकृपन ॥दोहा॥ निरविकारपरवृद्धहै: ओहै
सबकोनाय: निराकारसाकारजिहि: अगमअ
गोचरगाय ।५०। जोटोसबैनपासना: सबैनाम
अरूरूप: सोसबकौसबतैजुदो: आतमइष्टअ
नुप ।५१। अथ ॥ त्रिविधसरूपजिज्ञासा: छोन
पासनाआय: त्रिहिविधइश्वरआइये: सोकही
पैसमुझाय ।५२। अपार इश्वरआकरत: नामअ
पासनासुपाना ॥ दूजेअपनोहूंजदेवके: कृपाहु
केजापिव: ता होनामसरूपमो: छीरवसुमि
रनमोव: ।५३। इष्टनुपासनघरपमे: सावधान
सुघहोय: नितभावतहैजिनवदसमो: निरवा
छतनरसोय ।५४। भावतस्वंहसमो: रहैविष्ट
उपलीन: केपातासिवकवहीं: वेहदवासना
हीन ।५५। भावतअैसइष्टसो: जोसकुलजवि
वार: जोजोकारजदीषिपे: तामैविविधविकार
।५६। जेजानतसुषदेहके: सुगसकलदुषछेद:
सुषमैदुषदुषमैसुसुष: जानतसुरसमयेघ:
।५७। जीवरतेसोमवजनसो: बाहिरसवहूमि
ष्टासैंन: षापैसुषदुषहोपजो: पैवविसाय

सुषग्यान ॥ ५९ ॥ कारन दुषके दूर तेहे : कारन सु
षके ग्यान : तातें सुष नांहि देषो : कैसें है अग्यान
॥ ५९ ॥ कारन जैसो काज है : कैसें षहे सब काय : वी
जे जैसे बाय के : निपजे वैसो होय ॥ ६० ॥ पर कें दुषकुं
पेषो करें : पंचविसय दुषदाय : तातें अपने ईस
सों : लगो सुमन ववजाय ॥ ६१ ॥ प्रश्न ॥ पंचविषय
सुषतें कहो : हुं कहो दुष होय : सो मोहि समझाव
कैसे पंचविसय सुष सोय ॥ ६२ ॥ उत्तर ॥ ज्ञानतें
पहचो कैमें : पंचविसे सुषरूप : सो मिथ्या निरध
रसुन : सुषसरूप कहि विन्तुप ॥ ६३ ॥ सुर्कुन्दुकन ॥
रहेसपद आनंद मत : मनपावे विश्राम दुषकों ज
हां न जावे है : सुष है ता को नाम ॥ ६४ ॥ सुषपदमन
पहसो कहो : पंचविसे सुष मांहि : जहां विसे तहां
कामना : वहां नेक सुष नाहि ॥ ६५ ॥ उदाहरन छप
य ॥ जग कामना तुर तहों तपित दुष आतुरता
ता को दूरता विना कहो कैसें सुष आतुरता पो कहे
रेनु पायक छुता तें पमहिं ताके : काम मिथ्र ताहि
न होय तसें सपं दुष आडे नं छिवना कामसको
वनत सो हो ता न पतन हिंहों : पंजो : ता कृपागर
नयो दुषसें मिथ्रो ताको सुषपामे जो पजो ॥ ६६ ॥
प्रश्न ॥ दोहा ॥ जो पेहे ता छसबहि : चरदकाप
नां कहि सो आतिसमुकाइय : ऐसे रहे न जाहि
॥ ६७ ॥ उत्तर ॥ इस बहो अगपान वस : यैरकां
मनामीत दुष कोसुष अंगपांन तें : जानत पो
विपरीत ॥ ६८ ॥ उदाहरन छप्पय ॥ जैसे दुष न्हैं

बाउपवनविनगुडीउडावत।।कहुबहुतविष्यात
अउपसुषनउरनआवत।छि।मातपितहमेंअग
ताअगरछिआवहीं।तनुनससुमेंअगपष्याउरिख
हीसुषवछि।सुषस्योही।पांसुविसयकेमांहीकष्टकै
मूढही।पैपवैनथोकरवापैरसमझनवाकैजकडी
।७९।दोहा।ज्योंसुररोगीच्युतकुपै:नपसैबहुतुपा
त।छिनतसुषहि।कष्टबहु:लहेहैविरकविष्यात
।८०।जैसेवावरुआउकुत्र:पैरपैरवाआन:ज्योंसु
षपैवनपावपै:पैरसुवसअगांन।८१।नैननकेसु
षवसपस्यौ।दीपकुजरैपतंग।उरतोकेपरपिर
जरै:प्रबलअपतासंग।८२।रसनमीननासानी
मर:गडसपरसतेआहि:दगपतंगमृगश्रवनर
स:पंचकतेंदुषपांहि:८३।पंचकइंद्रिपविसयते
होतइतोदुषआन:कोजामेपांवोविसे:ताहंछो
नसुषहान।८४।कुंडलीया।माषीमकरीज्याकेमें:
परीसुतरस्राकित:वहउानेंसुरसरवुडु:सोपेत
रसनहेत:सौपेतरसनहेत:तनवहतरफेतामें
दुषअरुझनपैषेन:सुरसबासमकेजामे:सुषवा
हतजुगजीव:जितेविसयनअनिलाषी:जानव
कइनरीत:जाउमकरीजिमगाषी।८५।चौपई
उषेजुपारपवेसअवेस:पष्पपातजुहानांहि
प्रवेस:षोलेकुरनिरपष्पविवार:मोअनना
वीउपैनिरधार।८६।कवित:पांवहीविसेकेसुष
मांहदुषदापकहे।तिनकेपिछानतिप्रअसुलकु
पावनी।विसयसुनैनताकेदेहडीनसारीहिदे

छठीअरागरहोद्वैसविधनांवनी।रागद्वेषमि
टैजोकैमोहादिकहोयनास।जीवनमुक्तहोहिमुक्ते
माहसुषभावनी।देहकोसंजोगजौलौंप्रारब्ध
कर्मभोगजेवरीजरीजौसातावितलसुभावना॥
८७।दोहा।ऐसेपायेंविसयसुषतेंसबहीसुष
बाध।जांतजांतेंकेदेषिये:सुवदुवसिपाध।८८
तातेंकहूंकछिकयह।निश्चैकरनिरधार।करिये
हैअरुविचारसों:याहीमैंसुषसार।८९।आर:
मोह।काम।क्रोध।लोभ।मद।मत्सर।येषटहै
करताहै।तातेंइनकौकछिकयहिसांतंविचारसों।
त्यागकर।अथ।मोहादिसकोपर्याय।अथ:मो
ह:दोहा:।मोहगयेसबहीमिटै।धर्मधर्मविवे
क।आपावरतैआरमे।सताक्ष्रुंगटिक।९०।मो
हरागकौरूपजुहै।ममतासोऊनिरधार।मोह
मिटेंसबहीमिटै।जैतेंममअधिकार।९१।का
म।कांमगयेमनसीदमिटे।रहिनविवेकविंार:
मांगहोयतनविकलजे।अरुवानलनिहार।
९२।क्रोध।क्रोधगयेसबसुधमिटै।सांन्यपात
जोहोय।धीरजसहितविवेकमिटै।कबहूपा
वनसोय।९३।लोभ।मिटेपतसकलगुन।इस्व
रकौडीकज्ञान।करहरवाईआपनी।रूपतहोये
पनिधान।९४।मदमत्सर।मनामत्सरइनआ
देवै।एसबहीदुषदेत।जहांपांनत्रधमहिमि
टै।सुमनपवनकिहहेत।९५।ममतमिटैमोह
जेमिटै:मोहमिटेदुषदेह।ममतमिटैपैसुक्ते

है। यामें नहि संदेह ।९६। सतसंगति त्रनु गुन रुन
नारहै सास्त्र अभ्यास। सेनै सानै रुन ममतसौं छु
टै जान दुष त्रास ।९७। सुनै सास्त्र कछु कैं करै। सत
संगति में जाय: कबै न कबै मन लाउ। सुन सत्र संगतै
सुष पाय: ।९८। याही सौं होहि ना रहै। नर कछु कौ है सुक
गई नितौं सौं आपत वाषि पछै रेसौ कुछ ।९९। कोई
ज्यौं ही हौं नदे: दुष पावै कछु नाहि: आवै वही कछु
कस्तूर: घर जब हम मन माहि ।१००। नर इह सब कोउ
नक्र: गडन क्रूर रस कुसो क्र। वपछ होय मन रूठ हव
है। रूष वाही सौ रा क्र ।१०१। जैते सुष संसार के: ति
रुपु तिन के देष: त पजा व रुमन कस्तु वना। ता रु
प्रीतता के ष ।१०२। अप मित्र अव सपा रुपना।
नाहि हरष सब वात को: फिकर न होइ हान। रहै है
क्र न हित रस ना: तब ही सुरन पान ।१०३। नपा हर
ष सब वात को: विनसा व ही: दुष पावै नहि कुछु।
मन ज्ञा के ऐसो सरव: नपै परम सुष सुक: १०४
प्रस्न॥ सुष दुष त्रि हम ज्ञोग ते: तिंहि विकु रेउ पक्षा
प: नप हरष विनासैं न दुष: पैहै विकु बचा पए॥
न्तरा कद पद्वरी॥ जिम होय मन क्रो न सु रवार:
विज्ञा गन पैं मानुष सरीर: चषब्रु च बक्र त्राक्र
मस्तु के देह: आनंद होय जाके मठेह ।१०५। षगघ
रा क्र रवा हि देह मंडार न षेत कूरे क्र पमंड मंड छुकु
सो क्र होय तक्रि नाव्रुस: आनंद होय पजा कै विमोक्ष
।१०६। दोहा॥ ऐसे ही विनसै नही: नपै अवस्था ए
ह: यही ग्यान के व क्र है: मुक्त यही जुत देह ।१०७। सो

रग।११।तावहीब्रह्महैंत।बहुआनंदसुषदनाहि
सोअविकाररहंत:पुरब्रह्मरमनजोगवे।१०९।
दोहा:स्वारथपरमारथनतें:निरइछ्या ब्रह्मकूं
म:नपेनब्रह्मरमनकावमा:सदासेछ्याअनिरां
म।११०।जाकेहैकेतीसरव।त्यागब्रह्मरीब्रह्मकहूनां
हि:त्यागब्रह्मरीअनिछ्यापसी:सवैत्यागतामा
हि।१११।तनकेत्यागेत्यागनांह:मनकेत्यागेत्यां
ग:ब्रह्मरमनलागेपछै:लागेसुमनकेलाग।११२।
जाकेतनममतामिटी:समतावाकेहोय:ग्यां
नज्ञानपरगरैसुछि:ब्रह्मरमअब्रह्मरमनप्राय।।
११३।सिपायअविद्याछन।कवित्त।।तिनकैनस्याग
रूकेपनहि:अरुउररहैजनूता।हाकै।।इनकै
नतहैअहुनजहां:फिरधर्मअधर्मरहैकिन
कै।।तिनकैनअधीनरहैजुरहै:ब्रह्मसुषताविस
रसा।तिनकै।।जिनकैनपाचब्रह्मजुगहीजां
हांजीवनमुक्तनईतिनकै।११४।दोहा।विमोस्वगी
अरुसुक्रमौं:ममतारहतासुर:रहिअर्थउरआ
नंदअरु:ग्यांनिज्ञानसोंपुर।११५।वाविवहै
प्रापंका:समकैउरनिरधार:मिरममतासम
ताव्है:नितआनंदअपार।११६।नपैवेंपछी
नोपहै:नाभायंपसुधार:तात्सग्यांनप्यारेहि
मै:ब्रह्मेसुगताब्रह्मरसार।११७।अपनाआत्मआ
त्महंपंकापकविंतनासाकेब्रह्महैनत्योंप्रताप
रूपठतोठपु:धरैसुषआमाजामेंसर्सेहि

[illegible] पिछा [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] विनव मा [illegible]
[illegible]
[illegible] दिवि [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] विना [illegible]
[illegible]
[illegible] विरव [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] पाय [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]

ग्रंथमैग्यांननीतवैराग:श्रोसबब्रह्मआदिसंपगी
यो:रूपासोअनुराग:।१२८।ग्रंथपढनम:अगर
हसोउपरे:वरषगुणंतरपाव:सांवणरूदीति
पत्रपमसनिग्रपत्रगरस्तुषपाय।१२९।दोसदे
साधिपविवर्जन।नरसमुपमरूदुपसंछंद:र
स्मक्षुपतमांन:नगरनागपुरमैवस्यो:ग्रंथप्र
दीपकग्यांन:१३०।इष्टअनुग्रहतैजगर:ग्रंथ
जयेसुषधाम:जोयाकौनरचारहै:ताहिसद
अभिराम।१३१।इतिश्रीग्यानप्रदीपकाभाषा
ग्रंथलिष्योजोधपुरसंघेमांमत१८८४राना
प्रवाबद९बुधवांमुंहरनांणराठैवाचितीय
सुखश्रीजोगमायाजीरावनावजोश्रीरस्तु

॥श्रीगणेशायनमः॥अथपां
म्हैजीयांरीवातलीषतेः॥
देषानगरसूहामणाःईथ
डसूरंगागामः गांमनंदेरी
फरगटीयाजांडीसरलोका
समांनाषातीणगावेमेंद
सतषणाःसोनेलीषीया
लैहैः नैनताकीचोपमाः
केहितनआवेलेहःरातो
दांकीनारीपेषि योरनाकी
ऊणहारःरूपवंतमूगांआ
गलीअसवरनदीयांसारःऊ
पैहरयासबहीआभरणः
चौरदीषणकांनीरःबौह

नमपीमीलग्रुजरैआर्दम:
लमपीमीलग्रुजरैआर्द्म:
रवतीरात्रोतातांनासर
वरपैपीयेम्रुजरन्नरैनीवी
रा:गांवरङ्गावावडीसो
वैरीटङ्खमांनानाताग्रं
तडुनपाकृतङी:ओरम्रुंगंधीजा
यूईजुइङ्गवडाङ्गसमनहेमै
ङायाडाःमोरेआवाआंव
लीमारीदाउमद्भा:मोना
मवहीतउगह:
ङहेङविनांकी
ओयवम्रुवट
रमौर:ति

सूनवलीमैतीरामसेःश्र
तनकेरंगाजोगःकेबीया
रसआगवाःजाबेपरमव
जोगणाआगणमासवमे
तरीतःहोजीराहगामः
नवहीमोजबेजगवकेः
सूनरमरवरनामः।।१७।।
जोवासंनगयालनरप
रसजयोहपजमनंतःबाडी
बांडावनकोबेटेचबीवर
ना।।१८।।केपीवकारीजलन
तीश्रीरहणुफनाजा।।१
जमरनपरसपेनेतहिजत
गाबतरांगाहुमाजा।।१२।।

कैइगावैगारीयांकैईकैरै
परहासकैईअंगनरनैपी
रपपरमजपेमकुवास॥१३॥
कैईगावैमधुरधुनकैईदी
पैरासःकैहीकोवैहीरती
ईणविधकरैविलास॥१४॥
तीणमैपांचसहेलीयांवेही
पकणउजःनांकडुगावैनो
हसैःनोकडुवोलैवोजा॥
नोणाकाजवलनैदीयानो
गलैमैहारकरमुपतेवोल
नपाईयांनांकडुकीयांस
गार॥१५॥जुवैकैसनन्हा
ईयामैधांकपउतासवै

के
आसलउसतीलोकां
नीनासनाषणा कीरहे
कैतनपीउपेसोकेउके
हीनजायसेसोकसवन
सभिजेदेसकेरहिणे
पनाआवहुावमोरविषाई
पीरदुकेसबैउसजो
तविरहिवीपाकीपारि
कौरनदुकेवातागबीर
कहैजाचसपखलीयाः
नतहुसनांणाउसनाकह
वपुकोजायकेतासके
हाउधारवादीकोरैक
बालीयांउपदीपंतीदहेः

छनवनहीवीतजेतजैसी।
कहीकारणकैहारथा।कोम
रुताकीसकलवखुके।
सनामकसगेछेसोसुक
होविनाजकैजातवला।री
कैहारसा।पारसेहेलीकवि
वहव पासेआपणोविना
रकहेपेहजीमावणीकहै
कैडहमावीघनोमोपीता
बुधरसुसरोमालहांतमा
रैनगरमैआवीकपहमा
जपतवीवीणीकहै
गांगाकेहरीघीडीसुना
सोदेणीनांमलांनकर

गंप नीमलांक्रहेउहःता
जी नीपलाग्रापलोपीता
कुयौत्राणंछ्देवनोक्रनी
पंतलांक्रुसरोनांमकुं
दासाग्रायचनोपीक्रनाली
क्रंहेउहःपीताहमारोपर
गरंछपीचो-जातपवास्कुं
सनोस्कुदरसांपलोदाउ
नौसणहारगारसा।सपपार
मीसोनांरीक्रहेउहःसो
नोस्कुउंसोनारक्रोसांल
क्रनोक्रमगारंपी वाचर
ले क्रुपवपचुःसालापीय
सोनासारलीमालणगसउ
रांसोलणीःरीजी नीपल

नासौधीजातक्लोलम
नासौधीजातक्लारव
लीपांचमीओनासारवा
ईमहीपांचुईवेनडीजु
जीवडेक्रजीणऊआईसर
वरपेषवा नव्रुरव्समांस
जांणारडी चवरुमोंरूम
वचांषीपामीठावोरुना
पारतमहोगुणीयवगना
दमीव्रहोवीरोणीसार:१३०
नामनमकुवजातसव:
तमजेकहाविनार
सुकवतम
उपजुवोह
टीजपट

नवीमोक्षै अनंतःबालोआ
नमोलक्षैःयादिसोवरक्षैताक्षा
नेसंदीनवहेनेगाव:उनेगो
नीरग्रीमक्षै वीरहेसारेक्षुपतेःक्षा
ऊनारनारेक्षीमाराा३३गतनतर
ववक्षुत्रीयाःदोयनारंगीपुरःक्षु
क्षयणोनागाविरहेजेलासिवगहाा
उराा३४ाा क्षमलवदनक्षमलाहीयेः
नुकीनाकवनतायक्षीमिपृक्षैमो
क्षपीवविलाःसरस्यःवेनापरजा
पराा३५ाा नंपाक्षैरीतंक्षैजेगक्षा
वोसरहारःनोगक्षचाउपीव
वियःतोलागेर्यःरांचोगाराा३६ाा
पीवमोविछडायांपक्षैनेगोती
दनपायक्षैसोचाक्षैजीनीकमोःः
तानागीलातविछाहाा३७ाा

विरहैकरीमोकूअवेपुरसवार
विनाकूकपुकारौकोंनमै
पीवनकीघीसाराउसापीव
पकीजांणीनहीकअलडेहयां
घोकूअबविरहायौगीकरीपीव
विरतकीवैराउसीमावलण
पराउवकाविवराकलावि
वाक्लेहलकहैयापीरकूनके
मैकरयरतकरारारागकविपु
लैीतवावदेवाउवारनीहार
अबउमउपसरीरकाकहोतां
बोलणनारा॥४९॥छपयउजी
तंबोलणीकविलेहजनतेक
हेतैकहः उजीतंबोलणीकहै
कुणचउरापैवावेरहमार
देषउवोर्ला...

पुमरोउनीरछुयुमाऋक
ाप्युमरोउनीरछुयुमाऋक
कडुकाःपत्नीयरतावलहः
ऊनेनमोरीसारा॰ग्राजावछुक
तीवटमानर्‌ःापरविनोहा
हऊेमोरेहराऊनामेपापीहान
मेनीवाराक्षोपौनागठेमवछु
ऊऊःवेलगाईनवकेऊःउलव
नीतावसंतिःायापीयारा॰उःऊः
जपकीवाक्रमाविवऊनाघा
मवहीनुपःःाहिजमोतनावेन
हऊाःोतारनवलाउवाटहोाष
चपवोमःविनहाहोेनाकेनेन
उपनमेनऊीदेनाऊनारेकाव
ऊःपीवश्रायानेटमोागोाव
जीझीजाघंतीवामाकछ

मे वीगैसः विरह नूरनीतझर
पक्षन्वा वीझरहै वा ॥६६॥ वाइमझ
रतन जेरी पाः रेज़ झअपीयापायझ
कुंभ झोडे न रझै अबलेंआहंव
आषा चलिझया तंबोल लाआंयउ
पंःअंझ व झवियणपास नीतचिंता
मीवाटरहीमनमेरहैं ऊदासनणा
मेव वीपणनमही झलें सबकुछउ
झेव वीपणतमहीझलें सबसुषउ
षक्षीवान झंतर झउन राषीयोपुव
वहै झसवातानथा ऊथतीजीवी
पण झवि वहिवनतेझैबे ॥६७॥
तीजी वीपणझवीपांःदी पवोन
नर नीरः वीजो झोई नजांणहीः
मोराः जीवं झीपीरातरा जा
झनितविरहा हैःपरझेनझोय
झवियण नाडी देःझःवैन झाःहीं

दे ता दाहा
सोभागपीपावले
नीम दनरषोमोहिचैरताके
कै तीम दनरषोमोहिचैरतान
उपकीवारतनाकहीजारान
उपकीवारतनेकपराउप
होर्दे रोगायथेतनकहुन
कतरीदरजीविरहाजमा
वैतनवेतीपाहीनकरभाकर
उपकानोगानारकेरनावके
हरस्ते पीलजवेचीपावरल
नानावषीपादिहोमनजीरके
रंगारेचोतरंगीदिहेमजीपवडे
रंगारसकरसलीयनीनोउम
वारसरीपाचोगानगाउषः
नोउनीवोहयावारदीयाउप
नांतकदोहमारीनायके
सारनहुवीकेवागपटा
सपकुकोहिपादिदेतीटान

करविरहा बीटपरछ दीझीया

मरी रागनहीस्तुष नागाउषमा:

नरचारहिर करीमवबाररविरहे

कीपाकतांविणझीमोकुऊयगा

राठगा बीपणविरहकाविवरी

कहाविवारअवहवउषमरी

रकाऊषैकवाबीनाराडणा

ज्यपनोपीकवांवीकविरतेकहे

बैउहा: नोपीउषमरीरकावा

गीकेहणांककलालीहीवडानी

नरपैसकेविरहलगाईआल: ॥८

पीपावदैमी ऊपरयोझीअग

लवग्याय:बैहिवविरहाहगप

डो:विनजीपवीपैनजाय:८॥

मीतनजीगीजुतयेनैणतपै:

मदयाररविणअवरूग

कुदईकर अमृत गंगादेवी
ईहांपरीरहि:नाकसलीयोग्री
एताळिविवरामोविरहका:
सबैकहणाकवाळ:णनारहे
कडुदुषसांरीरका:कहोसोकारी
पांसमूंअंगनपनीपीरकतोरू
सीविरहविन:नाहिनपाने
नीरहराागदगादनेणकआसं
हीपसोलागनावेवेण:परहा
मो:वैसीकरी:छेहलागुलो
अवसोण:डाााहापाचैगीडी
मुसमनासदनअनाागाअुहा
गाकोपलाकोपादेहकागा
सामेलागुहागााऊछाहीचछे
औरीणुसांसनास:दूनअनना

गळैलोनीचवाळीयावेह
गळैलोमिटेबुराणारोर
ताकाणमाणोविरहकाःरी
नदीपानीरवाणमाणेपान
डुकीपाणोछोळावैनारीन
विरहाऊपानोरीयाःलोणीजेु
उनीवळीसेंबुकाउजाणकर:
त्रेवधयरनांहीपीवणछणमनतो
कुम
सौरंग्राणमहताःदेणोकसूताणः
विरहानीवचोनाखाःपळी
रीरायरीनयाणोमोटीवैद
नाविरहकीमीराणीयगरमों
ःनीमदीनणीयाकवसैः
णोंकुछुपनांकबुणांराणछो
नौरीवैदनविरहकीमोपैमरे
नजाणःजाकजापैमांणकैः

ीज-नीवेसीमा पीवेल
वेलांकैसोपेलणोःपीवेसाल
कैसाहसःनीसदीनकैसाहणा
नहःउसरषीमंजकृपासाहवणा
गीनारीहिक्रापउस्कहावउदिसे
नवणापःनीमषागंमणांउदिसेमो
जीविरहवेदनेकांवेकेहपमो
कहेनेघेरगोईक्रयउहःकेले
क्वेरीविरहसोःकसहीयावे
उपःहसपांवेनमपेकहाक्रपांउमी
पणाउपःक्रे केहःसाउडांगहैको
लीजवहीदउक्रमामेहगाहेगलः
चरनीलोणीसाजलजलः
क्रउगपतैंसंकीवीजःबोहा
सबीसीपउकेःपेवणगाई
नीजाउईंगांविंकसीगावेघ
पाहसोंसाबहीकीपासांगाःः

पुक्रमो
गवाद

उहेके
उसा
सांग
पाठ

दलापाईगाळकीवचीपईच्यौ
गीचवरहोरागाभाकीजळजी
जीश्रीजीडीमुपतैवोजसोवं
ताःवदावतनोपांचकेनल
वोगजगतुगाटडागाकविळे
जसैडजीवैरपांडुजगोदी
गीगरेसहोगडहामेडुमश्रोम
राउमणीदेपीथीकहवाखुं
पजदेपुलसतापांमोथोमो
सुकहोवीसागढजेकैळ
गवलमसेकहोविरहोविया
केसावास्याववांलमथरगा
इपासवदीनसुपमेजापा
गपोविसलाविजोगमेत्रोर
सनाजोमामःपावसपीमैं
श्राइपाईगीमणारोजोगा

जुआँ हीव
मालणकैं ऊँक लजा
कीसीकरे हुप्रेमगहराय केगाढी
रक्ष रपी वमचकररस न्गीःका
चौ[illegible]पीजतै बोलणी रंगरौ
तौगा[illegible]सपारःम्रर[illegible]णामारा
तीपी वसुःका च्याउँ जवपी
बीपणकरैवे चाईपै रसनी
घनैणोदीः ठःम्रत रंगरौ
पीवसुःउकापडेमे जीणा
जीवणमाणीन रकणीःरस
कसनीकजाळःहसहस
पीवसोरतीपांःकर वहो
तैम्रालागढीओ कायाकै
उदीपैकीछुसंगमारःम्रनुपु
म्रायापीवसोनारका सुनौ
बीउणोकुपा॥टिका॥पीवन्म्र

तुवरा: जा वडवगुपदचडे: श्रीम
स्मा उवडवडपद: कोनी उरन
मनद: ग्रमनगान वी
परा: उनतवडेनी
मातउ छपर दी पिकडे
तड: श्रुमनवीडमनावडे:
वसामाडुरदेवड: ग्रमप
पीन वडेनी रमनहरप
ज्यारी पछ मारडवद
जी मरमाजनाररमप
वनमा जगरमवी तावडे
गा स्वीरमपर रे
नवरानीराडवनरे
नमारी वावरा स्वी

...
1) नावरतनराकेवनजीछंनः
बिनजंचीनकरमीनजनुमेज
नजनमछिनीपेःपिनुमेन...
वरियेजोवेवनाछियुनपिनीरेः जुवरि
~~पनुमेन...~~ मेः जुवरि
नवसकरियेसाउमरवसयः
नीयेमृरानमुनकपनवधु
मामरमनमामाथिमुरलीम
तलीयेसमनासमकनीदाव
ननुदमनहरीयेनुरपवीनाद
बीपनावरनमुवमुर ...
नमकरायेमाी ... दामाधि
मुमनानाधरटोभीपरमेश्वरजी
नारागेडीहुवराजवीःदीपमनुरधर
दिसःमानपारराबेनुदःवेजावनतख
नेमेनाव॥

द्वि ...
नाम्हणसं हुंमानठः हरहिर
नीदोपपुडहणस्नाहुनानठः
हरहिरंगीनापुडहणनीहुं
जानीपः हरहिरंगीपुडदोप
हणसंहुंमानीपःदोपहिरंगी
निमहणसीठेपुडहिरंगीहर
पुडदोपमहणसादोपहिरंगी
पुडहणसीहिरजरः॥१॥
जापजमांनीजदीपनपवीन
काहिमीतः उहीः ७५ जपंवमिर
डीहः नत्वजमांन जगरेउरतः
मिरजावीहिरमोहः नलउ
दीपनपानवशः॥१॥नमरठव
जहारःहःमनकम तुसंमार
महः जोरावरजमराहःदाव
मिरपर निमाहिवमः॥२॥ सु
नाजिमसंमारमः वगेरुवे
दीहः जानमउजानपिठोवग्र

सिरजापकजोयहि:।३।।छोय
मारहीजदीहेउ:बखाणोजग
मेवाप:जीवकारीतोजिवउ:
भावडीहा।छोजोसो:पुंलाय
नहरसारंभोसोहित:जोगसिध
जसुभुजोग:हेलोहु।पिणासु
गुसाई:जोगवमतजोवजोग:।८
जोगतणीहो।रिधुगातेकुंदा
जसहेतोरापु:सरहेजेवा
जीवनु:कुरहेकजोहारवु:।।८।।
कोहु नरसेंहुरो:कुरसाप
ननदृडावु:होवेंतोनहलोग
ही:ताजीजितरीताजु:।ऐ
बांधसाहेतोवांधहिवु:पाणी
पहलोपाजु:घुरजामीतोन
कुंवा:कछिपेकुजोजो:हीवजु:ऐ
चित्रउपतापतसोतो:मित
केपहरु।सेतो:रणपि परे

[illegible] :[illegible]

[illegible] दिनाद्र पिञाय

[illegible] बेगो हिवमनाबू

[illegible] नेः [illegible]

[illegible] :[illegible] दिनद्र [illegible]

[illegible]

[illegible] :[illegible]

[illegible] हि [illegible] :[illegible]

[illegible] जिप [illegible]

[illegible] :[illegible]

[illegible] :[illegible]

[illegible] :[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] :[illegible]

[illegible]

[illegible] :[illegible]

[illegible]

[illegible] :[illegible]

[illegible]

[illegible] :[illegible]

ओर:ओहिओड्ड दरओरऐ: १५
इरांजनापदाह:उथानम।
दू रहोमनह:दमामहोजे
ओाद:माटीमिलमाटीजेव: १६
पयनातणीपरनीनाङ्रिणडार
णगाटीङ्करी:रेइण(रीओारी
त:ओावैङ्नाओावैनाही:१८
ओोइवरजाओावेह:मरणो
क्षिमतुलेमरद:जगवहियो
जापैह:दिनानरदिनाद्रगाद
पतां:वडऋनागगाङ्ररङ्त:
ङरदआरद्रनिमामैङरे:रम
त्रपंयमूआंत:निनमीपाव
णमारमैह:रणामहिमिर
ङोडांमंत्र:तंत्रओानैङांत्रो
रङां:जावरनपहोजंत्रं:म
रणानूगेजेङ्ङ्र:रवाजन
जेमेओाध:पाजारनोल।
ङ्रमा:जिमओावेजिमजाव:
[illegible]

गजेग्राछगराग्राम:६८
बाबैनीजाकुवे:जिमग्रावे
जिमजाप:जीवीत्रोते
जगतरो:रूग स्वारथरो
मनमं:ह:फारेजगमेंमप
जलो:स्तुतिविवनेकुण
कंप:जणणीहीत्रोहेजण
मा:रत्नग्रीरनपवग्रानह
नजहैलोपुउउरतःहित
मूगहले हैः:नरणकरण
सिंधवंदसोःसग्राउपजा
वसोगंत:मरणनणोहूण
चिरबमें:सोविचारचिथंत
नाउहिरनाहकबोनरण:रूण
पउउहापवीसःजानाज
दीपतरागजाव:नादकोप
कपाजातीप:कदीपनाकेव
मानाके:र:नावो

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

पो	मा	फा	वै	वै	जे	आ	श्रा	ला	आ	का	मं
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१
३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२
४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४
६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५
७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६
८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७
९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८
१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९
११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

॥इति गोरखपत्रो संस्तंद॥ तीजतेरय। चोथवउद्दरः
पश्चिमस्नम एकविचारजाणवो ॥

॥इरो॥ बारहअंगुलकरतिणो छायातासगिणेहः सूर्योअजीव संयुहे मनवंछितपावेह। रविवीसें २० शशिशोलहे १६ पनरे १५ मंगलबार बुधरतन १४ गुरुतेरह १३ शुक्रशनिश्चरबार १२ ।१२। रविबल शशिबल कालबल योगनीचक्रमजोय। छायालगने चालपीयुः कलिअजरामरहोय २ इति अजीव छायाफलं॥

॥सुकनगांम सिध कीजे तिणरो विचार छई॥

॥सुष ऊपजे जीवने कलेश जावे नही मनकामना सिध जावे।

॥मङल यऊपजे कलेश जावे मङ्गलार थजावे॥

॥अरथ चेस्रण थाई कारय सिध होवे भलीवात दीसे॥

॥कलेश जावे। दिण दिण सनही। कमलाभ जावे ऊमले आवे।

॥ वस्त्र लाभ जावे। कुयले घरे आवे। मित्र रा कष्ट कट ऊमले आवे।

॥घरथी कलेश जावे। मित्र कष्ट ऊपजे वधरूवे॥

॥सोभाग पांमे रतन सहित घरे आवे। समाधदीसे अवयसिद्।

० ० ० ० ० ०˚० ० ० ० ० ० ॥

॥अरथ स्रण होई। सोभाग ऊपजे मनकामयं स्रणथाई सिद्धः

॥सोभाग पांमे। पिण दिन घणलागे सुष ऊपजे मित्र मले॥

॥कलेश जावे। दिण दिण चेनही नीको घरे आवे॥

॥पीय सिध जावे। मित्र संगत ऊपजे अरथ सिध कामजावई॥

॥इति गोरषपत्रो मायति परि फलाफल संपूर्णम्॥

॥९॥ राशिघडीयां पणतीसमो ३५ दिशि विदिशि विशेष पूरव मत्तर ७ अगनेपनर १५ दखणे इकवीस २१ ॥१॥ नेरय सोल १६ पश्चिम सत्तर ७ चउदह १४ वायुमकार वीसोतर २० ईशानेपनर १५ घडीयां एह विचार २ हीरकहें वाल णसमें वामस्वरा शिरणि जीमणे सम्भोव

॥निरगिकेनावासुटक ॥ एरमन्ग्राकथरहर सारा
उपगारी संसा सज्जनवेणकरहर १ आंवाजांवूह
बरस्म यचैवैणंसुवास अवगुणगारा एव्हा
मीवादिवमरांच २ तंपतलिवक्रपइजनर नारी
नेरगरथ कीराकाचादिखकर इत्तानयहीइंह
थ ३ सुषमीवाकमुआदीईं धूरनमीसमधार
बाहिस्वंदनरुखंजु अंतरगतअंगार ४ लष
मणलक्षि नाहिरो नरकञामादीयंत पोलेजमा
धनुषधर परजपारथीकहुंत ५ जोहंजोकांचा
गुआं कागदस्हइकपास जेजांगोजागाथहां ॥
विणस्दीयांविणाप ६ हाथीघोडागामगाढ ए
तालेंआनंतइजतगइनना जोफें सुंणरराजा
रवंत ७ नेजीकरतलागं निरंब कुरीन्नजा
तवार नुवनवणावलदिनलगत ८ हुलनलभे
वार ८ नारंगमध्यहिंवेहं प्रथवीथिरकुनकांम
चतेअधीमुषहोवदिसि तत्वनजोजजनाम ९
तेजसत्वऊनावरुं केरकर्मअनजाण तिलोजा
गेलागतो वायुतत्वआहिनांण १० प्रथवीपीतरं
गसिको स्मिसवाणस्युणनीर तेजतत्वरातेवण का
लेंवाणसमीर ११ सवैयो ॥ तातऊमातऊत्रातकुं
त्यागलसासुऊस्पारऊमानतलोचे होयमजरलू
रहें नितकारनसोपतवारही कांचे बापवीरमु
बेरखवंसावततआपकोबेरऊं देषतमाचे वारजार
नवारपीयजजनारनवावतसुनरनांचे १२ हुते
जेथप्रकासयिजेजुयें चंडरसुजांण आधुरंहूष
करें हुसाकरंवषांण १३ जलवेतधरम नकीजाइ
धरमको आवीथाय पापीकुवीहरमलिंधरमी
नरकेजाय १४ माकेणफनवअफीमरनु तमवारने

जुत्रा परीफ्नीनी कांमनी एह्व टनीम्हत्रा १४ मो
रामोरं दवघिड फोरंसरवरपल्ल बाचापेपेंमालाम
रें घरत्नोा अध्रकाल १५ चिनराषोमुकतपरें रंगना
ओनुपकार जीवतजगतमें हेतहें वालक हेमुकधा
र: १७ नाहरसूलो अधीकबल साहिबबडरसुजां
ण हीवंमसुं नालाकरो बगसें देंउत्रांण १८ नासा
हिबर हीलीमूजणजगाइ वमकें नेजरपाय बासा
वीरसुहामणा ओरसहेलीसाथ १९ अमरारांण
प्रतापरा कुंमां गुंबुलोय नाडवेडनी निपुनीका
डनीरंध्मोय २० श्लोककाव्य। दगाथा दिदुल देध्र
कगाहा कवित नांमसुजा थितनायको सुनहरिंकाव
रा चित्त २१ कवित: प्रथमकोड अमतीस लखमण
लवहगपारह पिसरसहसनवसत्त पिसरवली
नुपरसारह एलेमणेंठकलार लार चिजपत्रवषां
णुं आवलारफलफूल लारभरु वल्लीजांणुं आण
स्लारइणपरजुइ वनसपती किलसास्वती कवीकु
लकहे सिद्धांतथी युअर्थकेहेमोवजती २२ गामर
गल्पोगयंद सीहपरस्याजबयवो मुंसेगीलो मंजार
उजेमें रूपपयसो चीमीस्वर्ठअ्राकाल प्रचोफेमरें
लुयगम मचमफलामंद रूप्याइ गंगऊरंगम कूर्हे
मरुमूहकाअयमें निकस्यो वटपटारधर अजांण
अरथ थलहेपीन ही लहिलोसुजांणनर २३ स्रोत
सं नोजनतनकन्नयो गयोप्राहूणोनन्नषो वोपद
तोकवनमियो आलमुकलप्योनदूवो घालनर्द
सिकार तांन सिंघनरसुंकेयो मृगनजपोबांण घा
वपरभीनचूको केरकंथवनार नि सितोगवी आंग
नाछेबोनिजर तेणगुणवदनिमलनवो सूलेो
कंमलपा बांणपर २४ कपटीकोधीलालची कां

मी आउ जांम सो अंपाए नही पाए मो विकाम २५ दोमत्र आवकिम कउ थ्रीजै जिहरकोनाम श्रीतव पसिवाजि कहे मीरनि रदोप रवाफिरदि उमेप परी किमउ कहा इजाय मिलेजीमवाही कपटी २६ देले षायते षस्चेले कलेनको काम या थकि मिलै सचले उतरे हाथोहाथ २७ मुजक आरमाल बजीना जानाजानजउर ओ हकुमाथ समाना कहे मीर दिरदोष कोमकरमाम हे जे का सपरकपटोय ले मो अवहीदले २८ मिमलेषु लामहमूल पंचरंगपाट मरा सी सारसूस्वीपी सो वलीकासरणीपाली कामदुकन्चको थजी कं वजाकटकोकापो धनमेंगाके धीग अंगठ धरिक्र पो नगिलिं जाजनिजकाजवस आधांचु अंतरछिवे कवीधीरकहे किमपनपस्या अनकजिमुगमायो स्यो २९ मुतावरहोयमजूर वेदेउपधर्मुविचारी नगिलिं आकसवार फेरनगरीनबनारी सामीदीये काकटकें नूतप्रेतवेंतरनारी वलीजनपत्रीजोयने कहे आगमहितयारी कलियुगकेउकवी धीरकहे एलजीगजोआदिर सान्चकरु हीचिलण आव कजेरिवांकरे ३० गया दानसनमान गयापमिक मणपोला गयागीलगुरु छली गयासाधारण ऊसा गयादिवगुरुधर्म गयागाजेनिवाजा गयासंघकजा ला गयाश्रावकपिणताजा इतलाघोकयनहीगया गयातिपाधीपारणा जातो दीसिजिनधर्म श्रावकज नरजामिनारणा ३१ सुरअसुरदेवेजला चैत्रसुद एकमजाण रविसुनलिणदिनहेयसो दिक्षनगर पहाण ३२ चैत्रसुदएकमदिनें जोरविवार होवन्त भीणाधानंनें अन्नमहपंचणाघणो नरसेत ३३ सो मेंसरीवरसणो अनटणाघणरमाल ताना कुवे बुधकरवेरोनंकाल ३४

है तटयोवीरें थाम्ह लिंघ वासो वणिकगृह गिरके
नारह्वुबांमें ३५ जिणवरसेमें तमछी पतरमोहर
तीच्यार निब्वारीतिष्यानलेरे मोलेसऊसंसार ३६
कवित्त: गाय विट जहोयगई विप्रपिणपांयितमा
बु नरपतन्पावनहिकेरें मम्लाषे अनाबु बेटीसा
टेंबाप परणकरजावे प्यारी वनपणहोवेबाज करें
किन्वारकुंआरी हुवानेदेमइरणजुगरो कवितएह
पिंगलकोरे उछबीबाजवंमाजयर हुवाबोलकलि
युगचेहे ३७ गइलाजमरजाद गइ जोहनवमाइ वे
वेनन्हकनरहन्रा अबुंधकलीयुगमे आइजेसमी
मनषाचोचो देवदेवा गुरबेवा इंद्रषांनउनकैो
मेहपि णपमीयामवा प्रगरीयोपापपरमादमें उनी
यांमें नावी दया कलियुगआयांवेलवा हतराघोक
रजनुगया ३८ दयानवरगइरमा धरमगयोधरणी
में उन्मयोपातान पापगयोवरणावरणामें हेतप्रीत
लेगाइ वेरवाध्यो घरघरमें आपआपरीपमीजाति
जगनारीनरमें मछकेउलावीकउ मापणपरमानय
गयो सोनलयोतन्याणंरवकोनदे प्युंफलयुगपर
गहलयो ३९ जीलव्यणकांनें जीलउरजनजाणजे
जीतराजसनमान लाभधनजीतजलेजें जीतवंधनो
गजे जीतवीमावेभलें जीतश्रीतोमहलजेह जीतन
रतजावावे नारीनिपुणतिधमंपकें रसणउपसान्वफ
नवेरे ४० करमनेनवलेलनार करमवापरहकतारी
करमकोदेपतनाह कोरसोहिंकलगतिकारी धारजो
जघरंकोरे कोरे घरघाट आघरघर जलवरथजव
रचेरं कोरे थलवकजलदर कीयानिबटरीहलेरं
करमतकेतोधेवें कविकारकेहरावरकोकर क
रमरेकाबावतकेरं ४१ मकर लाजवावहर मकर
भिन्नुवालो मकर जीयाशुंगुण मकरवमाजवाले:

मकरयोगीकुंजमांमकरमव्हवंतीकाया मकरसप
लिमवास मकरगतिकाहुंमाया विवरीजकेरतोहुव
कर विणजमकरपरहुथ्यो कविगदकेहेहोगुणीयणं
औदगमकसंदेहेंक ४२ सवैयो॥धीराकेधनाकें
नीकेंहारकेकसाहारसुतजाऊंकेनगरगयोताकेंदप
जाजेहेंसवेलोकयाकिघूतयाकोतुलावाजीगुणरूप
गमेवेवरहेंसोइनीकहीरहे रत्नांत्याविरेतजायेरत
कोयाबाकोश्रृंगारजागोधरजांनदेषेतपनजागारहें
साहकोधुजावेरेरतुनेश्रीओतनेंवेनतकेंनामचाउ
राखुमेराजाआलीवेहें ४३ यगरतजेपानेसेह रूपऊज
नावनहवेहे लोककेरपरवात साधुउरमारगंहेले
जोयानवरसेमेहजेहकोमणपतव्रांकें पितायेहंधीर
म: सीपगुरसुंकलीमृकं सावीतसीषलोजहाये उमन
फलेरातलगापणीजिनहरष विणजस्त्रीकेर सहीन
लोकेंलोपुगतणी ४४ वेट करावेवेठ पेटनाकरीक
सर्वे चेरकरावेवेठ पेटफिरतीसकरावें पेटकरावेपाषं
क पेटगुणपानगमावें पेटकाजनलराज, पेटऔलीम
नमावे अभिमानेपटगालेघणा:पेटकाजमृसामेर
आनंदसिवपाधकजिके सोपेटकाजघररफिरे ४५
मागेअत्रउकाज नारमीवोतनोजे कामणामीवो
कंत नापमीवोसीयाजे रसीयामीवोरागा: नेएमी
गेवीआमायो संग्राम वातमीवोलहली मीवोसुतम
लापजिम कविगदकेहेगुणीयणां अवसरमीवो
वयण तिम ४६ कवितअरुलीयो॥ बेटाकमाकत
वापयें करजोयासुनेहतवसुषयेंऔसीकाहेंमा
स्तुदाकरदेह सोहजुदाकरदेह, रहेनहीइजतथा
री पहिलापलवटमाहिं फेथारीनेमाहरी कहेगि
रंधरकविराय सुणोजीआलमप्रेरा सेमेपलटी
जांमे: आपसुंकगाहतकेटा ४७ लेटीफगमेवोपे
मांयसुं सुंनमेरीमहया च्यांहयगाहकरलेडोगी:
देकाऊंकेंहाथ देकाऊंकेंहाथ आ

५ अचरजापुर बेलती करै सुगाव सरमनरहेगीतेरी
कहै गीरधर कविराय जनुकीऐसीपेटी. अरसमे
पलटीजाय मायसुंकगमतचेटी ४८ अथस्वरूपे
निपट कपटकीवातबनावचलोकनैआपकेदेह
मांनी आपरहेमदमत्तनिरंतरपाप करैनकरे
वहुपांनी कहैकबुतरकरैकबुतरचित्तमेगुंथ
तजालप्रपंनी वाहिवआगलहोवैगोनपावैमो
क्षकोउधसूपानीकोपांनी ४९ जीवातोपीक
तपंच प्रयतेकिलनारते दरिद्रोव्याधिलमूर्ष प्र
वासीनित्यसेवका ५० सिंह्यनाकमहंसगति को
यलस्वदरस्नानं कहैकाकुकेंणीषवे इणघ
रयाहिचाल ५१ जीजकछोटीस्वादकी मवणक
छोटीबेन वारकछोटीनासीका रूपकछोटीने
ण ५२ आटोरूपबिनासनी रूपकरीकोमांशवि
चोसनी झांनंगकरीतपन्नयकरीधर्मसपनिर्म
ली पुत्रआरकरलत्रचेदमकरीलज्याकलदेशी
गामापीकतसर्वदोषजननीप्राणप्रहारीक्षुधा ५३
साईसमयनचुकीये पेलेसचसंचार दावपस्यो
नवेमाये तुरतमारायेमार तुरतमारीयेमार न
रदकाबीकरदीजे गईलौदीजेजाण जीतजग
मेंजसलीजे कहैगीरधरकविराय सत्रुकायह
चतुराई लेलोयोगनपाय सत्रुकुंहणीयेसाई
५४ काव्य: चोलोरनुराग कविराग धरविडरागे
दर्पापहरणविष्णुचरणांबुजेन. वाचामृतध
रतिकोकिलवागविलासं दैयादमात्तरपदेसु
बमिचितांनी ५५ दोहा: नरजनरपेदाकीया न
रऊवाकोनांम चतुरमनुषन्वीकीयो राजा
करेसलांम ५६ वरणसुत्राका वरणहुयाक
पुषन्दरकालायाहे आंषचमाकी नाकजी
लीका एसामरदनीपायाहे रंगाटोपसुगंधप
रेवनमेकरैकला इस्तरीयालीकान्त्ररथवे

नअंगुरुकाहमचेला ५० सप्रुरण

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

गनु:नाहदीजीतनीयीकु:टिमकीकडेय
प:ओंएदिवीजयीकु:कहदीनादरवेमा
ठीदमानमीउमउाक्षी:मकवठनाहेमा
मानक्षमारनउाक्षा:गरु:संदावीमारक्षी
नीपे:ठोएणीनीपेनीर:अएाञ्मापवेदि
गणाक्षर:उिवदेमारनीर:मदु:परमकुम
नीमारा:दकुनानहरनीम:ठीपहरीउनु
मीमारा:कडदीनादरवेमा:मदाउपमे
नरमदा:ठाएणीनीपेनीर:वीमारक्षीम
पिपंदा:१८४कोमदीनरानरीजबरपडेनीए
मीचजीपारिकेवाकिबेत:परप्यामप्पापकुर
अगुमार:डेके:दमैं:पनेरे:मोपु:नागीठे
नरजली:दोपे:प्रेरू:इगारू:परमोपु:म
प:तीन:मान:जार:मार:अप:नेर:
पोमी:पममे:नव:मवेद:उमीटीपरहमी:
दीनरानने देनाके ठममम:गईदठीम
बनोणीये:केपीकुवन:बामाक्षीमोरकेटे
पुटएवीचमठपीठाणीये:गवामठुलि:

॥अथ चौघडीया लिख्यते॥ दिन का चौघडीया
आदीतवार	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनीवार
उदेगवेला	इमरतवेला	रोगवेला	लाभवेला	सुभवेला	चलवेला	कालवेला
चलवेला	कालवेला	उदेगवेला	इमरतवेला	रोगवेला	लाभवेला	सुभवेला
लाभवेला	सुभवेला	चलवेला	कालवेला	उदेगवेला	इमरतवेला	रोगवेला
इमरतवेला	रोगवेला	लाभवेला	सुभवेला	चलवेला	कालवेला	उदेगवेला
कालवेला	उदेगवेला	इमरतवेला	रोगवेला	लाभवेला	सुभवेला	चलवेला
सुभवेला	चलवेला	कालवेला	उदेगवेला	इमरतवेला	रोगवेला	लाभवेला
रोगवेला	लाभवेला	सुभवेला	चलवेला	कालवेला	[illegible]	[illegible]
उदेगवेला	इमरतवेला	रोगवेला	[illegible]	सुभवेला	[illegible]	[illegible]

॥अथ चौघडीया की याद लिख्यते॥
उहा:तेवपीयत:पावक्रअरंन:दुरिसतेनी
रषंत:दीपनीषरक्रीनोपिपैकोावसकहुनी
क्रसंतो॥१॥तिमरमिद्धमेवहीतहो:दीपक
नकीनीरषंत:जिदरतुरुगवतअ
वेक्रावसईजिनीक्रसंतो॥२॥
उंहासकरसशदनजीपहि:नेकतो
सहजेम:जागटनीमनतमेमई:तो॥
टहुलवनतस॥

॥अथ पेटेरो गाभ री क्षार : रीट कउी टांक ११ सो गी वई
या टांक ११ नीम सादर टांक ११ ● अजमाद टांक ११ सी
धो कुल टांक ११ सुख छुनाय टांक ११ कठ कुण टांक
या नौ री सांभर टांक ११ वाय बीडंग टांक ११ अज
मो टांक ११ धाणा टांक ११ आक पत्र री राख टांक
अजपाना टांक ११ सी सी तटांक ११ सो ना मुख
टांक ११ ऐ सार कस्तो पद कप टखो लागर बी
ग गा गम में पबी जै : प छे नीबू नी में बीजे
रा खजा मरी खाड़ी जै : प छे धूरती मांह गोरी
जे दीन व ४ प छे क्षाटी जै : नीया लुका वी जै : प
छे टांक १ ण्यो र में मान जबा तरा दी जै : ऊपर
क्ष वा बक दी मुं पा रड कपा वीजै : नेन्हीं
वी जै तो : ऊनो नरव पा वी जै : री हो : गो की :
छ बी क्षा जै : थो ड़ दर : कर गो दर : ज की दर
परक्षा धार अरे : गरा य : च खब नीय गी पीर
त दी जै : सो बा वेद कसार री छै

अ भ कृ रो मृ आ पु पु अ

[illegible]

म पू उ ह चि स्वा वि अ ज्ये मू

[illegible]

पू उ अ श्र ध श पू उ रे [illegible]॥

॥८०॥ अथ छींकफलावलीरो फल लिष्यते॥ नवकार ३ कही यो
पारी मैं भाजपरिछि कीई॥ अश्वनी नक्षत्र । अर्थनी प्राप्ति करई
मा पासि लाभ आरोग्य होई कल्याण होई॥१॥ भरणी नक्षत्र
कलह करे । उदेग ऊपजे । विग्रह वधे । हांणि ऊपजे॥२॥ कृति
का नक्षत्र॥ पेटि स्याधि । शरीर असुष झगडा करे राजा थकी
भय उदेग होई॥३॥ रोहिणी नक्षत्र॥ धन प्राप्ति करे । संतोष
होई॥ शरीर स्वमाधि करे॥४॥ मृगशिर नक्षत्र॥ भय करे रा
[illegible] ॥५॥ [illegible] नक्षत्र॥ राज्य लाभ
[illegible] पुनर्वसु नक्षत्र॥
[illegible] मनकामनो
[illegible]
प्रमाणि चढई॥७॥ पुष्य नक्षत्र॥ सर्वसंपद । राजा थ्यादर हो
ई आरंभौ कार्य प्रमाण चढई॥८॥ असेषा नक्षत्र॥ दोस थ
ई । भय ऊपजे शरीरपीडा कालि वक्रनी हाणि मारगे कष्ट
॥९॥ मघा नक्षत्र॥ अर्थनी प्राप्ति करे मोटा काम साधे होई
क चिंता होई।॥१०॥ पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र॥ राज्य लाभ होई धन
हद्धि वांछितार्थ पामई । योलाग्य होई॥११॥ उत्तराफाल्गुनी नक्ष
त्र॥ हर्ष ऊपजे सर्वप्रकारे सुष मोटा [illegible]
धनागम । जय होई॥१२॥ हस्त नक्षत्र [illegible]
धन हांणि करे कलह थाई । [illegible]
॥१३॥ चित्रा नक्षत्र॥ धन [illegible]
वस्त्र लाभ होई । प्रीति करई [illegible]

करे मराताव प्रतिष्टा होइ। सौभाग्य होइ। मित्रमिले॥१५॥ वि
शाषानक्षत्र॥ मायमांहि मोटो लाभ। गायने लाभ। स्वजन।
धनसंपद मोयासुप्रीति। महोत्सव होइ॥१६॥ अनुराधानक्ष
त्र॥ कुबुद्धि ऊपजे। धनहाणि परदेशगमन आधिकऊपजे ग
मि र चिंता वधइ॥१७॥ ज्येष्ठानक्षत्र॥ द्रव्यलाभ मित्र थकी लाभ
होइ। रोग आतंक जाइ। [redacted] कगडइ बोलऊ परिआवे॥१८॥
मूलनक्षत्र। धनहाणि। अपयश होइ। दुरकुदीसइ। असुषउ
चाट होइ चोरनउ भय॥१९॥ पूर्वाषाढनक्षत्र॥ पराया धन हा
थिआवे संपदा सुष समाधि थाइ। कुटुंब महत्व होइ॥२०॥
उत्तराषाढनक्षत्र॥ संतान होइ। वैरी क्षय थाइ। हर्ष ऊप
जै॥२१॥ अभीचनक्षत्र॥ आरोग्य लाभ राजा प्रसाद। मन चिंत
व्या लाभ होइ॥२२॥ श्रवणनक्षत्र॥ तीर्थयात्रा बांधव मिले
परम प्रीति संतोष॥२३॥ धनिष्टानक्षत्र॥ असुष अपय
श होइ। वयर होइ। देहपीडा॥२४॥ शतभिषानक्षत्र॥ धन
लाभ। संपद भोग। सुष संतोष लाभ॥२५॥ पूर्वाभद्र
पदनक्षत्र॥ घणो लाभ॥ मनोरथ प्रमाणि वधइ धन
संपदा॥२६॥ उत्तराभद्रपदनक्षत्र॥ असंतोष धनहाणि।
कलह दुष॥२७॥ रेवतीनक्षत्र॥ धनलाभ सुषसंतोष होइ
॥२८॥ इतिश्री सुकनावली संपूर्ण॥
॥काव्यं॥ कर्पूरे परिमलस्तव मदितस्य श्री चंदने परिमल
स्तव घर्षितस्य रे काक दंतव विकिगतमगोषि कस्तूरिका
परिमलस्त्वयमेव धत्ते॥१॥

॥ अथ नक्षत्र नाम रो भीमार लिखते ॥ अथ जोग
इण नक्षत्रां रा नांव लिखते ॥ अस्वनी॥१॥ भरणी
कृतका॥३॥ रोहणी॥४॥ मृगसर॥५॥ आद्रा॥६
पुनरवसु॥७॥ पुष्य॥८॥ असलेषा॥९॥ मघा॥
पूरवाफालगुणी॥११॥ उत्राफालगुणी॥१२॥
हस्त॥१३॥ चित्रा॥१४॥ स्वाति॥१५॥ विसा
अनुराधा॥१७॥ जेष्टा॥१८॥ मूल॥१९॥
पूरवाषाढा॥२०॥ उत्राषाढा॥२१॥ अभीज
श्रवण॥२२॥ धनेष्टा॥२३॥ सतभीषा॥
पूरवाभद्रपद॥२५॥ उत्राभद्रपद॥२६॥ रेवती
॥ इति अथ रासि नक्षत्र नीणवा ॥१॥ अथ बारे
रासां री नांव लिखते ॥ अथ राशि ॥ मेष:१ बाल
क: वृरष:२ कीताथा: मीथुन:३ काल: करक:४
साटा: सिंघ:५ पांग: कन्या:६ राता: तुल:७
नारया: विरछक:८ ... धन:॥९
... मकर:१०॥ गोमा: कुंभ:११॥ ...
मीन:१२ ॥ इति बारे रासि री गिनती नीणवो:
अथ बारे रास नाम रा स्वांमी लिखते: मेष
वीरछक री स्वांमी मंगल:१॥ वीरख तुल
रास रो स्वांमी: सुकर:॥२॥ मीथुन कन्या

॥२।५।८॥ ॥७:११:३॥ ॥

पारोसोस्वामी:वीरसेपत:॥८॥मकरर
नक्षुन्नासरीस्वामी:मानीसार:॥५॥सिंह
रासरीस्वामी:उरज:॥७॥इतीबारेरासरांन
मस्वामीजांणवा॥३॥अथबारेजेवनांन
नांमलिखंते:तेनलावन:१॥चनलावन:२॥
पाहुनवन:॥३॥उरतनवन:॥४॥उतनव
न:॥५॥रीपुन्नवन:६॥जायान्नवन:॥७॥प
लुन्नवन:८॥परमन्नवन:॥९॥प्रमन्नवन:
आपन्नवन:॥१०॥अपन्नवन:॥१२॥इतीबारे
नुवनांरानांमजांणवा:॥४॥हातीमामष्टी
तुणाष्ठीजे:गयादीनमांहेजेलीजे:ऽहजीए
बीरमाकुंदीजे:मनावीमांन्नागहरीजे:म
पद [redacted] स्नानीउगीणीजे:॥१॥
अथमरबंगजोगप्राटए:रीवीपावीजे ते:
तीर्थंकरस:नक्षत्र: [redacted] तजुत:
उपी:तीरी:मउर:वीरगुणत:रसनप
ताकमपलानांजेते:॥१॥अदउन्नलपे
छांनीपंचउन्नरीपुन्नायंग:चांतउन्न
नवतांमीरलु:मारबनं ऽपे बीजे इनवतं
तीसरबन्नीगयोघमउरए:पारनोचमपीन
पारउगीणीणो:नेनेषरजेसस्वनी:उगी

[illegible]
पुरब आठ रा नाग दीणो: [illegible]
[illegible]
अथ सम प्रगट [illegible]
[illegible] १३५ [illegible]
[illegible]: पुरब [illegible] ११ [illegible] २२ [illegible] १५
[illegible] १७ [illegible] १४ [illegible] २० [illegible] १९ [illegible] १३
[illegible]
[illegible]
[illegible]
अथ [illegible]
[illegible]: पुरब [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
अथ [illegible]
[illegible]
अदीतवारनें तंबोळ खायनें जावणो ॥१॥
सोमवारनें [illegible] खायनें जावणो ॥२॥
मंगळवारनें [illegible] खायनें जावणो ॥३॥
बुधवारनें गुड खायनें जावणो ॥४॥ वीर
[illegible] खायनें जावणो ॥५॥

जाप सी	सोपा री	वीदं म	जय ग	मांड	जवे बी	मोतागु र	x -
गुज	न			जंबे री	नीबु	चेवर	जागु
जंब त्री	प्रीली	रोटी	जागु	सु री	नार गी	पण	जय
चेवर	मीम री	गुरमो	सोप री	दा म	पांन	चीप	गुज
							१२

११४

सुरमो	नीबु	जंवं ग	पाड म	ऊं मो	ऊं पं	मीम री	मोति र
गुदव उ		अं बा	सी री	नी रो	जंवं त्री	जंवे री	नीबु
जाप सी	री.	ल	वेबी	सांप ण	वडा	प्रीली	
पैजमी	चेवर	पांन	वे जो	जा पमी	गुज	पेजमी	जाप ल

नारंगी	दाम	सोप री	अं बा
सोपा री	दाउम	जाप रव	जंवे री
मारकु	जय ग	जव त्री	सांप ण

आजदहाइरो
१ तेवीपामोगी
१ पारी
१ आपवापारगंहर
१ रावीमीरम
१. पीतपापड़ी
१ मालपापराप

॥ श्री परमेस्वर ॥

[illegible]पमं[illegible]मा[illegible]मी[illegible]

[illegible]नां[illegible]म[illegible]णमी[illegible]

ज[illegible]म्बीधां[illegible]

लिखतम्

[illegible]

श्रामीजुरी[illegible]

[illegible]आदि[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अथकपडाबतीसी १११

जरदोजी	कमखी	तपाई	मुगीपटण
चातनम	मुलमुल	जामारम	जोनाबाडी
कासनो	मढीपटण	मालु	ताबो
जरकसी	तनछब	डुमेला	कुचीया

अथकपडाबतीसी

११२

नीलक	परोली	कुंप	जोनाबाडी
चातनम	मुलमुल	जामारम	कुंनडी
अटलस	मसीजर	नासतो	चोरसा
जरकसी	तनसुष	डुमेला	कुचीया

रोटी १	माडु २	लाडु ३	पेडो ४	सुरमा ५
जलेबी ६	घेवर ७	पुडीयां ८	मीसरी ९	मोतीसुर १०
खीणी ११	गुदवडो १२	लापसी १३	खीरो १४	गुलं १५
खारक १६	खोपरा १७	दाख १८	बीदाम १९	दाडम २०
सोपारी २१	पांन २२	लवंग २३	जायफल २४	जावंत्री २५
नारंगी २६	जंबीरी २७	आंबा २८	केलां २९	सीफल ३०

इतिछपडीरचतीसीसपूरण ॥१॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जरदोजी	कमखी	तपाई	मुगीपट ण
चारचम	मुखमुल	जाभारम	जांमावाडी
आसतो	मडीपटण	माजु	ताको
जरकसी	तनछब	डुमेला	कसीयो

कापसकपडाभतीसी

११२

तीलक	पटोली	कुंप	जांमावाडी
चारचम	मुखमुल	जागारम	कुंनडी
चारोण	मसीजर	तासतो	वोरसा
जरकसी	तनसुख	डुमेला	कसीयो

मुलतांणी	तांबो	मजीपरण	तासतो
डुकडी	डुमेणो	आसतो	मजीठर
जेरकुबारतो	तनसुष	बोरसो	जरांण
डुमांसी	साळु	जरकसी	कलीयो

१९८ छपडाबतीसी

मुलमुल	जांमाजाडू	मुलतांणी	कलीयो
घरसो	तांबो	मुंजीपरण	कुंनडी
कुसबी	मजीठर	जांमावाडी	बोरसो
पटोली	तनसुष	मजीपरण	जेरुबासती

सुखपाली	नाषो	चोरसो	सुनेडी
जांमासाई	सुगीपटण	रूप	दुमेलो
दुकडी	सालु	जांमोवाडी	लाबारस
बासो	तपाई	तामतो	कुसीयो

॥अथहुकडाबतीसीरादुहालिषंतेःदु
जरदोजीजांमोवणेपोःपाटुसुंपणेपा
यःमाहीबचरेपधारीयाःमोगलेवी
लुंजीजायः॥१॥कंदुतीजक्षोडीमोःक
पस्वीरजोडायःजुंगौबुगीनांतडीःसुं
दरवीदिनउढायः॥२॥आगलमाजातमो
नादीयेःपेहरीयाक्षिणंगःउंदरकनी
गोषमेःसंपारेघणीउमंगः॥३॥कुंपर्वा

[illegible]
स:नीसारपेहेर:सुन बक्षो:स:नोउ पा
पेला मै:।।मागवरमेलोबक्षांमनी:गावे
गीतवीसात:साडीपेहेर:चटांणाबी:न
वेप्रीतमपास:।।६।। रवरकसाडी नेमोडी
मो:नेहेसापाघवणाय:उंदरीमोवट
गीजडी:सोगलेवोलुंसीनाय:।।७।।
पसमो:परक्षमोलेगापर:डुगलीचावे
दाय:गडोवाजे होमीया:लीजेचांगल
गाव:।।८।। रूसावी:रुणीवणायहे:न
यरछमासांपाग:पीरहणछेपेरसीवग
मो:ऊणरेमोपेलाग:।।९।।सांहीबप
रणीजीतउ:साथोमीउनातर:मीउं
णीरोसाहीबी:वेगपरोलीलोव:।।१०।।
सुनसुनसुंगसीवक्षा:नाक्षीवागीक्षीव:
ऊंदरसाद्धीमेहो:पीवपक्षडहरली
न:।।११।। प्रीतमपीसामेलमे:देहे
नीवैनोलाय:नोरवर:सुहगसीव
को:सोदीजेमुजलोडाय:।।१२।।मली
जरउमनलावलो:कंसुदीयोसीनाय:
[illegible]

य:॥१३॥ समोसर गननागतो: षीव
नीखीपीमीनाग: पीलसंपु हगीपी
नीपी:सोमीहरेश्रापीदाय:॥१४॥
तनडिमक्षीमाडीयणी: क्षंतु वणपाडि
संग:रतनसंडगडेबारमः:सोनोडिंद
रश्रंग:॥१५॥ षासोषासीनारंछप
पीवलीदीषोलाम:डिंणडिंदरसाहील
क्षहे:सोमिलीश्रागोजाय:॥१६॥ पाप
यणीजीनमलणी: नपाइ डिवणपाय
दागाक्षीनीश्रारगजो: डिंदरीबीह
डिहाय:॥१७॥ डिमदुपमनलानतो:
डिंदरीरहीसरसाय:साडीक्षीनीडिस
सा:पीवलीखीनीसनाय:॥१८॥ सं
षारमामैलाषगुण:नौतमीहतदीसं
त:सुणक्षंघाक्षामण क्षहे:सोमांणीर
तपमां:॥१९॥ दुक्षजोरहिुश्रांगज
णी:डिंदरीहेतडिहाय:जीतमपुहौ
मोलरी:मोदीलीहुजकाय:॥२०॥
सालुडिंदरक्षयणो.जेहजवासेपाय:क्षेमार
वरीपावारक्षो:जेक्षरपीयणेजाय:॥२१॥

[illegible]रसो[illegible]नीन है: नीमी[illegible]परचो
रामोडिगसोरीमोडीबो: दैजुमेबो
गावनो॥२८॥ सोंमासोडमोडीवणी:
मोसोहारवणोय: गवरस्योनैकैं नमन
मचोपीयापैसोय॥२४॥ सुंगपटव
मननावनो: क्पाहृसोरपाग: जीए
रडसोपीवठ: नीठरसोपचौलोग॥२५॥
सुं॰ाड हुधवणोयकै: सोवेडीयाद्म
णगार: कांमणसाचीकृंचपै: गवमोनन
डीहार॥२६॥ सोमोसोंमा[illegible]जीडी: नीव
पैहरीचारक्पान: डुवहए मनचाणएन
सो: पीरहजो मनदुंसपाय॥२७॥ उए
ठंहस्याहीवकहे: कपठीपीसवापीस:
कैंडुसुवनांणीनणो: पैहसांबीहानग
स॥२८॥ नाबोचाबोवारजो: कांमण
मीछ्याहूधं: नोकुसुंगोमामनसामो: सो
हानचीयांनीरबंन॥२९॥ उंदरीचो
टेचोरसो: चागीची उहाय: चमरसोप
रस्याहोपदीठस्यो: मानेस्योनढवाय॥३०॥
[illegible]

र:गोरीरम्रैमी हरगाईः श्रीपूजांणीतीण
पासुदाहेरा। जीमागगीः पासउरः नाग
रुजहेउरवायाः ऋपउक्रुगोहच श्री पीती
णः हेपीहे हेदामाः।।३२।। हैगीम्रीकृपेउ
मतीमीमिंतुरंग ः १६६० रमिगउ हनकरी
पदांमोदीप्रतीनाप्परांठेमा हणमागरमध्ये ।।१।।

कैमाप्पयोगाभ्रीतीहच

झखी	हंसलो	हंसारी	वंपो
	[illegible]	चमर	कुमेत
घाटी	तेजो	देसी	११९

प्योगफुतीहन

हंसलो	कुंबोजी	पांणीपंथो	सींधी
चमर	हंसारी	कुमेत	जोराक
संधारी	घाटी	वंपो	—

मंधारी	हंसलो	हंसारी	पांणीपंथो
तेजी	तुरखी	अबल ब	फंबोजी
गंगाजल	चमर		११२

खोगडीगोडल

परधारी	तेजी	पांणीपंथो	गंगाजल
संपो	सुरंग	चमर	नुतराधी
देसी			११४

खोगडीगोडल

मोती	सींथो	हंसारी	तुरखी
नुतराधी	आरबी	चाटी	फंबोजी
देसी			११९

कमपचोउड़ीनीछ्डराडुहाथि चालैः॥३५॥
मंदवहाम्रींगजीमनीःनीरमीकेकेश्रोजः
वेगीकसारेमोहीबाःकरस्काडीपमोजः॥३६॥
नीदमीनातमावाकरीःजरदमकसटकापा
रःकेदेमीवसांमाहीबाःकमबलबरोकम
वांरः॥३७॥सपपरीमागीपरटैःमीमकेस
लापागःवासोमिएजमामरेःकाँटपाच
मसराकः॥३८॥मारीकागदपागेःपारी
पेंवद्वेरेःवेगकाजोमाहीबाःकरच
मपारीकमेग॥३९॥सबलनंवंकमे
राःमाहीबरमेमीकरःमंचारीपीवाव
नीःमापीजमीरदारः॥४०॥कमरीया
वागकीपाःमंजीरावतरोजःहंमोराव
तहंसनीःकमवलबरोकममवारः॥४१॥
गोरीमनराखेमठीःकंपेकेडुपकमपारः
पावनीकमावेकमगवकरःगोनीहोय
कमवारः॥४२॥मईमांकैडुकरेःपे
।१।७८।४।।१५।७॥ २॥१७

रठांबाछेपागओ:भीरेमाघरकमा
सेगञीवनीकमावैगैळूणो:ठुरड़ी
वेठठुरंग।गरूरीनारीपीठानीदनार:
कंजगणक्रेनागीगह:कांगएसीधी
हणाहणो:वरनीवागेनेहः॥१०॥छ
रसनेहीमाझरी:बीकटविवंधचाटी
ए:कमापोकमाधीरातरा:फुपटीपां
चाटीह:॥११॥ सरभरवरसेगेहेछे:
गयणसंमहे [redacted] लीकसमाणे
कसा:कमाणोसीवणणोज:॥१२॥
पारीपरणी छंदकर:नणेप्रीतवळू
नीत:ईसारीपोउमैलो:कमाणोपे
वदईत॥१३॥सीयळगुंपावेलेद
सीगापेक्षोठोगीत:परक्षारीकमसव
रहोपःरगारखीक्षीवान॥१४॥रंगछ
[redacted] गः रंगव
पेसेवानणी:रावरनणोछरग:॥१५॥
कांवरगुळावक [redacted]

म्हासोहाग: गाग्रुजपाउम्रुः पी
पपचारस सौग ॥१५॥ आज नरोजा
म्हौ अठि: गमामोनंकोहोर: झंपाप
पासपीकुछ्णा: तम्हीमठीतोपार: ॥१७॥
मंदवदनसंपकनरण: गीलं आवमो:
पाट: झमारीपखागाकरे: वेहजमंपा
पट: ॥१८॥ मारीमोवनछुदणी: पीली
पंचापवग: आजजनठोम्हासवारी
पां: नाराकरवारंग ॥१९॥ वाउीछु
कमहेलीमा: मारुतीमछुटीवासा: न
गरवेरंगामाहोबो: छुरेजोगवीनाम ॥२
आमसवारीछुतारायश्री: श्रीपीमाहीव
मम: आवगपीनठामा: छेमावरी
सठ: ॥२१॥ पीदनमेगोवठे: माछु
पीमठनांग: मारवणीमनमोहीमा:
रहोठोनछुमे ॥२२॥ इतीश्रीउ
डाश्रीतोहवंराछुहामपुल: पोपीमाट
मातीन्रुपरीछे: दापादीप्रनीता
छः ... ॥

११९

नकवेसर	झरेली	अकोरा	हार
टीको	चंपकली	बाजुबंध	पंचलडी
गजरा	हथवाडको	हथसीकको	हाथआरसी
नथली	पगपान	कुबांण	जेहर

लिछमावतीरी

११२

सीसफूल	म्हेली	चीट	हार
चंदनहार	चंपकली	बाजूमाव	पचलडी
चूडी	हथवाडको	मूंदडी	हाथआरसी
रमझोल	पगपान	घूंघरा	जेहर

 गेहणा श्रीमांजीरा

करणफूल	अकोटा	[illegible]	हार
मादलीयो	बाजूबंध	सांकसला	पहूंचड़ी
गुंजरी	हथसीकलो	गुंदड़ी	हाथआरसी
पांवटो	कड़ांण	गुघरा	जेहड़

गेहणा बनीरी ११८

मोलो	टीको	चंदनहार	झूपकली
मादलीयो	बाजूबंध	सांकसला	पहूंचड़ी
नवा	नेवड़ा	रमझोल	पगपान
पावटो	कड़ांण	गुंघरा	

कांकण	गजरा	तुरी	हथवाडो
गुंजरी	हथसांकलो	मुंदडी	हाथसारसी
जवा	नबला	रमझोल	पगपांन
पावटो	कणोण	गुधरा	नेहर

अथ गेहणा बतीसी रो पीवार लिखते

नकवेसर २१	सीसफूल ३२	राखडी ३	करणफूल ६	आकोटा
बिंद ५	हार	माला ४	टीको ८	चंद्रनहार २१०
चंपकली ११	मादली पोत १२	बाजुबंध १३	बाकडमा १४	पचूडी १
कांकण १५	गजरा १७	तुरी १८	हथवाडो १८	गुंजरी २०
हथसांकलो २१	मुंदडी २२	हाथसारसी २३	जवा २४	नबला २५
रमझोल	पगपांन २७	पावटो २८	कणोण २८	गुधरा ३०
				नेहर

श्रीगणेशायनमः

ऋपणगोहरा(बती)बीराहुहाणीबंतेः हुरा:
गङ्गवमास्रोतीनीकट: नटकतनमचरनी
नाय: गांनुईग्रतवीडुंपईः श्रीवृतनंद
उभदाय:॥१॥ वेणीसुषदेलीवनृत,हुन
नीगुंपनमुंव:नीएपरस्तउनजडाकाङ्गे:
मोहनहेमीसहुन:॥२॥ सीमासहेनीवां
पङ्केसोबीमहेनीसाप्य:नीकसीनीरषत
येङ्कहप:नोरनायसामनाप:॥३॥ कुरण
हुनङ्गीनोपमा:मोउकहीनजाय:जीर
महीकुंडुबीयो:मारीबीतवगाय:॥४॥
नमकोटेनोतछिवएे:मोहंतनंरे कांनः
मांनुपरनमंदरईहाः देषांतुनमुपवानं॥५॥
नागहणाङ्गीनोपमा.नापतनेहीमीटःनी
केङ्केरकेनीरषतेःबीनहरेईहेमीठनःडुः कु
वररसाएङ्गीयेरेमेःकुमुजनरावतायेःन.
वजवधुकेलावमारीःहारवीराजाः हीके
नवनतायकःनवनमीवःमेवटहा. कुन
न:रहङ्गरमीगतहेतेगः माकु

करीमीनी०, १८७६. प्र:मी

र.०१ १४ कत रेर. ११:

पवेगहीदोहीतकस्वंदनाहार ।।११ नरंगरंगीलीजी
पऊ:नारीकहेनुप:साकुदोगीरामयाकरी:संपकुली
कीसुप ।।११।। ...वीलीनायका सीतमऊकहे
...:संपकरोमुजऊपरे:मादलीमाकीमोज:।।१२
माजुमाजुबचमो:भुबवीर...:गीवदेष
नपरमानानंदे:नवलबधुकीगज:।।१३।।सोमनम
रकेकैसापर:मोनीसारकीमाव:दीपनमेउनीमाहले:
नाहरेसोकनसाव:।।१४।।सखीऊंकुलनायका:...
मककवणाग:पवऊजीकीन्मोषमा:मोऊसखीनकु
हाष:।।१५।।देषरंगीलीनायका:नायकपक जो हाथ:
करकुंकाकएऊनरहे:कौमदीकेमोनाष:।।१६।।सम
खीवदनऊदरवदन:बीन्मबीराजनमेष:बोहनकु
सीसीतमनके:नीजरागजरादेष:।।१७।।सखीवाम
सीदगारसाज:ऊदरसाबीधनमोष:सोहनजउए
जडावकी:कुऊंकुऊंहाथ:।।१८।।सजनसकेसीए
गारको:कोगदरबकेदोस:सखीपनावनलिएको:हम
माउमाकीहोस:।।१९।।सखीनांगुजरीगुजरी:बाग
नसजनीसोय:नातेनीकेसौएमन:पहीराव
सोय:।।२०।।नकहेकांमनीकंपऊ:नीमनकरबजु
व:हपसखीकबाकीजसहे:मोरेकेपहीराव:।।२१।।
सपमसामागमसोऊपर:बगीनरेनेबाघ:नवल
यकनीजगुंदीका:ईनकर[redacted]:।।२२।।हावल
रसीसोपनीरषया:कजनरबतनेग:लीसोजंन
पसकरएको:नीवचिंतवसकरवेग:।।२३।।न
वाकेईयरमानवीय:नवलनजपुननाज:सुंमा
...कहेऊंनत होकाज:।।२४।।

गवपरणीगोनागरी:[illegible]गनगनहे[illegible]गाय:नीप
शहरनाम[illegible]:मोकुंदीनेमगाप:॥२५॥जीवरी
गपोटए[illegible]मजे:मेरमामीगारनमोव:नीय
[illegible]गापडे:पेगपेहरणरमजोव:॥२८॥
रीगानजंपम[illegible]मनीमेजे:मोहानीइरजानी
मान:गेहला[illegible]पचडा[illegible]:पेहरणजोपग
मान:॥२९॥ मेरेपेगकुपारटा:जीगमवे
दोपडाय:[illegible]नापडीउझे:मेरे[illegible]
[illegible]॥३०॥[illegible]णमामीव[illegible]
मारीनीमडपाय:युडहीडेपहीरावही:म
ननाझोडेपदाण:॥३१॥मेहीरजाँणगुन
ऊपरा:गुपराहेपचडाण:इमूनापडजीण
मजा:जारनडरनहेआय:॥३१॥मामडेजी
मारनडरन:नीमरणडेहपनान:[illegible]
मडरमामाडरन:जेहउपायन[illegible]
ममनमागरवीहोनरे:मामनानीयाकुमी
मार:जानुमुपटावनीमाडकुरीवदव[illegible]
मार:॥३२॥जानुमुपणावनीमाडे[illegible]
नहोडपमार:मगुरकुवरमै[illegible]
डीपाकीगेडमार:॥३३॥ इनीनीगेह
णवनीमीरकुंहमगुरड:उहापाप
मारीजीरांणजी:ऊरहीपउ[illegible]हार:

।अथोषधपदीरो ।।पारागधकअम
लासारः मेणसलः धुकुनी सोमलखा
रः धुगसोपीको औहरतालः दांतांग
सुरअनजीरोः दारु हलुबसमचरवपीसा
इः नरमजरूपेः हवणगाइः नीरोलपेर
वारीनुनेरोः धुणानुटरतीपररखोःपाव
इन्धरतजपरपाइः नीलकुतीअगनल
गाइः धुगातरेनैरोरीपरोः धरतहुकरजर
तोमेपरोः नेधरतनुनषदनुलगाइः बंद
कुंभटरोगमटजाइः हमनउरमठाना
रहोः अरीअंड्रीनाहावलटोशीःगाया
नवचुसादीपहीगरसाहदरीनगरम्है
रामबगदगरथपरीलखः।।बा।। दोहाब
वरीनवारेमासमेंःलाकानामकहव
रीदपमवीरसाःनहकुमारदस्तस्ती
हेमबनमनीयों

अथमापरीछीदीन्त्रिकनैः ॐ पंचनुउ श्रीपावडीः गनृमी
गनाश्रीहार स्तुं रम्लेपदमनी. नंकाश्रीरेडहार: नंकासाश्री
मा ऽ:मुद्रसीबाई: उुवांडदिमागगीरदी: काबाश्रीकावश्रा
जायाः लक्नेलकेगार दुआयाः काडिनागदा: दमन
श्रीडीनपायाः मैहजः गरमादीपोडीपंडीः कांलेनागमैः
मचमक्वायाः स्तुंगमावीः उुंगपीत्नीः उगमाप्पीउ :
हापक्रलेना श्रीयाः मैहहोदिवाडेः मरपनमन्नश्रीयाह
पाःप ..एडे. मानेड.नानाक्रदुगा!नी:पेउं नेवरा
मक्रानोम: उुमाडमांनः क्रजमोनवीक्रानोमः ॐ नामी
हनरनवीरः गोगावीरः मोबअमामांनः पंनवीरः दम
नंगीरखडीदासआयाः ऽः गमुश्रीमागर. मेरीना. (: (
डीमन्नी छमारीयामाः ... मपुंड स्मागवारजेप मन्नूपाः
छीवतः ऐह पासपालीक्कसुंणीपैमनुनांघावे
नाश्रीवरद्दलंक्कअंगघोपेले तो घोपलेः नर
अंघीपारीपायेनां हेस्तुजेपथाः णानश्रीचीरा
के चितजोपेले तो जोपि ले: मांनसजनम्मेपा
रैसकमीलेगामूरुः श्रेममनुपेणारोहोयेले
तो हीपले: बेपलंगदेहतामेजनमनुधारः
कीहि: वीजके अमंक्रे मांतीपीयलेतोपायछें॥

श्रीबिन:श्रावतवीगानंद्रेत:नेसीसुनमोनदेव:स
ऊराषेहेनणारेहेरनीमहु:वीग्रहवनापमीने:मे
जापमीने:मह[redacted]मापाम
मीपनऊपावेपरमानहुवधावेपुरपरस्मावेनप
रहेकेहमस्रीमहु:ग्रंथनमेसोमजदारनीतहेव
नहारऐसेहेमदारयद्दरानणहहीमहे:।।
मीननीनपैमेगेदीम:श्रापवीनंपाऊनीमः
पनाहमनीमननावनजुवीनमे:स्वारपकटे
गुरमारनमीनेणार:हपटनीरधारऊरघा
मीहानमेःवोरीमेवउरवउराइमेनीहुनहे
मनयाहुपानहुनीनयाहुनीपानमे:।रेच
मीनामेनसोनेमीनसोनमे:सोदसोनोदीवी
स्त्रीवनश्रीपानमसीनमे:।।२

श्रीनारायणजीसहाय

।।जनारेनीयनरीलीछे।

श्रीश्रीमाव्र श्रीमाद्र पेसासुवाव्र
१ १ १

नीत्रपाव्र:पवीपाव्र: वधीरवाव्र
१ १ १

रपावः पीयाव

उजड़ मजोरी चगरपाला जड़ेसा.
१ २ १ ११

जीवनपीतापेटभुचौ अैसटा कैरताउपाईमुवौ
मिळैनीमरेजीवतांकीपहीनजाहैहातपाव
बिनरीकोटरिस्ंसुषुटमजारीकरेजेतमसु
[redacted]रहेकेदगीजंबारीजांवकीनारमावा
यैणजोपावौमनरंजणीअैअरथकरसुघा
नरानामेनेतुराईयणीवगेझगअगनपरख
रताजवतसुगंदअक्रामोकमतवृसतकवद्धुतः
सरसतंउवकिजासे उगधतपतहमपत:
यमतनां नभ्रिगविनुंहःतिवृतवरसहिंभु
पगजां धनपरघेनुएकदेनअंवपपरहे
नेपेहगंनपतउवरोकुववंतनारनजनल
कुवागेणेनअवगुणगुणकरेजोज्युंमुवौ
कसुकग्रहेग्रहेतापेवननपरषेनितोह
पेकुरंगनानवेणपेरनषेभ्रिगराजगजहु
पेअनषनषेनगनषेजोषमपंकयणमसे
षिरकौरेतुनषेउपीवरावनारदनुजः
२०। १८९७।२६।भुगि २०।७

श्री[illegible]

[illegible] नमोनंदी:

[illegible] साव मश्री छानजैत: नमो मू नमो नदी

नाकूरा पै लश्कर है रंगांमकी: वी ग्रह वन

निमै [illegible] नाथ यश्वानंसक [illegible] ना घीन

के: गो ग्रुमयं भवकूं पोप नाह पावै प्यरम

कुवधावैं पूसर जामैं नलावै र है के कम

के: ग्रथानमैं [illegible] दारनी १ वैसव न

सोके मदार पं राजान के कौ म के

जैनती न प मा ग धा म: कौ म मु न [illegible] जा म

[illegible] र वाप:

[illegible]

श्रीनाथजी [illegible]

[illegible] श्री [illegible] रनाथ

[illegible] गार ना हद [illegible] मडी [illegible]

[illegible] रहकं [illegible] मडी [illegible]

[illegible] रा मा पो [illegible] थर [illegible]

[illegible] बना [illegible]

[illegible] [illegible] परि [illegible]

[illegible] ऊमन्नी: [illegible]

[illegible] मना र: [illegible] नदी: [illegible]

[illegible] मड [illegible] ना बम न: [illegible]

[illegible] बाजू [illegible] नी [illegible]

[illegible] दा [illegible] नी [illegible]

[illegible] ना [illegible] गि [illegible] रिख नो [illegible]

[illegible]

र:न्यागीपारगाजगार:वेहगीमाहेल
ा:वहस्पीवपादार:गीगजमीनारीदाव
ी:उइडमीनाधित:ज्ञातिनसांमश्य
ामीवदेवपठ:गडीरागापनडी:सीम
ालीसणाइमनीर:वंगावमामरीनमइ:
ावशीनमइम्नारीसाणीजेगनास्पाइा
वी:ज्ञानमणीपारदिम:मामीरहवा
ालरणी:हुनिरअगीमीरख:गोरेमीर
कारसनमाहेनडी:कुडीइरस्वावाल:पा
ाडीश्रीपानजि:रहीचणांचरमाराने
रसारीनानीइवर:वागाइरणीतिह
स्रीमारउपनारी:लीपामाहेलीव
रीजवाहरजगमीसे:दीनेमइमीदीपार
ादवम्हमीवाननी:जारीनेमिवापा:
मीमीनेतीरनरस्पी:ज्ञानवणीडीइोर:
ापावराउडारणेवधवदणीमीरागीर
ानउमानवमुवेनउजा:पारोदमाउनाव:
ारामेहाद्गुहव:दिवमापव

सख्खगोजिभीजे:भैडूडरवलनुसा
सुजरवीवमङ्डु:नैछिड्वीखजन
वतेरवीसिङ्खेतवि:दीळडुळगाप:गै
गरमनळगनरी:छुतीनुमनङ्रङ्गु
हिङ्कैसरवगासीन:पस्मलछिञ्जीग
ररीडुरवेळगामग:वारपिङ्कउमा
गनङ्गीळगीराळ्जी:मीनिजरकड्मा
डुक्षारामनतीजा:इहरडरखीडासे
रमालिलिरमजी:डुनरमीगीङ्गैन:
ररवीलासारस्रोलेः:बळ्मादीगरव
नवानीरगनस्था:मालिलामाननररङ्गे
लमनळविलाप:सोगमोलेवीरचा:गा
लाररमलजनतीपिपडुकैलिमारहळ्डळाउ
रीलिजिवीगळ:डमचलमडुवार:स
रमजिडुवी:वीनिदिषलरीवाव:स
ङ्कैलीवालीमासी:जिलिदिचरकलावाकरा
गालागोलेडुगर:डुचलिकलिकडुबनः
लिमाजरमारानडी:पारचरमोगिमोनारि
[illegible]

त्रीयाभिमापज्ञाःउपन्ना
भिापचूणः उारदेरेगभ
लिमहि मिछगीःवर्णी
मारदनीवंद्रगोःनवनंबाम
लिाहवपडगान्नूगीःधुमरदे
पलीसारउेदूडीःगीवन्नरंगा
पाठरलीलीउमगदीःरसावर
मापडोनिीवरेःगीरीहरवभा
वाजगीउमगंनीःनंदुगीबमागरे
तीपुनारदनीःरहीयीगामरमा
मार्उमिगावरःवणपुजलीव
ावहुक बहरःवोषिभिजक्षमी
लपानप्रस्वरङ्गाःजानरपानगा
नबरलानि मोनोमीयीगाम
उनमासीमीगरेहेःविजुभेव्यवेिहे
जगापिउपानंदःमाहीप्यानारीःहर
रसमणभिगानंदोःनीपटरसोली
ापारनीनानरःरानोडीनीरगा

मदउपीरीउदडी:मीनमानंदगा
मौडउलीमिठगमपमी:रलौन्मानर
उमटडीदटउल्ली:उनगाहरमा
मरीपिनीभ्रवनमे:नुवनामदनक्षा
रगाठटटउंराधगां:उमेगीनीनश्चानंद:
उभ्रटनुनाः नमश्री उदपर्वद:।।३।।
ाउगुचटउहर:मायौवेनाक:नमर्व
उन्नापरा:मरमन्नापमाक:।।३।।बलीबो
नर्विनीपट:वीमीनमवित्रिन:नघउटैवी
पडै:नगरीटेमुंन्नानः।।३।।नागउर
वरमीउत्रीमाउवगं:इर्मरनानाहुंग
नवानराप न नः।।३।।उपत्रपांनीदग
मपनिरामान:टीनावदंपिडना:उगावे
गन:।।३।।मदउमंगीनीनरागीली:ग
नाप्नेमाप:श्रीगीडनीनवश्रीदुली:नीरग
मिनाव:नर्न्नीवनविमत्रपान्नेननट
न्नानहीन्नान:गटरागदरनुउवी:उपधा
[illegible]

नेलानोरोर:च्यापमामेन्नीनाच्यमरु
म्नापेटउणमार:गौंश्रीं उप ७ ७ प्र
ग्रापर:उरउउरद्रादीप:३२३२
नवमीमारीम्नुहेप:गौंसी वंपार्व
:मीहिगाल्पीमाप:३मारवहगोत्रीवमा
३ल्वैरेहोप:गौंश्रीं उप स्वगपक्नम्
रोगीलङपीवु:उरीचापादपोरो:उ
रंगामोल:गौंश्रीं वबलपमीविल्पम
३नारा८:नारविवउमल्पर ३उनारु
गंमरपगराम्नहामणे:दुपीवीमारीनो
पारणाङ:३मारसी:ममापदनारीमिक:
विवरमांमापदणं:नवमां वीमानिह:
नीवंगपोउरुमार:मीनमेनवनोणह
नोनीमापापनमा:रीपेडनीवीहोर:मी
... रीउम... :३२ ० राम ३ वार...
तीद्वमनुहणो:च्यानदुमारुपौउमंगमीम
गीरीमिमनी:र ... ३ रगा:...

दीमीभीङारउठि:नाठुँतीषानेत:स
मीमामाठडेँ:रम.।मीर्म :रटर:
रमीपीपुराउमी:ठवीरीगनकरीक्ष:
उरनीमनार्यंठ्रीरी:पीउरीधररीपीं
गउरनर्तमामसरी:इलीनीबपावाव
ीउनवीवठीमांरामानपरी:कलीक्षीमीध
मग्नीमापान्गनरी:दीन्उव्पजीन
रसगउीचारीमलनन:गईीमीउनउरः
उिउनमनमीउणानमनमीउीमनन्नापः
ननीरम्पीउकरःननगनरठीमीडाप:
रसनउरांघाँवणज्जी:नीठ्नीन्नान्नीनीः
नननरञ्वबापनी:उरीननरीनीगाँ
रजी:तीनमवरमीत्रीगं:दीच्मान्नीक्षु
मी:रीमीषगारीरान:कीनवनीपांवर्की
उज्जीरमवुमांरा:नाषक्षेपारीनाक्षी
दहीउपनांग:डाजमामानिजारीचीः
भीमरनवुठ:ज्जार:मनुरमानीमकरइ:
मनीगंर्त्रीउन्दहीःरमरठीरमीवमरवीदः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रीदोपीन्नाः धुनांकरशपिधुनां॥

लोवटन्कीगदीःदागदिहिरापोदिहिः मीमार

राडीउं झीदीःमायपिन्मातमाणए॥

[illegible]

डोउक्ष्मागपोःनीरवोइमोनार्भिं॥

रुसामिसन्मसमीरांःऊचह्मनाएन्तौ धुवः

मांनार्वीद्रावन्लीःन्नांगान्नमिक्षुवः॥

नउगोरणांमिमारमाःमीगिपाउपइउनार

रैजुपरैःवीवउिनागरायदः॥पु

मारमीज्ञ्वगाःझातवनीवीनव्वगानुःगा

त्रिपिमारपाःउपरलरीउहगा॥

रनारीमाउरीःगाव्मवनीवीपि [illegible]ःक्रि

रीमोहृषीःमीन्नीमारिमिदुवः॥

[illegible]

[illegible]

भिरसुमन्लीन्नापनीःधुिनमाक्लावीणयगाहेन्वी

वीनद्र वर्ण:नाभिप्रीवमना।ह:
नीहिनाग्रामिनर:नगीवगीमावीम
मापुसावसी:गारवोहमोनोमः।षुसीन
नरीपनी:वीहनारीक्सगंषाह:नापन
ग्रहस्रीमवी:नारुषसिजांनाह:गुर्ण
तिगानिरीरिंदीवि:ननउइरेमाक्षम
नंगमनानासारविगर:साममानउप्सा
ग्रमांनरीन्नापरीक्रैव्यवनरिदेह:
ज्य इम्हरगौरुक्ररगौवोहि।ड्ग।दुषाव
दिप्रव:वेहिगी नावरवीर:न्मेनगाजनी
नरु:मीवक्सनगामामीर:।ज्ञा
ज्ञाञ्चु:मानरीनीनरांउ:ननगीष्ण
गीवमी:कुरुकुगानराउ:।।षं।।मापवमान
न:मारिवीनांगीदीन:ङ्गेउषमापवस्रु
नरावांनरीनीन।।गीवानीवरमीवस
नाउरवीमाक:नापनवतिङ्कीङरी
नृर्हीमाल्ज:।बिऽ।।नाषीपीवमवमगमीनी
रीनिपि:पीमद्क्ववनीहि ।।:
।।ज्जा नाव्मवाद्हुरापगी:नाह नर्मा।
न:नामवनाविङ्कीङरी:नानीमामपद्दु:।

[illegible]
[illegible]
[illegible] बीर [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
पटा [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ाको गव:माानी गजमाप:ज
ााजेजीव:नही वाकमचारे:वीरहीव
ारजडाप:गनमावजाधापरहो:नवन
ानडाप:ाद्द ग्रानवेहेरहो हुवम:पांव
नहर:बेगीहिरही:वीथपरी जुड
ााार:ावन ओ्सपावापमीववना:थो
ावान:जुलीजापवनावनी:रा केरी
गीचीवसारननी असी:पोहर आसोाव
प:आमोपडारप:उ बासीग उकरी
ालेजु नपपे:उवनहीनानिसोग:देहरे
नन:ववनारेपीनवान:ाकाव लोक
रीनथे:इकोवेठनदाप:जुवगापेनाव
गावविलेडाप:ा७ गाजोमदेदानार
बुवा:उनबोमावरेदा:नाउराडदेप
लीहरीचीपनवााषाा डागदनाोदेव
आरमीनीवागाप:नगगिनानाथो
उदनविवीहरा:ावरोनोसंवथवहे
दा:कादनडा प:चाराउपची
:नीवनावबेडाप:ाव०पनावी

नन्ति:आसीदपानीत्माण:रपि:
नीश्रुङ्करत्राय:।भिवाच्छीछादाम
पि:श्रीनन्नासाजिन्यांडवुपाल्पिण:
ङ्क्षुरांडाक:।।वर्सनिपन्नासाजरोधे:
पनाङरार:हीपछुरस्मारीश्रीनरो:
नार:।रिंणापिनजपराघीग:कोनो:
नमण:दृष्टपमीत्रिघ्मीग:त्राए:।
ग्रीवनाप्रेमरस्मा:रगन्नोग:
नरमाग्पीछुपनीच्चि:रमी:
।छिछुङ्कर:भागीद्धिलो
ग:करस्मीछुप्रनि
मगणं:माह्मेपाछ
स्मावसी:मात्न
पीरुछुरत्ता:
मवक्षा:
ग्रवा:पवव
रस्मा:
र्

किांः माटःतमङ्ग रुडुपीरताः माहामा हामआ
ःसीङ्गमाँवा१रजारबेमाःश्रापधेहीवासेम
[illegible] राजम्रोम्रोअिहैवा५.ना [illegible] ।६२७२७८
रसीनानश्रीः [illegible] न्हर [illegible]

ाः सीयानुरंगपीवांतौपांःकुवमेकिगांमहरीः
ा ासवदेनेमाासपनरेः [illegible] तनीमहा
गानतायागभिनीःतांकधृनीरघगपाःकी
[illegible] धोमागमीःलद्धसीमा वीनिडपाः२
हाःसीजाठ रुइहनहुमगोपाः कीजहुरगो
नहुसःनिमाश्चधागरनवाःमिमानवा
णःनसंद्यासुवाःधुडीयावांनःजिमोडुरजे
ाामाम्भानः११हाठञ्ज [illegible] हीनौनवाःहाण्डु
हेवजीःवीनीरंगमि [illegible] श्रावजीवि
ीःर

॥(७)॥ अथ पिंगलजोत बावनरूपक रूपदीप लिख्यते ॥ सारदमा
तो तुम बडी बुधि देउ दरहाल ॥ पिंगल की भाषा कीये बरणु
बावनवाल १ गुरु गणेश के चरण गहि हिये धारके बिस्न
उमरेसबानी सबको जुगति करे जे किस्न २ पिंगलनाग
स्वयम कीयो छंदभेद अपार लघु दीरघ गण अगणको व
रघुगुरु विचार ३ रूपदीप परगट करुं भाषा बुद्धि मी
न ४ बांधक ऊं सुप होत है रूपजत अक्षरपाने ४ अथ लघु
बरनना ॥ केवल त्रिगोडी बरण अवर रऊकार देष कहिं बंद
केवयिक्ष चोथो लऊ विशेष ५ अथ दीर्घ बरनन ॥ आर
कसटयर हे अ वषान मस्तेतरऊ पायगुरु जुनकारव
जोन ६ अथ गणबरनन ॥ त्रिगण मे गण कहीइं जगण मगण
नगण यगण है रगण तगण पिंगल भणे ए आठ गण है ७
॥लक्षण॥ सरव आदि मध्य अंत्य गुरु तेते लिख जान
पिंगल कह्यो विचार के क्रम हि केम पदीन ८ अथ
फलाफल ॥ लक्ष्मी कीरत रोग भय आयु बुधि वि
नधार करे विनाश गमण करे फलतथो अफल
विचार ९ दग्धाक्षर वर्णन ॥ दग्ध वरण ए आ
वहे रूजधरघनर्षभयोय रूपकके पिंगलकहे
आदन देजो कोय १० अथ बावनरूपक नाम
कथन यंकरछंद ॥ सारग दोमक कंद केहीये
अवर मोतीदाम तोटक तादल नयन जोनु फि
रतुजंगी नाम कामिनी मोहन जानीय मेना व
ली सुनराय परिमाणिका मधि कायो है थी
पनारी याय १ मालती तिलका तरविमोह है
रागण अीण सोरठा गाह नालिंग गाह । संलि
कापहिचान चोपई और अडिल्ल छुपाल

तोमरदवीयेमधुनार अनुकूलहकल विचपा
दञोपवंगमभारस्सावलापधडी छंदकलीई
फिरडवइयाजीन चकरत्रिभंगीजटपदा मेरे
हवाफेरवर्षान लीलावती पद्मावती मिया
लपेडीहेय रसुकंडलीया कुंडलनी रेगिका
सणेयोय २ रेगी घनाछरड मिल्या मत
गयंदगनेह कडषा वर्षणुफलणा जेयम
वइयालेउ छप्पयवतायेफिरसाटक छंद
बावनपाय रावदरूपदीपवर्षानयंघह दी
येदिवादिपाय ४ अथमगणगणसुंसारंगीकामा छंद
॥जाणे आदे आ वोर्यंमायातोरजेलीजेहे पाएपाएतिथादे
हएसोचारेकीजेहे उरकोइभेदेनोहीपीचोमगणोवाणाहे
येसेवोल्याएसोछंदयोसारंगीजाणहे १ अथभगणगणसु
दोधकछंद॥ षोडसमंतकलीमहेजीतुह पिंगलसार अमल
वषाणुह देदराअंकसुधारवतावत सोइहदोधकछंदक
हावत २ अथजगणगणसुमोतीदीमछंद॥ कलीमधसार
जगणवनाय करोगणमंतह षोडशपाय वतावतयेसु
णोसुजनाम कहावतछंदसुमोतीयदाम ३ अथयगणग
णसुत्रोटकछंद॥ सगणागणचार विचारकरे कहेपिंगल
बारहअंकभरे उकतोलहमातहनेमगहे इहत्रोटकनां
महछंदकहे ४ अथनगणगणसुतरलनयनछंद॥ सुध
मुषवचनसरपकहि चउरनगनजुगतिगहि दशडयव
सुघरघर तरलनयननवरमकर ५ अथयगणगण
सुभुजंगीनामाछंद॥ सवेचारयगनकोनेमजाने
गणोवीसमंताकलीएकवीने इसीभेदजनेत्रेदनिश्चे
कहाइ कयोरायछंदभुजंगीप्रयाहे ६ अथरग
णगणसुकामिनीमोहनछंद॥ चाररागणकोसाध

स्येकरो । वीयमंताकली विवयाश्रेनरो मागवं
लीदेषकेजानए कामनीमोहनाछंदवषानए ७ अ
थतगणगणसुमेनावलीछंद । कारेजिहमारलग
ललेपाय वीयोयेनेहेमंताजलीजाय बोलात
वेयेयवानीकहीएहे मेनावलीछंदहयाजानेह ८
। अथनाराचछंद । जुगतजोडकेकलासुमारवीयलेनरो ।
वेनायअंकओलहेकलीयवारकेधरो सुएकएकअंत
रेलकगुरुवषानीये । कहेसुयेयनागनेनाराचछंदजा
नीये ९ अथप्रमाणिकाछंद ॥ लकगुरुविचारकेसु
एकएकधारिके कलीयवारकेधरो प्रमाणिकायसुम
रो १० अथमलिकाछंद । अंकआठकोविवेक दीह
लकयएक येयवेगकत्रिआंण मलिकायछंद
जाण ११ अथयेषनारीछंद । करोदोयगले उकस्ता
रमले स्योमतधारी कहेयेषनारी १२ अथमाल
तीछंद । जगलहीदोय कलीअठहोय कहेइहवी
द सुमालतीछंद १३ अथतिलकाछंद ॥ सगणाउच
रे गणदोयधरे षटअंकगहे तिलकायोकहे १४ ।
अथविमोहछंद । दोईरागणले अंकनेमिले दि
माकोनेमहे योविमोहकहे १५ अथछहछंद । ते
रेमता माप पद जुगत एकदशमल हहछंदसु
धारिके उचरलेकणपन्न १६ अथसोरठाछंद ॥
उलटाजानउरवातहजीनही पिंगलकरतव
षान छंदसोरठाहोतहे १७ अथगाहछंद । चाद
सकरीई अगारहबारहकरतिथधरीई येप्पा
येयवताई गाहछंदकहोइयनाम १८ उगाहछंद
॥ तिंयहोयकलाविषमेचरण समकीहपारहजान
नणेसुनहेपंचतुरुड उगाहपहिचान १९
हलिकाछंद पटकरआधोदोहद
यलमिलावे येयहलिकाछंदको ।

मत कहवें २० अथ चौपई छंद॥ करि अन्त मनाय
लमयाय उकउ कलि तरपल रहोय एसें भारो
कारे नाय सेस चौपई दरसावत जाय २१ अथ अडि
ल्ल छंद। सुधीर घकाने मन कीजे एसें ही उकर
चार सरीजे सोडय कला कली विचधारे छंद अ
डिल्ल से उच्चारे २२ अथ तोमर छंद॥
सोलहा करो इक आणि फिर होय [illegible] जगण प
न कहियें यउच्चार सें छंद तोमर धार २३ अथ
मधुभार छंद। गुरु मन चार फिर जगन धार जाणे
येसें स मधुभार दीस २४ अथ अनुकूला छंद॥ ए
क गुध्यारो जगण करीजें ता हितलें दोय गुरु गण
लीजे चार लघु दे फिर गुरु आवे सो अनुकूला
रगवतावे २५ अथ हाटक छंद॥ इक की कला
उठहक रो एसें बाल चित में धरो चौ कल एक
पंच कल होय बरणे येसें हाटक होय २६ अथ
चित्रपद छंद॥ भगण गुरु दे दो हैं अंक वसु मन मोहे
येकदस अक्षर विजाणे चित्रपद पहिचाणे २७ अथ
पवंगम छंद॥ करी इक गुरु आदि फेर दस सेन
रो सवमताइ कबीज अंतर गण करो [illegible] कम
हे गुरु गति भेद इक कोल है इह पवंगम नाम अनुप
नाक है २८ [illegible] छंद॥ [illegible] आदि
तीन दस फेर मिलावत [illegible] कम चौबीस कली
कौ न मगि नावत छंद [illegible] होय [illegible] के म
न भावत गुरु लघु [illegible] नाम के गुरु गति
दिखावत २९ पद्धरी छंद॥ [illegible] कर प्रथम फिर
[illegible] मिलाय गतिबोध समता पाय पाय इक
जगण अंत मेंधरीय सो अजरे पद्धरि छंद
होय ३० अथ [illegible] छंद॥ [illegible]

तिकलांयबषोडश नामेवाद्दश लावें आ
यकोनेमकलीमे ऐसेसारवनाको द
गाथ अंतमेराषो अक्षरनेमनकरणो इ
छको नामडवरया येयेनागमुषवरणे
यकर छंद ॥ करीइआदिविंशतिविचार
उयफेरगणदशजेऊ यवमत्तहेषटवी
इसमेअंतगुरुलजदेजे ऐसेगुभारोव
उक्त ऊनिमलविश्राम येयकहे पिंगलगुरु
येति छंदयेकरनाम ३२ त्रिभंगी छंद
पहिलेद्दशकीजे जेतीजे अष्टऔवलीजे षट
गुरा नागोकीरई जुगति करलमें वाश्ववा
येरा ब्रीयेश्रीनो कली वर्ष नोउकउके
वीनोइनछीं वाउरऊभावे चित्रऊलयावे
छंद कहावे त्रिभंगी ३३ अथदटपदा छंद
पहिली तेरहविरती है द्दशवऊरमिलावें
दो गुरुकीजे अंतमे उक्त ऐसेआवे यवम
नातेवीयकी कीसी वीरकाहवे दिटपदा छंद
नामहे फणपतिवतावे ३४ मरहठ छंद
पहिलेद्दशकीजे फिरअवजे तीजे इग्यारहमे
न यवछेगण तीर्थकलीकेनातेर अंतगुरुलऊ
अन इसमे कवुगणकोनेमनही ऐसी दरव
पीवीण पिंगलउचारें जेदविचारे छंद मरह
गर्जन ३५ लीलावती छंद ॥ पहिली इहवि
तिकरोअगरह जोवोदहफेरवरो
बनो मनलाछभा

नरो नाहि कछु गणित अंक की इसमें रुकारी
र घटे अंत गहो कीनी तबकसे गुरुडमें बा
... नावनालि छंद कहो ३८ पदमावती
छंद। इसकी विरति कला सवषोडश सुजी फे
ओड के दीजे तीसरे दोय कला मदिथा पक्ष बे
दोनो बरावरकीजे अक्षर नेमन इसमें
दीरघदोय अंत गिण आणो से सगुरु डंडु
... ति दिषावत सुं पोमावती छंद वषाणो ३९
... ता ॥ करिचार सो गुण धार चौग्पा बकर
बारह लीजए यब मंत कहे अववीस इसमें एक
पब उककीजए दीरघ लघु का नेद नहीं रगण
अंत वषाणए बोल्यो भुजंगजुग तिअंति छंद
... ताजीलए ३८ पेडी छंद ॥ शिवकी संप्र
... दि कीजो तिश्ल ले चौग्पा लाषए लघु दीरघ
नेमन ही यब आ ववी सगिनराषए वउर
सम के चा नमें रकरगण अंत में दीजए ययन
... की जुग तिचुनलि छंदा पडीकीजए ३९ अथ
रुउ छंद। कीजे कला प्रथम ति थिमनि दशए
... उपर तीज गिण दश पंच धराये फिरवो
... नेम पंचिमे करीये सजन
... की मोये सवषान तिसमें कि
... रुउ छंद पहिचान ४० अथ
... ॥ कीजे दोहा छंद पुर आगे रोमक
देक ... विचारके योउलालाले ...

केवररणमद हु दवनावकत्थकैउकैमैचौथीपक
जीकाजेमवनावकु कहीमेदनेवात तामकेंफ्री
योदीके मिलेजमकउआय लहाधुरिदोहकीजै ४१
अथकेक्व चौंदह । पढीयेगातुह्रव मरणरणतेव
करजलवलत्रेमें आगेरोफक आनडवरेदुपैरकेंमनं
नीवंद जहाजातीजाजीजै त्रेपनशेकैरमंत्र जोमडकैं
उकमेदीजे इमकाइहीप्रमाणं धरणकहुउरनंगठीइ
मिलेआदेउअंत रुपफिर गाहपढीइ ४२ रंगीकाछंद
॥कीजेप्रथमदकैमिलाय इनेतीजेअंथ्याय चौथे
वकुमोनेजेजुगतिप्रमान मतअपरकरोचलीजेवाले
इमनाग इमउगतिअपारदेषमिलतपिंडान जहांक
लीकाजेदनकोहज़ानतवडरलोय उकआरगोरसु
दलकआन आकोअरथ इमकेमाहि औरकहुने
दनाहि एसीचालगणछंदरंगीकोवषान ४३ अ
थछंदरंगिक ॥ गणिआदनवकरीये मातमातनरी
येदोयगोनधरीयेपंचनियहि अंतआगवीचकरणे
उकउकवरणे एलेचारोवरणेजुगतिगहि लघुदीरघ
जआनीयेकलीतजानीयेजमकपिंगनीयेथरण
लहे येयनामवेणकहेतो सुवनेमगहतो अरथउज
हेरंगीयाकहे ४४ घनाक्षरछंद ॥ मनहरा २१ ॥कीजि
येवरनकलहेषोम मवनाइकरिकरलियआनफिर
अंतउनधरीये अंकइकतीसकोप्रमाणजानएकउ
कएमेहीमिवारकैविचारकरनरीइ यामेलघुदीरघ
को ओरनेदकेहोनाहि सुनकेकविकविलचातुर
कोहरीइ एसोछंद जाकोनामछंदलोघनाछरीहे पिंग
लपुराणकहे एसीचालकरीये ४५ अथउमेलछंद

॥गाविश्राम्सुगन्मकेतेउकमेगबहरणेदवताव
लावतहे सववीसहकआरवनावत अबरमतन
तीअनिजावतहे इसरूपकमेदहिजिनदहेमन
सुव अगुद गिनावतहे कणवलिठकलिमुगति
दिगावतहे मिलबदकेहावतहे ४८ अथमलग
बदचहा मवयेओहलातरगनकुरोउकमेसव
मतगुरजुरपेरजगाव वीसह तीनवनाव
तअपरमतबतीस हिमेतमीजावेतलस
तलकुरेमिजकोतिजवालुरसुहितहेतवत
वे तागकुरेसुणगोविंदवाहन मतगयंद
छंदकहावे ४७ कुंडलाछंद श्रीगयप्रपमद
मखरदमतुमरे तीयारेव ऊरीदसयातश्रीमैं
तोगश्रावनतिएगुरतुमनमेधरो करत
तुअसारईसतलजोवे छंदकउलाकहोम
तपयोंवहो जुगतउतेदकुवतुरपावे ॥४८॥
अपचतुकलाछंद ॥ सोबेमोगउगंतओनेमस
तेतोनेउरतोज दउोनाहिंजीनो करोमा
ताजीदयापोगिनो गउनीवीदशासाप
गौनो कवीआरउवीयमेगोपिपेयीउह
मातुरनेहोईधारवीहे अहीसदावीलमा
ईहीतलहीसुईहीवातनीकृचुपोछंद श्रीहे
जयचालयईयाछंद ॥ पोडमयापीजादी

ईमवीजछुउन ।। अथ जिनरहो उत्कृ:गनहीम
नरएमेंराणकुं दीरघलघुउ कह गलदे कः ग
एसुंअगए विचारनफो ईविजनीवालढांचे
ईमबंद:सुगति विचारनेमवीतेअमरवर
नेमेंसमपईयाछंद:।।५०।। अथछपयछंद:
कवीत.लघुदीरघनदीनेममतनोवीमाकरीजे.ते
मेंदीउकनारचारनिगन्यारलारीजे.नामरस
सलहोपनअपरसमउकलीन्नानकुठव्यानेकी
चिरारेरनीचनेरकओनकु:दोउकवनावक
अंतकीखारनमेंअगवीमागकुलणेमेंम
सुणारूपुंमीगुरउछपयछंदकरनेठकु:।।५१।।
अथममाटकछंद:।।करीयेबादमअसेकआदि
मंगणमात्रासिंयोमागरेंदुजीलीकरकणा
गपंचवेअंकमजमागकुअंतेगुरुनिहारिये
रसावकेंअरोरीकुकुनेंदनीगीसोमतठनीम
अंकवरणेसेसोलएमाटक.।।५२।। अथदुहा
मागनवरनीयान.मावजेमीमोमेदुध:क
रतअरजकवीनेकीमान.करजकवीम्बरदु
यः।।५३।। सोरठो.नीजदुहकरणानाग:नि
एमेगीनकरारीमा:उनीमात्रकगउमा
ततेंमेंदीनागमाकरी:।।५४।। आकगकीया
नीकगन.नाभाउगमभानिम:कीरप
मगीकपाउ:ंगकरेमावमीम:।।५५।।

केसोवक्षीय.कुंपदीपरीदेह्यरे.पोच्न
भरक्वीहो.।।अपछाई.
गीत. सहर गांम मांड प्रजा थियै वि
लावियसुभी. मिटै कि सवाद थाउतं
नार. मार नुतातिकै रथ्यावै हाल
म. हाट नुनाति कि वंजुं जनहर ।।१।।
कैरहु नवफ.जीसाहरा कव्हरी. औ
पावैपलै आसुतानाज. तै छति न
कलतानै.जीकुडांनं. कथजिलन
आगेर नौकनगा ।।२।। कलीदीक
वती लिकुलेह.पणी.जागलीप
वती नजाओ थिया. नाउ
नतणी नुनकुं. कि जायतनुमाहे
कन जावतिया ।।३।। पोहजोकैवा
साहजरु. कुंबीया. जुण घडीयांत
लौहतोतेहो. मण नहिर हदरवा
रनैसनो जैयावरां कुणांतणा द
सो ।।४।। हुवै नासहा थियै नरद
वला. वाजतानुवासे वतावैड
जुनकुं नैनवहदराजासिरणा